सूर्योदय : 6:07
सूर्यास्त : 5:34
अधिकतम तापमान : 31.0
न्यूनतम : 18.0

RNI NO : UPHIN/2010/31173

डाक पंजीकरण संख्या:
SSP/LW/NP-422/2014-2016

वर्ष-17 अंक-151 पेज-16
मूल्य : 3 रुपया

लखनऊ, बुधवार, 08 नवम्बर 2023
23 रबीउस्सानी, 1445 हिजरी

हिन्दी दैनिक

अवधनामा

www.avadhnama.com

जाति गणना के आधार पर सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान

75% आरक्षण का प्रस्ताव पास

- सभी 94 लाख गरीबों को आर्थिक मदद भी
- बिहार में देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे जारी
- यादव-भूमिहार सबसे गरीब, कायस्थ सबसे संपन्न

पटना। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन असली चुनावी मोड बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान में राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार है।

जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ सभी गरीबों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही समाप्ति की घोषणा कर दी गई। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही यह बात आगे बढ़ेगी और सरकार इसी सत्र के बाकी तीन दिनों के अंदर सारे प्रस्तावों को अधिसूचना के रूप में जारी कर सकती है। बिहार की जातीय जनगणना के बाद आरक्षण प्रतिशत बढ़ाए जाने की मांग उठ ही रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसी बात को आगे बढ़ा भी दिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो प्रस्ताव दिया, वह अगर फाइनल हो गया तो बिहार की सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के लिए मात्र 25 प्रतिशत सीटें बचेंगी। सरकारी नौकरियों के बाद सरकार बाकी चीजों में भी यह आरक्षण रोस्टर लागू करेगी। पिछड़े वर्ग और अतिपिछड़े के लिए भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जो 50 प्रतिशत आरक्षण है, उसे हम 65 प्रतिशत कर दें। पहले से अगड़ी जातियों को 10 प्रतिशत है तो इस 65 प्रतिशत के बाद कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

बाकी एक लाख 20 हजार जो मकान बनाने के लिए दिया जाता था, वह भी दिया जाएगा। इन सबके लिए 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसे हमलोग 5 साल अंदर पूरा करेंगे। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जागएा तो इसे दो से ढाई साल में ही पूरा कर लिया जाएगा।

बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कार का हुआ एक्सीडेंट

अमरवाड़ा। अमरवाड़ा से सिमगांवी बायपास पर खकरा चौराई के पास केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रह्लाद पटेल सुरक्षित हैं। छिंदवाड़ा के एसडीएम सुधीर जैन ने कहा कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह वापस लौट रहे थे। यह हादसा गलत दिशा में आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान हुआ। इस बीच, आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को छिंदवाड़ा में पार्टी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के समर्थन में पदयात्रा का नेतृत्व किया।

छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में 70 प्रतिशत वोटिंग

- मिजोरम में भी वोटिंग का आंकड़ा 75 फीसदी के पार
- प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई बंद

रायपुर। देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज संपन्न हुआ। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। वहीं मिजोरम का मतदान भी संपन्न हो चुका है जहां विधानसभा की 40 सीटे हैं।

मिजोरम में 5 बजे तक के जारी आंकड़ों के अनुसार 75.80 फीसदी वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 70.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने गृह नगर कवर्धा में मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। 20 सीटों पर हुए चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी। ये 20 सीटें ज्यादातर नक्सली इलाकों में थी। यही कारण था कि सुरक्षा को लेकर सावधानियां बढ़ती गई थी। नक्सलियों की ओर से चुनाव के बहिष्कार की भी घोषणा कर दी गई थी। शाम पांच बजे तक इन सीट के लिए कुल 40,78,681 मतदाताओं में से 70.87 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई मतदान केंद्रों से अंतिम आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा संभालेगा इजरायल: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई रोके जाने के दिए संकेत

यरुशलम। इजरायल ने हमास के साथ हो रहे युद्ध के बाद भी अपनी सीमा और दखल बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि 365 वर्ग किलोमीटर वाली गाजा पट्टी में युद्ध के बाद वहां की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इजरायल संभालेगा।

जाहिर है कि यह जिम्मेदारी वैसी ही होगी, जैसी वेस्ट बैंक में इजरायल संभाल रहा है। वहां पर गठित फलस्तीन प्राधिकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, लेकिन सुरक्षा और अन्य प्रभाव वाली व्यवस्थाएं इजरायल के पास हैं। गाजा पट्टी में अभी हमास की राजनीतिक शाखा की सरकार है। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी के साथ साक्षात्कार में नेतन्याहू ने गाजा में राहत सामग्री के वितरण के लिए कुछ समय के लिए सैन्य कार्रवाई रोके जाने के संकेत दिए, लेकिन बंधकों की रिहाई के बगैर किसी तरह के युद्धविराम से साफ इन्कार किया है। गाजा में पर्याप्त राहत सामग्री की आपूर्ति होने देने और उसके वितरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लगातार प्रयासरत हैं। इसी के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल के दिनों में इजरायल और अरब देशों के दौरे किए हैं, लेकिन अरब देश गाजा में युद्धविराम की मांग कर रहे हैं।

अलीगढ़ का अब नया नाम हरिगढ़ होगा?

अलीगढ़। इलाहाबाद के बाद, उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख शहर नाम बदलने की तैयारी में है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव मेयर प्रशांत सिंघल ने एक बैठक में पेश किया और सभी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि कल बैठक में एक पार्षद संजय पंडित द्वारा एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का रखा गया। जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने पास करा दिया। अब इसे आगे भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शासन इसे संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की हमारी मांग को पूरी करेगा। यदि उत्तर प्रदेश सरकार अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है, तो इससे भाजपा शासित राज्य में स्थानों का नाम बदलने की संख्या बढ़ जाएगी।

हमारे लिए तो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप महान है: योगी

- हमारे पूर्वजों ने किया राम मंदिर के लिए संघर्ष: सीएम

देवास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। देश में नक्सलवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। देश के बच्चों को कांग्रेस अकबर महान पढ़ाती है, भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी और महारायणा प्रताप को महान पढ़ाती है। कांग्रेस के लिए भारत का इतिहास केवल नेहरू से प्रारंभ होता है। कांग्रेस के नेता खुद को एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ और कांग्रेसी पैदा हो गए।

देवास और शाजापुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की 142 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक परिवार मानते हैं। काशी विश्वनाथ में जाइए तो नई काशी का दर्शन होता है। केदारपुरी जाइए तो भगवान केदारनाथ का भव्य दर्शन होता है। उज्जैन में महाकाल महालोक आने पर आपको एक नई अनुभूति होती है। अब तो अयोध्या पुरी भी तैयार हो चुकी है। आने वाली 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कांग्रेस तो वह पार्टी है, जिसने भगवान राम और श्रीकृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। योगी आदित्यनाथ ने शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा इंदर सिंह परमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। 500 वर्षों के विवाद का समाधान भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारत की जनता को गुलामी की दृष्टि से देखने वाली कांग्रेस पार्टी फिर से भारत को गुलामी की ओर ले जाना चाहती है।

देश की संपत्ति अडानी के हाथों में: प्रियंका गांधी

- पीएम मोदी के पास किसानों के लिए नहीं हैं पैसे

रायपुर। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में प्रचार किया जहां पहले चरण के लिए मतदान हुए। छत्तीसगढ़ के कुरूद में चुनावी रैली में भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वे देश की संपत्ति चंद उद्योगपतियों को दे रहे हैं। आज देश के हवाई अड्डे और बंदरगाह अडानी को दिये जा रहे हैं। ये अडानी कौन है? अडानी आपके लिए क्या बनाता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि अडानी कितनी नौकरियाँ पैदा करता है? हम जानते थे कि टाटा ट्रक बनाता है, और बिड़ला द्वारा बनाई गई चीजें भी। अडानी और अंबानी क्या बनाते हैं? क्या कोई बता सकता है कि उनके यहां कितने मजदूर काम करते हैं? वे रोजगार के कितने अवसर देते हैं? वे आपके लिए कुछ नहीं बनाते। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पीएम मोदी ने 8 हजार करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। नया संसद भवन बनाने और सौंदर्यीकरण में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। जब उन्होंने करोड़ों खर्च करने की घोषणा की थी, तब गन्ना किसान बकाया राशि मांग रहे थे, काले कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर थे। तब मोदी जी ने कहा था- हमारे पास बकाया देने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने लिए हवाई जहाज खरीदने और संसद को सुंदर बनाने के लिए पैसे हैं।

जी 20 नेताओं की 22 को होगी वर्चुअल मीटिंग

नई दिल्ली। भारत सितंबर में समूह के शिखर सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों विशेष रूप से विकास एजेंडे और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 22 नवंबर को जी20 नेताओं की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। वर्चुअल लीडर्स समिट आयोजित करने के प्रस्ताव की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में की थी, हालांकि उस समय कोई तारीख तय नहीं की गई थी। लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूक्रेन में युद्ध के अलावा, कुछ सदस्य देशों द्वारा इज़राइल-हमास संघर्ष को भी उठाए जाने की उम्मीद है। अन्य जी 20 देशों की तरह, भारत ने इज़राइल पर हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा की है और शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष ने एक एजेंडे को भी अंतिम रूप दे दिया है जिसे जी20 सदस्यों के साथ साझा किया गया है।



बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सरचार्ज में मिलेगी छूट
आठ नवंबर से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। बिजली बिल के बकायदारों के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत बकायेदारों को राहत देते हुए बिल जमा करने का मौका दिया जाएगा। यह आठ नबंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा। उक्त जानकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी।उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 2023÷ (ओटीएस) से घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता लाभ ले सकते है। योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए 30 नवम्बर तक पंजीकरण राशि (31 अक्टूबर 2023 तक के मूल बकाये का 30 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय/विभागीय कैश काउन्टर अथवा up-pcl.org वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि संयोजन का प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने पर भी योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उपभोक्ताओं को घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा। ओटीएस योजना में तीन-चार किश्तों में पैसा जमा करने की छूट मिलेंगी। यदि भार 01 किलोवाट है तब उपभोक्ता एकमुश्त अथवा 12 किश्तों में एवं यदि भार 01 किलोवाट से अधिक है तब एकमुश्त अथवा 06 किश्तों में बकाया जमा कर सकता है। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31.03.2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31.10.2023 तक के बकाये पर की जायेगी।

वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे बिल संशोधन के अनुरोध

डीएम ने बताया कि बिल गलत आने पर बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ता सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, एसडीओ कार्यालय अथवा सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट ह्वश्चश्चष्ड्ड.शह्म्द्द पर उपभोक्ता कार्नर>सेवा अनुरोध>बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है एवं संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। बिल संशोधन के लिए क्षेत्रों/कार्यालयों/उपकेन्द्रों पर नियमित रूप से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। ओटीएस का लाभ पंजीकरण की तिथि से मिलेगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में शमन शुल्क की धनराशि पर छूट नही मिलेगी। आरसी जारी होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।

ऐसे जमा कराएं धनराशि

पंजीकरण की धनराशि उपभोक्ता अपना पंजीकरण अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर कराते हुए अथवा ह्वश्चश्चष्ड्ड.शह्म्द्द वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की पावती प्राप्त कर सकता है। इस पावती को लेकर उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा विभागीय कैश काउन्टर, जन सेवा केन्द्र अथवा ह्वश्चश्चष्ड्ड.शह्म्द्द वेबसाईट के माध्यम से पंजीकरण राशि जमा करा सकता हैं। उपभोक्ता एक मुश्त अथवा किश्तों की धनराशि को अपने मासिक बिल के साथ किसी भी कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी एवं मीटर रीडर अथवा वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकता है।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक

सीतापुर। आयुर्वेद दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। 10 नवम्बर को अष्टम आयुर्वेद दिवस मनाय जाना है। जिसकी थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ है। आयुर्वेद दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में बताया कि टैग लाइन हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरीडे रखी गयी है। इसको वृहद रुप से मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर को प्रभातफेरी, योग एवं स्कूली बच्चों की भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्कूल, कालेज एवं जनपद में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के परिसर में आयुर्वेदिक औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे। उसकी औषधीय गुणवत्ता के सम्बन्ध में जागरुक किया जाएगा। बैठक में डा सुरेश कुमार सचान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वैद्य केएस प्रजापति आदि मौजूद रहे।

जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 09 नवंबर को

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। युवा कल्याण विभाग एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की ओर से सदर ब्लॉक सभागार में 09 नवंबर को जनपदीय युवा उत्सव का आयोजन होगा। इसमें संस्कृति में समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोक गीत, जीवन जीने का कौशल कहानी लेखन, पोस्टर बनाना, शब्दपांडित्य, फोटोग्राफी, विषयगत प्रतियोगिताएं विशिष्ट थीम, किसी भी सरकारी प्रविष्टि पर दी गई थीम सहित कई लोक विधाओं के प्रतिभागी शामिल होंगे। उक्त जानकारी जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारी बलवीर सिंह ने दी।उन्होंने बताया कि ÷एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जनपदीय युवा उत्सव आयोजित होंगे। जनपदीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए जनपद के कलाकारों को आमंत्रित कर एक दिवसीय जनपद स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु नवीनीकृत लोकगीत, लोकनृत्य की विधाओं में ग्रुप व एकल रूप में से मंचन, कहानी लेखन, पोस्टर बनाना, भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी, तथा प्रदेश को आवंटित थीम की प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आने वाले कलाकारों के भोजन, विकास खण्ड से जनपद तक आने व जाने का मार्ग-व्यय, निर्णायकों का मानदेय, कलाकारों हेतु पुरस्कार एवं अन्य अपरिहार्य विविध व्यय किए जायेंगे। मार्ग व्यय हेतु रेल की द्वितीय श्रेणी/बस का किराया देय होगा। इस प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजयी कलाकारों को पुरस्कार भी दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर सभी विकास खण्डों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शिक्षण संस्थानों, डीआईओएस तथा उपर्युक्त कार्य से जुड़ी निजी संस्थाओं को भी पत्र भेजकर उनके यहाँ छिपी हुयी प्रतिभाओं को सामने लाने हेतु सम्बन्धित विधाओं में निपुण कलाकारों, जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष के मध्य हो, के विवरण (बायोडाटा) प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन कराया जायेगा।उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों का नाम जनपद स्तर पर वही लिखा जायेगा। जो उनके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में लिखा होगा। हाईस्कूल का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में उनके बैंक डिटेल से नाम लिखा जाएगा। साथ ही साथ प्रतिभागी के आधार कार्ड की छाया प्रति भी प्राप्त की जाय।उक्त कार्यक्रम 09 नवंबर को ब्लॉक लखीमपुर सभागार में कराया जा रहा है, जिसमें पूर्वान्ह 10 बजे तक उपस्थित होना होगा। कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 अधिकारी शाहपुरा कोठी, लखीमपुर प्रतिभागी अपने समस्त अभिलेखों के साथ सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

पराली जलाने पर किसानों पर 1.02 लाख जुर्माना

लखीमपुर खीरी। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करके पराली के प्रबंधन की कार्यवाही कराने के साथ ही सख्ती भी कर रहा है। प्रशासन ने फसल अवशेष जलाने वालों पर सख्ती करते हुए एक लाख दो हजार 500 रुपये का अर्थ दंड लगाया और 05 कंबाइन मशीनों को सीज किया।डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने पराली जलाने वाले किसानों से कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पराली न जलाएं, पराली जलाने से मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे की कमी हो जाती है। उन्होंने जनपद के सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को चेताया है कि कंबाइन मशीन के साथ स्ट्रारीपर अवश्य लगाकर ही कटाई करें अन्यथा कंबाइन सीज करते हुए आपके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अर्थ दंड लगाया जाएगा। डीएम ने सभी लेखपालों व प्रधानों को अपने ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कहा कि किसान पराली को गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के चारे के लिए दान कर दें। अधीन ग्राम पंचायत में पराली जलाई जाने पर लेखपालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान से के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।पराली जलाने वाले जिले के लोगो को का अर्थदंड लगाया गया है।

खाद्य विभाग ने छापेमारी करके लिए नमूने

अवधनामा संवाददाता

सीतापुर। लोगों मिलावटी खाद्य सामग्री से बचाने के लिए मंगलवार को खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सहायक आयुक्त खाद्य-अभय कुमार सिंह के निर्देशन में टीम-1 द्वारा महोली के चितहला में छापेमारी की। यहां पर कलाकंद एवं मिल्ककेक बनाते हुए गोविंद प्रसाद पुत्र नंदकिशोर एवं नंदकिशोर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय टुन्नी मिश्रा के यहां टीम पहुंची। यहां पर मकान के अंदर निर्माण एवं पैक किया जा रहा था। यहां से टीम ने कुल 3 नमूना खाद्य पदार्थ-मिल्ककेक, कलाकंद एवं लौंज मिठाई का लिया। वहीं मौके पर 3.14 क्विंटल मिठाई जब्त कर नष्ट करायी गयी। उरदौली बाजार में राधेश्याम स्वीट्स यहां से बूंदी लड्डू एवं मूड़ाहूसा बाजार में बतीशा का नमूना किया गया। छापेमारी टीम में राजेन्द्र प्रसाद, विनय कुमार, आलोक कुमार गुप्ता, दिवाकर, अजय कुमार शामिल हैं। टीम-2 के द्वारा तहसील महमूदाबाद में कुल 06 नमूनें लिए गए।। खोया 3, नमकीन 1 एवं छेना मिठाई 1, पनीर (01) के नमूनें लिये गये है। महमूदाबाद क्षेत्र की टीम में एसपी सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सुभाष बाबू यादव, शोभनाथ, प्रीति वर्मा, संदीप कुमार सिंह, प्रभु कुमार चौधरी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

अवधनामा संवाददाता

सीतापुर। भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मिश्रित तहसील प्रशासन को सौंपा है। समिति का का कहना है कि मिश्रित क्षेत्र में तेजी से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। समिति के जिला उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मिश्रित अजय त्रिपाठी को सौंपा। उन्होंने कहा कि मिश्रित के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान समय में डेंगू, मलेरिया बुखार का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की शिथिल तथा लापरवाही पूर्ण कार्य शैली के कारण ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में ना तो नियमित दवा ,ब्लीचिंग का छिड़काव हो पा रहा है। न ही फागिंग की व्यवस्था हो पा रही है। क्षेत्र में जल भराव तथा गंदगी के कारण मच्छर पनप रहे हैं। इस कारण लोग बुखार की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण प्रभावित क्षेत्रों, तथा नैमिष मिश्रिख नगर के मोहल्लों में विशेष अभियान चलाकर फागिंग तथा नालियों में दवा का छिड़काव किया जाए। तहसील परिसर में नियमित फागिंग, दवा ,ब्लीचिंग का छिड़काव हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मियों तथा ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए नियमित दवा का छिड़काव किया जाए। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुधीर शुक्ल राना, राजेंद्र अवस्थी, सतेंद्र शुक्ल, अजय पांडेय, आनंद यादव, ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी, आरडी वर्मा, बबलू जब्बार, जय प्रकाश शुक्ला, संजय रत्नू, ध्रुव तिवारी, आदि मौजूद रहे।

मारपीट में तीन घायल

सीतापुर। महोली कोतवाली इलाके के दूल्हामऊ गांव निवासी सुधा पत्नी सुधीर का गांव के ही निवासी रामसनेही पुत्र ओमप्रकाश से विवाद हो गया। तकरार इतनी बढ़ी की दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों ने आकर बीच बचाव कियां। तक-तक सुधा व उसकी पुत्री तथा दूसरे पक्ष से राम सनेही घायल हो चुका था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफमहोली कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने घायलों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस जांच की बात कह रही है।

ई-रिक्शा के साथ एक गिरफ्तार

सीतापुर। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम ने क्षेत्र के सुजावलपुर में छापमारी की। यहां पर पुलिस ने अनूप पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी सुजावलपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अनूप ने लूटा गया ईरिक्शा खरीदा था। उसने यह जानते हुए भी ई रिक्श्रूा को खरीदा, कि ई रिक्शा लूट कर है। प्रभारी निरीक्षक प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।

मनु लॉ कॉलेज में विधिक सेवा दिवस का किया जाएगा आयोजन

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर के निर्देशानुसार दिनांक 9/11 /2023 को मनु लॉ कॉलेज लखीमपुर में विधिक सेवा दिवस का आयोजन सुबह 10ः00 बजे से किया जाएगा जिसमें प्रमुख रूप से दीपेंद्र कुमार सिंह -प्रथम एच0जे0एस0 (अपर जिला जज), मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जिला प्रोबशन अधिकारी,समाज कल्याण अधिकारी,तहसीलदार सदर, कोतवाल खीरी समेत न्यायिक अधिकारी गण आदि मौजूद रहेंगे यह जानकारी सहायक प्रवक्ता संदीप वर्मा ने प्रेस को दी।

1 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त संजय उर्फ छोटू पुत्र रामसेवक नि0ग्राम मन्यौरा थाना फरधान जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 514/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमद भागवत कथा सुनने से होता है कल्याण

सीतापुर। महोली क्षेत्र के बिहट गौर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कल्याण होता हैं। इसलिए मानव को कथा जरूर सुननी चाहिए।

कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन करते हुए बताया जो भी भागवत कथा का श्रवण करता है और भागवत महापुराण का नियमित अध्ययन करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन श्रद्धालुओं को सुनाया। वहीं कहा कि कथा सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने से जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कथा समापन पर आरती और प्रसाद का वितरण किया गया।

बिसवां चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू

अवधनामा संवाददाता

सीतापुर। मंगलवार को हवन पूजन के साथ विधि विधान से दि सेकसरिया शुगर फैक्ट्री बिसवां में गन्ना पेराई सत्र 2023 -24 का शुभारंभ किया गया। मिल में गन्ना लेकर पहुंची बैलगाड़ी को तिलक लगाकर सभी को प्रसाद वितरण किया गया। मंगलवार को सेकसरिया शुगर फैक्ट्री बिसवा के मुख्य अधिशाषी अधिकारी रमेश चन्द्र सिंघल की अगुवाई में गन्ना पेराई सत्र वर्ष 2023-24 का शुभारंभ किया गया। फैक्ट्री प्रांगण में पंडित राम औतार आचार्य ने विधि-विधान से हवन-पूजन कराया। वैदिक वैदिक मंत्रो से डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। हवन-पूजन के बाद बैलगाड़ी को तिलक लगाया गया। सभी को प्रसाद वितरण करते हुए बैलगाड़ी तौल की कार्रवाई की गई। इस मौके पर बैलगाड़ी चालक राधेश्याम व ट्रैक्टर ट्राली चालक संतराम को अंग वस्त्र, पात्र, दक्षिणा व मीठा देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद गन्ना लेकर आए अन्य वाहनों की तौल शुरू की गई। मुख्य अधिशासी अधिकारी आरसी सिंगला ने लोगों से अपील करते हुए बताया की किसान साफसुथरा गन्ना मिल को उपलब्ध कराये। हर वर्ष की भांति किसान के गन्ने का पैसा समय पर उनके खाते में भेजा जाएगा। गान्ना महाप्रबंधक डॉ अनूप कुमार सिंह ने किसानों से अपील करते हुए बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष फैक्ट्री पहले ही चालू कर दी गई है। क्योंकि गन्ने का रकबा बढ़ा हुआ है। व उत्पादन भी ठीक है। थोड़ी सी परेशानी रोड बन रही है, इसको लेकर आएगी। जिसके समाधान के लिए रूड डायवर्जन भी कर दिया गया है। जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने बैठक में दिए निर्देश

अवधनामा संवाददाता

सीतापुर। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि पाइप लाइन बिछाने हेतु क्षतिग्रस्त की गई सड़कों का रिस्टोरेशन का कार्य मानकों के अनुसार समय से कराया जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही पाइप लाइन डालने हेतु सड़क काटने से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति अवश्य ली जाये। मानकों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अनुमतियां समय से जारी की जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाये। अनारंभ कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तत्काल आरंभ कराए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के सभी प्रोजेक्ट हेतु भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं

स्वयं का सप्लाई चेन बनाते हुये उच्च गुणवत्ता की सामग्री सभी निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायें एवं कार्यों का सघन पर्यवेक्षण एवं सत्यापन भी करें। जिससे अधोमानक सामग्री का कदापि प्रयोग न हो। निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का भी प्रभावी ढंग से अनुपालन हो। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, कार्यदायी संस्थाओ के अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम ने फतेहपुर संगत के ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार पर लगाई रोक

अवधनामा संवाददाता

सुलतानपुर। डीएम कृतिका ज्योत्स्ना ने शिकायतकर्ता सुरेश कुमार पुत्र परशुराम, ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व. सूर्य नारायण सिंह व अन्य निवासी ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत, विकास खण्ड जयसिहपुर जनपद सुलतानपुर द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुरसंगत में कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्रयुक्त शिकायतीपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच हेतु आदेश जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ल को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जिला पंचायतराज अधिकारी,सुलतानपुर द्वारा उक्त शिकायती प्रकरण की जांच करते हुए जांच आख्या डीएम को सौंपी, जिसका अवलोकन / परीक्षण किये जाने के उपरान्त शासकीय धनराशि का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता किये जाने की प्रथमदृष्ट्या पुष्टि होने पर नीलम देवी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत, ?विकास खण्ड जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर को उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत पत्रसंख्या 3210 दिनांक 30.08.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी प्रकार प्रकरण में उत्तरदायी पायी गयी। संगीता पाल, तत्कालीन पंचायत सचिव / ग्रा.प.अ. ग्राम पंचायत फतेहपुरसंगत, विकासखण्ड जयसिंहपुर,जनपद सुलतानपुर को जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्गत कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में नीलम देवी, ग्राम प्रधान एवं संगीता पाल, तत्कालीन पंचायत सचिव / ग्रा.प.अ., ग्राम पंचायत फतेहपुरसंगत, विकासखण्ड जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर द्वारा अपना पृथक-पृथक स्पष्टीकरण/ उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिसका अवलोकन / परीक्षण करके जांच अधिकारी द्वारा नियम 7 (घ) उत्तर प्रदेश पंचायतराज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 के अन्तर्गत मन्तव्य, कारण सहित निष्कर्ष दिया गया जो संतोष जनक नहीं पाया गया।

जिले में समारोहपूर्वक आयोजित होगा अष्टम आयुर्वेद दिवस

बहराइच। आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरि की स्मृति में धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य में 10 नवम्बर 2023 को ''हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद'' की थीम पर आयोजित होने वाले अष्टम आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन हेतु विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर. ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की मंशानुरूप कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करें। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बहराइच डॉ. रंजन वर्मा ने बताया कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मा. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी की मंशा है कि आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाया जाय। डॉ. रंजन ने बताया कि आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में औषधि उपवन विकसित करने के साथ-साथ आयुर्वेद को व्यवसाय से जोड़ने हेतु छात्र-छात्राओं, आमजन व व्यावसायिक लोगों के मध्य के आयुर्वेद के महत्व का प्रसार किया जाय।

बौद्ध महासभा जंतर मंतर में करेगी प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

अवधनामा संवाददाता

मौदहा हमीरपुर। केंद्र सरकार पर गरीबों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए और बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड गठित करने के साथ ही दोहरी शिक्षा नीति खत्म करने की मांगों को लेकर अखिल भारतीय बौद्ध महासभा अन्य संगठनों के साथ आगामी 26 नवम्बर को राजधानी के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेगी। कस्बे के एक गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव और बुण्देलखण्ड प्रभारी दयाराम अहिरवार ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार गरीबों, दलितों और पिछड़ों के साथ ही आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है।इतना ही नहीं केंद्र सरकार द्वारा नये बने लोकतंत्र के मंदिर के साथ ही लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र की बुनियाद रखने का काम किया है और राजतंत्र परम्परा के प्रतीक सिंगोल की स्थापना की है जिससे मानवाधिकार के रक्षकों के साथ ही लोकतंत्र के अनुयायियों में भारी आक्रोश है इसलिए सिंगोल को फौरन हटाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। संगठन के बुण्देलखण्ड प्रभारी ने सरकारी संसाधनों के निजीकरण और इवीएम से चुनाव पर रोक लगाने की बात भी कही।इस दौरान आमंत्रित भीम आर्मी के पूर्व संयोजक संदीप बाल्मीकि ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस दौरान सामाजिक न्याय परिषद से सुनील, हरभजन बौद्ध, सुखदेव बौद्ध, अनिकेत सूर्यवंशी सहित अन्य युवा मौजूद रहे।

कई लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

2 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत

अवधनामा संवाददाता

मौदहा हमीरपुर। अवैध शराब निर्माण व बिक्री के विरुद्ध आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में उच्चाधिकारियों के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी हमीरपुर के निर्देशन में आज दिनांक 07-11- 2023 को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 (मौदहा)एवं प्रवर्तन-1 चित्रकूट धाम के साथ मय अधीनस्थ स्टाफ के थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम तिलसरण में दबिश दी गई।दबिश के दौरान लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गईद्य तथा दूसरे ग्राम भुलसी करमाथोक थाना सिसोलर में 21 लीटर अवैध कच्ची शराब के

साथ लगभग 150 द्मद्द लहन मौके पर नष्ट किया गयाद्य जिसमें 02 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आबकारी अधिनियम की सुंसगत धाराओं में कार्यवाही की गई द्य जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण/ बिक्री/ परिवहन की रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्य निरंतर जारी रहेगा।

साइलेंट किलर है उच्च रक्तचापः डॉ. राजेश्वर

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। उच्च रक्तचाप, एक वैश्विक साइलेंट किलर है जिसने दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआईआर) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, लगभग 29 प्रतिशत वयस्क इस स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। सरोजनीनगर विधायक, डॉ. राजेश्वर सिंह, इस गंभीर स्वास्थ्य चुनौती को लेकर अपनी चिंता और विचार व्यक्त किये हैं।

विधायक राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के माध्यम से 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों की जांच करने और उन्हें मानक देखभाल पर रखने के लिए

महत्वाकांक्षी 75-25 पहल शुरू की। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, भाजपा सरकार ने 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान-भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्थापित किए हैं और टेलीमेडिसिन व डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की हैं जो 14 करोड़ लोगों तक पहुंचती हैं। डॉ. राजेश्वर सिंह मानते हैं कि उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन राष्ट्रीय प्रयासों के अलावा, उन्होंने समुदाय-आधारित पहलों का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली होली पर 01-01 रिफिल सिलेंडर निःशुल्क मिलेगा

अवधनामा संवाददाता

मैनपुरी। जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने पूर्ति विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपस्थित गैस डीलर्स से कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आच्छादित जनपद के प्रत्येक लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष में 02 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने के शासन के निर्देशन का कड़ाई से पालन करें, प्रत्येक गैस डीलर अपने यहां के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 एल.पी.जी. सिलेंडर रिफिल निःशुल्क वितरित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि जो डीलर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक रिफिल गैस सिलेंडर को सरप्राइज गिफ्ट के रूप में पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिला प्रशासन ऐसे डीलर को सम्मानित करने का कार्य करेगा, जो डीलर्स इस योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करेंगे, ऐसे डीलर को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विभिन्न

एजेंसियों के उपस्थित डीलर से कहा कि योजना का शुभारंभ दि. 10 नवंबर को होगा, प्रत्येक डीलर अपने यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित कराकर जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में प्रथम चरण के अन्तर्गत पहला निःशुल्क सिलेंडर माह नवंबर से लेकर माह दिसंबर तक उपलब्ध कराया जाएगा जबकि दूसरा सिलेंडर होली के पर्व से पूर्व जनवरी से लेकर मार्च के मध्य पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। श्री सिंह ने उपस्थित डीलर्स, खाद्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि सरकार ने त्योहारों के अवसर पर गरीबों का दुख-दर्द कम करने के उद्देश्य से निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सभी गैस डीलर्स इस योजना को सफल बनाने की दिशा में कार्य करें, दीपावली के त्यौहार से पूर्व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक निःशुल्क रिफिल गैस सिलेंडर सरप्राइज गिफ्ट के रूप में उपलब्ध कराने में अपना योगदान देकर सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने पूर्ति निरीक्षक को आदेशित करते हुए कहा कि अपनी-अपनी तहसील के अवशेष लाभार्थियों के बैंक खातों को प्राथमिकता पर आधार से लिंक करने में अपना योगदान दें, 10 नवंबर को अपनी-अपनी तहसील के गैस डीलर्स के यहां कार्यक्रम आयोजित कराकर लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाए। उन्होने कहा कि योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, ऐसे लाभार्थी जिनके बैंक खाते अभी आधार से लिंक नहीं है, वह तत्काल ई-के.वाई.सी. कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रिफिल सिलेंडर प्राप्त करते समय निर्धारित मूल्य अदा करना होगा, अदा की गई पूरी धनराशि बैंक खाते के माध्यम से अगले 02-03 दिन में लाभार्थी को बैंक खाते के माध्यम से वापस मिलेगी। जानकारी करने पर जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 01 लाख 57 हजार 160 लाभार्थी है, जिनमें से 01 लाख 24 हजार 761 लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक है जबकि 32 हजार 399 लाभार्थियों के बैंक खाता का ई-केवाईसी होना शेष है।

डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय उज्ज्वला समिति की हुई बैठक

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बैठक संपन्न हुई। जिला स्तरीय उज्ज्वला समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल प्रथम चरण माह नवम्बर से दिसम्बर 2023 तक एवं द्वितीय चरण में माह जनवरी, 2024 से मार्च, 2024 के बीच वितरण किया जायेगा। जिन उज्जवला गैस कनेक्शन धारी का आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वे अपना आधार प्रमाणीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजनान्तर्गत सर्वप्रथम लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर के अनुसार भुगतान कर 14.2 किग्रा0 का सिलेण्डर रिफिल प्राप्त करेगा, जिसके 3 से 4 दिन के उपरान्त दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में ऑयल कंपनियों द्वारा अंतरित कर दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बन्धित गैस एजेन्सी इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे तथा संबंधित तेल कंपनियों के विक्रय प्रबन्धक पंपलेट आदि छपवा कर प्रमुख स्थानों पर चस्पा करायेंगे। आपूर्ति विभाग कुशीनगर भी अपने उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से उपरोक्त योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। लीड बैंक मैनेजर जनपद के समस्त बैंकों से समन्वय कर उपरोक्त योजना से आच्छादित गैस कनेक्शनधारियों के बैंक खाते से आधार लिंकेज का कार्य पूर्ण करायेंगे।

जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 174374 लाभार्थी आच्छादितः डीएम

अवधनामा संवाददाता

उरई (जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल प्रदान किये जाने के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। उन्होने कहा कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में माह नवम्बर 2023 से दिसम्बर 2023 तक तथा द्वितीय चरण में माह जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक निःशुल्क गैस सिलेण्डर लाभार्थी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होगे उन्हें ही निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किया जायेगा।

उन्होने कहा कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 174374 लाभार्थी आच्छादित हैं। जनपद में 38488 लाभार्थियों के केवाईसी पूर्ण है जिन्हे ऑयल कम्पनी द्वारा आधार प्रमाणित

खातों में सब्सिडी हस्तान्तरित की जायेगी, शेष 135886 लाभार्थियों के ई-केवाईसी कराये जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों को अभियान चलाकर उक्त लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करेगे। इसी प्रकार बीसीटीसी से एसीटीसी कराये जाने हेतु अवशेष 45 प्रतिशत लाभार्थियों के कार्य को योजनाबद्ध ढंग से संबंधित ऑयल कम्पनी द्वारा गैस डीलरों के माध्यम से पूर्ण कराया जाना हैं। लाभार्थियों को इस योजनान्तर्गत सिलेण्डर रिफिल एवं प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने में आने वाले समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया जा चुका है जिनके माध्यम से इस कार्य की मॉनीटरिंग व आने वाली समस्याओं का समाधान कराया जायेगा। जनपद में 36 गैस ऐजेंसियां कार्यरत हैं। उन्होने कहा कि प्रथम चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल का वितरण किया जायेगा, तदोपरान्त जैसे-जैसे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित होते जायेगे उसी क्रम में उन्हे उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुये निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी डा.मनोज कुमार उत्तम, आईओसी के नोडल जरीम अकरम, एचपीसी सेल्स गुरदीप सिंह चावला आदि संबंधित मौजूद रहे।

जन-जन तक पहुंचाए चिकित्सा का लाभः रमापति राम त्रिपाठी

देवरिया अवधनामा संवाददाता। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सभी कम्यूनिटी हेल्थ आफिसरों को लैपटाप और प्रिंटर दिया गया है। वह जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं और विवरण आन-लाइन फीडिग करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह बातें मंगलवार को मुख्य अतिथि सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने सीएमओ सभागार में कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर (सीएचओ) को लैपटाप और प्रिंटर वितरण के दौरान कहीं। उन्होंने 39 सीएचओ को लैपटाप और प्रिंटर वितरित किया। सांसद ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य भारत का सपना पूरा करने के उद्देश्य से सभी को भागीदारी निभानी है। जन-जन को चिकित्सा का लाभ पहुंचाए। बरहज विधायक दीपक मिश्रा ने कहा कि लैपटाप और प्रिंटर से सीएचओ को काम आसान हो जाएगा और दक्षता भी बढ़ेगी। सभी डेटा सुरक्षित रहेगा। जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों को घर के पास ही स्वस्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ एंड बेलनेस सेंटर्स के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा कराई जा रही है। सभी सीएचओ अपने दायित्वों का निर्वहन सेवा भाव से करें। शत प्रतिशत सेवा देकर मरीजों को इलाज उपलब्ध कराएं। सीएमओ डा. राजेश झा ने कहा कि सभी सीएचओ निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय चंद, डीपीएम पूनम, डीसीपीएम राजेश गुप्ता सहित सीएचओ मुस्कान, नीरज सहित अन्य उपस्थित रहे।

श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक में संगठन के मजबूती और दिया गया जोर

अवधनामा ब्यूरो

30 दिसंबर तक सदस्यता शुल्क जमाकर नवीनीकरण कराने की अपील

कुशीनगर। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय संपन्न हुई। संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद श्रीवास्तव की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक मे पूर्व की कार्रवाई पर चर्चा करते हुए संगठन के विस्तारिकरण, मजबूती व पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ चर्चा की गई। बैठक का संचालन जिला महासचिव संजय चाणक्य ने किया। बेठक के पश्चात पत्रकारो का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की।

संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की आवाज को सरकारी मुलाजिम और सरकार तक पहुंचाने का काम करने वाले पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इसे श्रमजीवी पत्रकार कभी बर्दाश्त नही करेगा। उन्होंने कहा कहा कि पत्रकारों में आपसी फूट डलवाकर अधिकारी पत्रकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमजीवी पत्रकार संगठन से जुड़े पत्रकार कमजोर नहीं। उन्होंने अगामी माह कुशीनगर में आयोजित होने वाले प्रादेशिक सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा करते हुए रुपरेखा तैयार की बात कही।

बैठक मे उपस्थित कलमकारो ने संगठन के विस्तारण व मजबूती पर जोर देते हुए पत्रकार उत्पीड़न के मामले को मजबूती से उठाने, सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों की सूची सभी विभागों व थानो पर भेजवाने, अपने ही जनपद मे आने-जाने के लिए टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्त करने, पत्रकारों पर लगे किसी आरोप व मामले को पहले सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराने के बाद दोषी पाये जाने पर ही कार्रवाई करने, सहित तमाम विन्दुओ को बड़ी ही मजबूती से उठाया गया। उसके बाद सभी पत्रकारो ने ध्वनी मत से सभी प्रस्तावो पारित किया। महासचिव संजय चाणक्य ने संगठन की सदस्यता व नवीनीकरण के लिए निर्धारित 30 दिसंबर तक सभी पत्रकार साथियों से अपनी सदस्यता शुल्क जमा करने की अपील की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार मिथलेश्रर पाण्डेय व ज्योतिभान मिश्रा ने कहा पत्रकारों मे एकजुटता बहुत जरूरी है। बीबी त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पाण्डेय, शम्भू मिश्रा, दीपक मिश्रा, पवन मिश्रा, परमेश्वर यादव, राकेश श्रीवास्तव, विनोद गोड, अभय मिश्रा ने संगठन की मजबूती व अप्रैल माह मे वार्षिक सम्मेलन कराने पर जोर दिया। इसके पश्चात पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर विभिन्न मुद्दों पर पर चर्चा किया।

डीएम ने जिला पोषण समिति कन्वर्जेन्स विभाग व आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र की समीक्षा की

अवधनामा संवाददाता

उरई (जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जिला पोषण समिति, कन्वर्जेन्स विभाग व आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र की समीक्षा बैठक कलैक्ट्रेट सभागार कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, एनआरसी में बच्चों का संदर्भन, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, अधिकारियों द्वारा गोद लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं तीव्र अतिकुपोषित (सैम) बच्चों को दुधारु गाय उपलब्ध कराने के विषय पर विस्तृत समीक्षा की।समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा केन्द्र के सभी बच्चों के वजन की निगरानी तथा ग्रह भ्रमण नियमित रुप से किये जाये तथा माह के अन्त तक शत-प्रतिशत फीडिंग पोषण ट्रैकर पर पूर्ण करायी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री फर्जी रुप से वजन व ग्रह भ्रमण की फीडिंग न करे। तीव्र अतिकुपोषित (सैम) श्रेणी के बच्चों की काउन्सलिंग कर चिकित्सक के परामर्शानुसार एनआरसी में भर्ती कराया जाये। बाल विकास परियोजना अधिकारी कोंच, माधौगढ़, जालौन तथा नदीगांव की फीडिंग प्रगति सबसे खराब होने पर चेतावनी दी गयी। समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र नियमानुसार खुलने चाहिये तथा केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार, वजन, टीकाकरण एवं लाभार्थी पंजिकायें वास्तविक व अद्यतन होनी चाहिये। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी अधिकारियों को शासन द्वारा संचालित हॉट कुक्ड मील योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

फॉर्म वेबसाइट से प्राप्त करें

मैनपुरी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा पाण्डेय ने बताया कि उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सेकेण्ड्री (मुंशी, मौलवी) सीनियर सेकेण्ड्री आलिया कामिल एवं फाजिल की वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरे जा रहे हैं, परीक्षा फार्म मदरसा पोर्टल की बेवसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पोर्टल पर रजिस्टर्ड मदरसे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से डिजीटली हस्ताक्षरित अग्रसारित किये है, उन्ही मदरसों के छात्र-छात्राएं वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह होंगे, मदरसे की मान्यता तक ही फार्म भरे जायेंगे, निर्धारित शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरांत मदरसों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरे जायेंगे, परीक्षा शुल्क दि. 18 नवम्बर तक जमा किया जा सकेगा, परीक्षा फार्म भरे जाने से सम्बन्धित दिशा निर्देश परीक्षा फार्म मदरसा पोर्टल की उक्त बेवसाइट पर उपलब्ध है। उन्होने मदरसे के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्योंद्वारा छात्र, छात्राओं का परिषद की सेकेण्ड्री (मुंशी, मौलवी) सीनियर सेकेण्ड्री आलिम कामिल एवं फाजिल परीक्षा वर्ष 2024 के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मदरसा पोर्टल पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ है, परीक्षा वर्ष 2024 हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराने की अंतिम तिथि 18 नवम्बर है।

लोकतंत्र के मन्दिर संसद भवन एवं संविधान में पूरे देशवासियों की है आस्था

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। 74वें संविधान दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय परिषद एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26.11.2023 को संविधान के सम्मान में लोकतन्त्र बचाने तथा देशवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्र स्तरीय विशाल धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन संसद भवन के समीप जन्तर मन्तर पर किया जायेगा। इस एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन में देश भर से लगभग 30 राज्यों के अम्बेडकर व बुध के अनुयायी एवं संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थक भाग लेंगे।

यह विचार सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनगर भैया जी ने सामाजिक न्याय परिषद के केन्द्रीय कार्यालय स्थित एम0के0 अपार्टमेन्ट, ए0पी0 सेन रोड, चारबाग, लखनऊ में व्यक्त करते हुए बताया कि

केन्द्र सरकार भारत के संविधान में तमाम संशोधन कर पिछड़े/ दलित/ आदिवासी / अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षण एवं देशवासियों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात करने का षडयंत्र रच रही है। इसके अलावा यह भी कहा कि दिनांक 28 मई 2023 को नये संसद भवन के उद्घाटन के समय संविधान के विपरीत लोकतंत्र के मन्दिर में राजतंत्र की पुरानी परम्परा की प्रतीक सिंगोल की स्थापना से देशवासी विचलित हुए हैं और देश भर में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोकतंत्र के मन्दिर संसद भवन एवं संविधान में पूरे देशवासियों की आस्था है, जिसमें हमारे सभी संविधान प्रदत्त अधिकारों की गारन्टी दी गयी है। इसलिए सिंगोल को संसद भवन से हटाया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा गरीब - अमीर के लिए दोहरी शिक्षा प(ति को हटाकर एक समान शिक्षा नीति लागू की जाय तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाये। जातिगत जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में सभी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दी जाय। दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों का आरक्षण कोटा पूरा किया जाये। विधायिका में पिछड़ों एवं महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाये। न्यायपालिका में भी जनसंख्यानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाये। देश के संसाधनों एवं

समाजवादी डॉ डॉ. नवल ने पूजा के साथ की आरती

अमृतपुर फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी डॉक्टर डॉ नवल किशोर शाक्य कैंसर सर्जन ने अमृतपुर में हो रहे आदर्श रामलीला परिषद अमृतपुर में आरती में भाग लिया। इस मौके पर अध्यक्ष आदर्श रामलीला परिषद अमृतपुर रामदुलारे अवस्थी, मुख्य मेला प्रबंधक शैलेश कुमार अवस्थी, कौशल किशोर अग्निहोत्री, सुरेश चंद्र पाठक, सुनील कुमार अवस्थी तथा प्रशांत अवस्थी, आशुतोष अवस्थी, गोपाल सक्सेना, सूर्यांश अवस्थी, रंजीत शुक्ला आदि लोग मौके पर मौजूद रहे।

एसपी की नई पहल से पुलिस महकमा होगा दुरुस्त

फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। पुलिस महकमे को कानूनी रूप से दुरस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने एक नई पहल के तहत एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। मंगलवार को पुलिस लाइन फतेहगढ़ के आरटीसी प्रशिक्षण केंद्र पर जिले के थाना, चौकियों व पुलिस कार्यालयों एव विभिन्न शाखाओं में प्रभारियों की तैनाती को लेकर लिखित परीक्षा कराई गई। जनपद के 74 निरीक्षक व उपनिरीक्षक लिखित परीक्षा में शामिल हुए 100 अंक की एक घंटे की लिखित परीक्षा में कानूनी ज्ञान से संबंधित 27 लिखित व वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। एसपी ने कहा कि लिखित परीक्षा पास करने बालों में से कुशल व दक्ष पुलिस निरीक्षक व उपनिरीक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। एसपी ने कहा कि परीक्षा के आधार पर पुलिस कर्मियों की दक्षता की जानकारी के साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता का भी आंकलन करेंगे। इसी आधार पर थाना, चौकियों व पुलिस कार्यालयों एवं विभिन्न शाखाओं में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी।

मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती ने की आत्महत्या

लखनऊ अवधनामा संवाददाता। व्यक्ति का तनाव दिन पर दिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वह जीवनलीला समाप्त करने का फैसला कर रहा है। वहीं कहीं कहीं पर ऐसा भी वाकया प्रकाश में आता है जहाँ व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होकर मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है और विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है।ऐसा ही मानसिक स्वास्थ्य से जुडा हुआ ताजा मामला प्रकाश में आया है जहाँ एक युवती ने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। पूरा घटनाक्रम लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का है जहाँ सदरौना निवासी अशोक रावत घर पर नहीं थे तभी उनकी 18 वर्षीय पुत्री जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी जिसका इलाज चार साल से लगातार चल रहा था। वहीं मानसिक रूप से परेशान युवती ने फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं युवती की मौत से आहत पिता ने पारा कोतवाली में तहरीर देकर बेटी की आत्महत्या की वजह स्पष्ट करने की मांग की है।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में नगरवासी लाभान्वित

सूरापुर अमबेडकर नगर अवधनामा संवाददाता। नगर पालिका परिषद टाण्डा व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टाण्डा की संयुक्त प्रबंधन में लगातार चल रहे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में नगर वासी लाभान्वित हो रहे है। उसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टाण्डा क्षेत्र के मदरसा मन्ज़रे हक़ व कम्पोजिट स्कूल सकरावल पूरब सलार गढ़ मैदान अलीगंज व वार्ड नम्बर 12 के मुबारक पुर में फ्री सवास्थ्य कैम्प मंगलवार को लगाया गया जिसमे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों को लगाया गया था । जिसका लाभ नगर वासियों ने डेंगू प्रभाव को देखते हुए उठाया। इस सम्बंध में सा0 स्वास्थ्य केंद्र के ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक मो0 इसराइल ने बताया कि 07 नवम्बर 2023 को अर्बन टांडा में लगाए गए 4 स्वास्थ्य कैंप की संकलित रिपोर्ट.में कुल देखे गए मरीज- 237 मरीज देखे गए।

डीएम व एसपी ने घाटों का किया निरीक्षण

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। भक्ति एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने मंगलवार को पडरौना स्थित छठ घाट रामधाम पोखरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर पडरौना और नगर पालिका परिषद पडरौना अधि अधिकारी से छठ के दौरान लगभग आने वाले छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में पूछा। पृच्छा के क्रम में उपस्थित अधिकारियों ने बताया की यहां इस महापर्व के दौरान लगभग 50 हजार श्रद्धालु आकर पूजा पाठ करते है।

जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को पानी से जलकुंभी (खरपतवार) हटवाकर घाट की साफ-सफाई, वैरिकेडिग, विधि व्यवस्था

संधारण करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। सभी घाटों की सफाई करने के साथ ही साफ पानी भरने का निर्देश भी दिया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि जिन घाटों पर पानी अधिक है वहां पर बांस और रस्सी की सहायता से बैरिकेडिग करा दिया जाए ताकि कोई दुर्घटना न हो सकें। सभी घाटों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी छठ घाटों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी पर्व यथा छठ पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं सुचारू यातायात प्रबंधन के लिए सभी अधिकारी एवं समस्त पुलिस कर्मी सजग एवं तत्पर रहे।

डीएम की बैठक संपन्न

फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी संजय सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर को वितरित किये जाने के लिए कार्य योजना के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गयी। इस दौरान बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी बिरेंद्र सिंह यादव उपजिलाधिकारी, सदर गजराज सिंह समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकगण तथा गैस वितरक उपस्थित रहे। समस्त अधिकारियों,गैस वितरको को दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि इस योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में माह नवम्बर 2023 से दिसम्बर, 2023 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी, 2024 मे मार्च, 2024 तक निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल प्रदान किया जाना है। जनपद में 157133 उज्जवला योजना के कनेक्शन है जिसमे अभी तक 54997 उज्जवला योजना के लाभार्थियों के केवाईसी अपडेट है। अवशेष 102136 उज्जवला योजना के लाभार्थियों के केवाईसी का अपडेशन कराये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा समस्त गैस वितरको को कड़े दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

छात्रसंघ बहाली की मांग छात्र नेताओं ने सौंपा पत्रक

ग़ाज़ीपुर अवधनामा संवाददाता। पीजी कॉलेज गाजीपुर के छात्र नेताओ प्रतिनिधि मंडल ने छात्रसंघ चुनाव अतिशीघ्र कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी से मिलकर पत्रक दिया। छात्रसंघ प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से छात्रसंघ चुनाव अनिवार्यतः कराने हेतु उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेशों एवं शिक्षा मंत्री भारत सरकार तथा उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का जिक्र किया। जिसपर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि हम शासन से पत्राचार कर एक सप्ताह के अंदर चुनाव कराने हेतु महाविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीधे पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिसका उल्लंघन महाविद्यालय प्रशासन व जिला प्रशासन कर रहा है। छात्र नेता डॉ शम्मी सिंह ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव न कराना मौलिक अधिकार का हनन है।

उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश ने सदन में एक सदस्य के प्रश्न के जबाब में ये स्पष्ट कहा कि प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया जा चुका है फिर भी इस तरह के नजरअंदाजी जिला प्रशासन व महाविद्यालय प्रशासन के तानाशाही को दिखाता है। छात्रसंघ प्रतिनिधि मंडल में शामिल छात्र नेताओं मे आकाश कुमार चौधरी, अभिषेक कुमार चौरसिया, कन्हैया चौरसिया, विकास यादव, शैलेश यादव, प्रशांत सिंह, विकास तिवारी, अनुज कुमार, निखिल, प्रिंस इत्यादि मौजूद थे।

पेयजल परियोजना का डीएम ने किया निरीक्षण

फर्रुखाबाद अवधनामा संवाददाता। जिलाधिकारी ने ग्राम पुठरी में जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को जल्द से जल्द कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मौके पर बताया गया कि टार्गेट 720 के सापेक्ष 680 कनेक्शन पूर्ण हो गए हैं।

सत्ता सदन संगठन में भागीदारी ही तय करेगी कि पसमांदा समाज किसके साथः वसीम राईन

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। कांग्रेस व समाजवादी में कोई अंतर नही है। दोनों मन कर्म और वचन से जोड़ीदार हैं। धोखा देने की फितरत में बेहद शातिर। राजनीतिक पहचान की बात की जाए तो दोनों ही स्वार्थी स्वभाव के हैं। वोट लेकर रंग बदलना तो इन दोनों दलों से कोई सीखे। आज पसमांदा मुस्लिम समाज की बदतर हालत के लिए यही दोनों दल व इनके मुखिया जिम्मेदार हैं। यह बात आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा कि दशकों देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज अपने वजूद के लिए जूझ रही संघर्ष कर रही। यही दशा यूपी की समाजवादी पार्टी की भी है। दोनों ही दलों के आकाओं ने समाज मे फूट डालो और राज करो का उसूल बनाया और उसी पर चलते रहे। समाज का भला तो नही कर पाए पर अपनी पार्टी का और परिवार का भला जरूर कर लिया। इनकी नीति और नियति में हमेशा से खोट रहा है। मतलब निकालो और सत्ता पाते ही सब भूल जाओ इन दलों की फितरत रही है जो आज तक नही बदली। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर दोनों ही दल के नेता मतलबी और बदनीयत न होते तो 85 फीसदी पसमांदा मुसलमान का हाल आज बद से बदतर न होता। कांग्रेस ने आर्टिकल 341 के तहत धार्मिक प्रतिबन्ध लगाकर इस समाज को अंधेरे में कैद रखा तो सपा ने वोटबैंक बना डाला। सपा ने तो राज्यसभा में भी भागीदारी से वंचित कर दिया जबकि यूपी में इनका वजूद बनाने में पसमांदा ने कोई कसर नही छोड़ी। दोनों ही पसमांदा वोटों के सहारे सत्ता में लौटते रहे पर इस समाज से किसी को संगठन, सत्ता व सदन तक पहुंचने का मौका कभी नही दिया। इनकी कुटिल चाल से अनजान पसमांदा मुसलमान बस इनका कद बढ़ाता रह गया पर हालात बदले हुए हैं यही समाज अब जागरूक होने की राह पर आगे बढ़ चुका है। अब वह स्वार्थी दलों के प्रपंच में न फंसकर सही रास्ता चुनने के काबिल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सपा जैसे दलों को भली भांति यह जान लेना चाहिए कि पसमांदा समाज उसी के साथ रहेगा जो हिस्सेदारी की बात करेगा। फिर वह चाहे जो कोई हो।

राजकीय स्कूल व धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण

बाराबंकी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को भ्रमण करते हुए धान क्रय केंद्रों के अलावा राजकीय हाइस्कूल का निरीक्षण किया। डीएम ने तहसील नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत संचालित सफदरगंज मंडी में विभिन्न धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उपस्थित किसानों से संवाद लिया। वहीं मौके पर उपस्थित क्रय केंद्र प्रभारियों से, धान क्रय की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी प्रकर नगरपालिका परिषद नवाबगंज अंतर्गत संचालित बड़ेल हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण कर उपस्थित छात्र, छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए।

राजकीय स्कूल व धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को भ्रमण करते हुए धान क्रय केंद्रों के अलावा राजकीय हाइस्कूल का निरीक्षण किया। डीएम ने तहसील नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत संचालित सफदरगंज मंडी में विभिन्न धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उपस्थित किसानों से संवाद लिया। वहीं मौके पर उपस्थित क्रय केंद्र प्रभारियों से, धान क्रय की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इसी प्रकर नगरपालिका परिषद नवाबगंज अंतर्गत संचालित बड़ेल हाई स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण कर उपस्थित छात्र, छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए मौके पर उपस्थित अध्यापक, अध्यापिकाओं को आवश्यक निर्देश दिए गए।

भाजपा के डीएनए में है गरीबों का अपमान करनाः पीएल पुनिया

बाराबंकी। गरीब का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है। देवरिया के सदर भाजपा सांसद डा0 रमापतिराम त्रिपाठी का गरीब विरोधी बयान भाजपा की मनुवादी सोच तथा उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। आज जब देश 21वीं सदी में प्रवेश करके चन्द्रयान और मिशन आदित्य चला रहा है ऐसे समय में भाजपा सांसद द्वारा गरीब को अपमानित करने वाला बयान उसके जख्मो को कुरेदने वाला है जिसके लिये देश का गरीब उन्हे और भाजपा सरकार को कभी माफ नही करेगा। गरीब के स्वाभिमान से खेलने का हक न तो भाजपा सरकार को है न उसके किसी बयान बहादुर सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को इस देश के गरीबो से अपने बडबोले सांसद के गरीबो को अपमानित करने वाले बयान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करना चाहिये और बयान देने वाले बडबोले सांसद पर ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में कोई गरीब को अपमानित करने के बारे में सोच न सके। भाजपा सांसद को याद होना चाहिये कि देश के प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर सन् 1968 में हरित क्रान्ति की शुरूआत की थी जिसे भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा गांधी ने उस हरित क्रान्ति योजना को आगे बढाकर देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना दिया था और आज भाजपा सरकार मुफ्त का राशन देकर गरीबो पर एहसान जताने का काम कर रही है। हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने भोजन का अधिकार कानून देकर गरीब के स्वाभिमान की रक्षा करते हुये मनरेगा में काम देकर 2 रूपये में गेहूं 3 रूपये में चावल देने का काम किया था।

मानव जन्म मिलना भाग्य की बात, देवता भी तरसतेः बालमुकुंद

मसौली बाराबंकी। पक्का तालाब हनुमान मंदिर त्रिलोकपुर मे चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित बालमुकुंद द्विवेदी श्री राम व कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। पंडित जी ने कहा की ये जो मानव जीवन मिला है यहां कोई साधरण रूप नहीं है मानव रूप का जो पुतला है बहुत हि कीमती है इस शरीर को प्राप्त के लिए देवता भी लालाईत रहते है अगर इस मानव मणी को पाकर अगर मानवता नहीं है तो क्या वो मानव है। वह इस धरती पर भार स्वरूप यहां है। शरीर एक साधना का धाम है हमारा धर्म है। मानवता को समझना ये मानव रूप सीधे मोछ का धाम है आप मोछ के द्वार पर खड़े है ये मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है ये देवताओ को मिलना दुर्लभ है इस मानव शरीर के समान संसार मे कुछ भी है हि नही।

मण्डलायुक्त ने भक्ति पथ का किया निरीक्षण

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। मण्डलायुक्त गौरव दयाल ने नगर आयुक्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण विशाल सिंह के साथ निर्माणाधीन रामपथ का नयाघाट से श्री हनुमानगढ़ी तिराहा तक पैदल चलकर विकास प्राधिकरण द्वारा सौन्दर्यीकरण

हेतु कराये जा रहे फसाड कार्यो का पथ पर पड़ने वाली एक-एक दुकानों,भवनों, मठ/मंदिरों का भौतिक निरीक्षण किया।निर्माणाधीन राम पथ के मीडियन को बेहतर फिनिसिंग एवम बेहतर रंगों का प्रयोग करने तथा एलायमेंट एक सीध रेखा में रखने के निर्देश दिये।निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने पथ के किनारे स्थित दुकानदारों भवन स्वामियों से अयोध्या के सौंदरीकरण हेतु कराये जाने वाले कार्यो में सहयोग की अपील करते हुये कहा कि पथ निर्माण एवम फसाड डिजाइनिंग में आप सभी का योगदान सराहनीय है।डिजाइनिंग के उपरांत दुकानों के आसपास आप सभी की जो वस्तुएं अव्यवस्थित ढंग से रखी हो उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से रखें, जिससे देखने में और आकर्षक लगे तथा सभी दुकानदार व्यवस्थित ढंग से अपनी दुकानें लगाये। स्थल पर उपस्थित अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दुकानदारों को अपनी दुकानों में वॉर्म लाइट लगाने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिये। अगले चरण में मण्डलायुक्त ने भक्ति पथ का निरीक्षण किया तथा राजद्वार पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने के निर्देश दिये और भक्ति पथ के शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

कुलपति ने पांच दीए जलाकर दीपोत्सव की सफलता के लिए मनोकामना की

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन के सभागार में प्रातः कुलपति प्रो0 प्रतिभा गोयल ने प्रान्तीयकृत दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए प्रभु श्रीराम के चित्र के समक्ष पांच दीए जलाकर मनोकामना की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशानुरूप दीपोत्सव को अलौकिक बनाने के लिए आवासीय परिसर, सम्बद्ध महाविद्यालयों, इण्टर कालेजों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के 25 हजार से अधिक वालंटियर्स लगाये गए है। इनकी मदद से 51 घाटों पर 24 लाख दीए प्रज्जवलित करेंगे। इसकी तैयारियों में गठित समितियां घाटों पर सक्रिय हो गई है। पिछला रिकार्ड तोड़ते हुए पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज करेंगे।

दीपोत्सव की सफलता के लिए नोडल अधिकारी प्रो0 संत शरण मिश्र, कुलसचिव डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र, वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ला, परीक्षा नियंत्रक उमानाथ, प्रो0 सिद्धार्थ शुक्ल, मीडिया प्रभारी डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी सहित अन्य भी मनोकामना की। दूसरी ओर दीपोत्सव को तैयारियों को लेकर कुलपति के दिशा-निर्देशन में परिसर से प्रातः 10 बजे यातायात समिति के संयोजक प्रो0 अनूप कुमार, डॉ0 सुरेन्द्र मिश्र की देखरेख में बसों से वालंटियर्स को राम की पैड़ी के लिए रवाना किया गया। जय श्रीराम उद्घोष के साथ वालंटियर्स का दीपोत्सव के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। करीब एक हजार वालंटियर्स एवं विवि के कर्मी राम की पैड़ी के घाटों पर स्टोर किए गए पांच-पांच सौ दीए के गत्ते घाटों पर रखवाने शुरू किए गए। वितरण एवं सामग्री समिति के संयोजक प्रो0 सिद्धार्थ शुक्ला व प्रो0 गंगाराम मिश्र की निगरानी में घाटों पर दीए की सप्लाई प्रातः से ही शुरू कर दी गई। देर रात तक 51 घाटों पर 24 लाख दीए की सप्लाई पूरी हो जायेगी। दीपोत्सव नोडल अधिकारी प्रो0 संत शरण मिश्र ने बताया कि दीपोत्सव की भव्यता के लिए घाटों पर दीए के गत्ते पहुँचने शुरू हो गए है।

अब डाकिया 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का भी करेंगे प्रचार-प्रसार

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। अब डाकिया डाक बाँटने के साथ-साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ÷ का भी प्रचार-प्रसार करेंगे। अयोध्या मण्डल के प्रवर अधीक्षक डाकघर एच के यादव ने बताया कि इसके लिए मण्डल के सभी पोस्टमैन स्पेशल बैग इंडिया पोस्ट के लोगो युक्त से डाक वितरण करेंगे, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। इसके अलावा डाकिया जनता को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी जागरूक करेंगे । अब पोस्टमैन के स्पेशल बैग में रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट व पत्रों के साथ साथ सुकन्या समृद्धि तथा अन्य विभागीय योजनाओं का पम्पलेट, फार्म रखेंगे इससे ग्राहक डाकिया से खाता खुलवाने का लाभ ले सकेगा । इसके साथ ही प्रवर अधीक्षक डाकघर एच के यादव ने कहा कि बेटियाँ देश का भविष्य है और राष्ट्र निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार के अभियान 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' के अन्तर्गत सभी लोगों का दायित्व है कि बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए एक सार्थक कदम उठाएं। एच के यादव ने कहा कि गाँवों में 10 साल तक की सभी बेटियों के खाते खुलवाकर उन्हें ÷सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम में बदला जायेगा। मात्र 250 रुपये से सुकन्या खाते खुलवाये जा सकते हैं। बेटियां ही 21वीं सदी में हमारे देश का भविष्य हैं। श्री यादव ने लोगों से रूबरू होते हुये कहा कि भारत सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में तमाम महत्वपूर्ण योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इसी क्रम में डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना में धन जमा करने से माँ-बाप अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभायेंगे। इससे बेटियों को आर्थिक व सामाजिक रूप से भविष्य में मजबूत किया जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, महिला सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा में सुकन्या समृद्धि योजना राष्ट्र निर्माण में सहायक होगी।

उन्नतिशील किसानों की आय हो रही दुगुनीः रामचन्द्र यादव

रूदौली ब्लाक में आयोजित हुआ किसान गोष्ठी

अवधनामा संवाददाता

भेलसर- अयोध्या। कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय कृषि निवेश मेला एवम सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अन्तर्गत किसान गोष्ठी का आयोजन ब्लाक रूदौली के प्रांगण में मंगलवार को सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राम चन्द्र यादव ने बताया कि किसान गोष्ठियों में प्रगति शील किसान व कृषि वैज्ञानिक अपने विचार रख कर किसानों को उन्नति खेती करके अपनी आमदनी दूनी करने के लिए प्रेरित करते है । हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की भी यही मंशा है। खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं में जागरूकता की वजह से उत्तर प्रदेश आज सबसे आगे है। किसान पहले अपनी फसल उपजाने के लिए साहू कारो से रुपए ऊची ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे वही आज का किसान बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर कम ब्याज पर खेती किसानी कर रहे है। हमारे बीच से मोटे अनाज गायब होने लगे थे जिसे सरकार ने फिर से किसानों को मोटे अनाज को बोने के लिए प्रेरित कर उन्हे मोटे अनाज के निशुल्क बीज किट वितरित कर रही है। किसानों को खेत में पराली न जलाने के लिए भी कहा।कार्यक्रम का संचालन एडीओ एस बी भगवान दीन व अध्यक्षता उप निदेशक कृषि संजय त्रिपाठी ने किया।इस दौरान गोष्ठी में किसान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमे सही उत्तर देने वालो किसानों को विधायक राम चन्द्र यादव ने किट देकर सम्मानित किया।इ

स मौके पर प्रगति शील राजेश पांडेय,जगदीश प्रसाद मिश्रा,पवन तिवारी, एसडीओ शैलेंद्र प्रताप सिंह,राम गोपाल कृषि वैज्ञानिक मसौधा, सहायक विकास अधिकारी बंस भूषण सिंह,गोदाम प्रभारी अनिल कुमार गौड़ संजय कुमार यादव,आत्माराम चतुर्वेदी,राम चंद्र मौर्य,हीरालाल मौर्य , शिवा नन्द मिश्रा,अरविन्द कुमार शास्त्री सहित लोग मौजूद रहे।

स्कूल तक पक्की सड़क निर्मित करवाने के लिए लगाई गुहार

बीकापुर- अयोध्या। खजुराहट मिल्कीपुर मार्ग पर स्थित गुरुकुल चिल्ड्रन एकेडमी को जोड़ने वाला चक मार्ग अतिक्रमण की चपेट में आने के कारण स्कूली बच्चों के लिए खतरे का सबब बन गया है। चकमार्ग की बदहाली का आलम यह है कि 4 मीटर चौड़ा चक मार्ग मौके पर ढाई मीटर ही सिमट कर रह गया है। स्कूल के प्रबंधक रामचंद्र श्रीवास्तव ने तहसील प्रशासन को चकमार्ग के अतिक्रमण की जद में आने की शिकायत तो की है मगर ग्राम पंचायत मजरुद्दीनपुर में तैनात राजस्व कर्मियों की घोर उदासीनता के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

धूमधाम से मना चित्रगुप्त मन्दिर का तीसरा स्थापना दिवस

अवधनामा संवाददाता

महराजगंज। श्री चित्रगुप्त महासभा के तत्वावधान में नगर के बिस्मिल नगर मोहल्ले में चित्रगुप्त मंदिर का तृतीय स्थापना दिवस मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कायस्थों के आराध्य देव चित्रगुप्त की महिमा और कायस्थों के संबंध में खूब चर्चा की गई। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह मंदिर स्थापना का तीसरा दिवस है। जिसको लेकर कायस्थ समाज के लोगों में काफी उत्साह हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त कायस्थों के आराध्य देव है, कायस्थ समाज के लोग कलम दवात की पूजा कर अपने आराध्य देव को समर्पित करते हैं। संस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भक्तिमय संगीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने उत्साहवर्धन किया। श्री चित्रगुप्त सभा के पदाधिकारियों ने सदर विधायक जय मंगल कनौजिया जी व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जयसवाल जी कलेक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण बिहारी लाल श्रीवास्तव जी डॉ प्रमोद कुमार जी डॉ पीके श्रीवास्तव जी डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव जी डॉ चंदन कुमार श्रीवास्तव जी जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव

जी अंकुर मणि त्रिपाठी जी प्रमुख संरक्षण मंडल श्री चित्रगुप्त सभा महाराजगंज श्री राधे श्याम श्रीवास्तव जी डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव जी श्री राज नारायन लाल श्रीवास्तव जी श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी श्री दीपू श्रीवास्तव जी को माल्यार्पण व बुके स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत किया गया। अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज के लोग समाज की प्रगति के लिए हमेशा आग्रही रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें काफी लोगों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान विधि विधान से पंडित शैलेश कुमार मिश्र ने पूजा सम्पन्न कराया जबकि पूजा कार्यक्रम में अध्यक्ष आरसी लाल की अगुवाई रही।इस अवसर पर उपाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव जी, महामंत्री राकेश बिहारी लाल श्रीवास्तव जी, संगठन मंत्री का आकाश श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव जी, वरिस्ठ कार्यकारिणी सदस्य दुर्गेश श्रीवास्तव जी,अमोद श्रीवास्तव जी, दीपचंद श्रीवास्तव जी, डॉ अमित श्रीवास्तव जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी,डॉ0 ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी,अरुण श्रीवास्तव जी, डॉ नवीन श्रीवास्तव जी, अतुल प्रताप श्रीवास्तव जी,सत्यानन्द श्रीवास्तव जी, विकाश श्रीवास्तव जी, राजेश सिंहा जी, सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव जी, प्रभात सक्सैना आदित्य श्रीवास्तव आशुतोष श्रीवास्तव उत्कर्ष श्रीवास्तव दिलीप श्रीवास्तव संतोष श्रीवास्तव जी कौशल किशोर श्रीवास्तव जी मौजूद रहे।

केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में अयोध्या नगरी :लल्लू सिंह

अयोध्या। जनपद के मुख्य मार्गो के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के चौड़ीकरण किए जाने के लिए सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होनें मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों की वह सड़के जो लम्बी दूरी की हों उनका चौड़ीकरण किया जाए। ऐसी सड़कों की चौडाई को 7 से 10 मी. तक बढ़ाया। तथा उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में अयोध्या नगरी है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में जनपद में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहा है। अयोध्या में परिवाहन की बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त यहां श्रृद्धालुओं का आवागमन काफी बढ़ जाएगा। जिसको देखते हुए जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़के जो लम्बी दूरी को जोडती हों। मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अयोध्या आने में सुविधा हो। जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र भेज कर अनुरोध किया गया है।

किसानो को नैनो यूरिया एवं डीएपी की दी गई जानकारी

अवधनामा संवाददाता

सिसवा बाजार(महराजगंज)। विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा सोफड़ा में मंगलवार को इफ्को, सहकारी गन्ना विकास समिति व गन्ना विकास परिषद सिसवा बाजार ने संयुक्त गोष्ठी आयोजित कर क्षेत्र के किसानों को नैनो यूरिमा एवं नैनो डीएपी के विषय में ज्ञानपरक जानकारी दी गई। इफ्को के जिला प्रबंधक ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि नैनो यूरिया व नैनो डीएपी का प्रयोग सभी फसलों में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके प्रयोग से फसलों की उपज अच्छी तो होती ही है साथ ही इससे मृदा प्रदूषण नहीं होता है। सचिव डॉ.पीएन. पाण्डेय ने समूह को बताया कि भूमि में मौजूद खनिज, रसायनों के अवशेष, पानी एवं लगातार रसायनिक उर्वरक फसलों में अनुपलब्ध रूप में रहता है। जो प्रदूषण के साथ-साथ घातक बीमारी का कारण बना रहता है। जिसका कारण यूरिया एवं डीएपी का अत्यधिक प्रयोग करना है। उसी क्रम में भारत सरकार ने नैनो तरल यूरिया एवं नैनो तरल डीएपी का उत्पादन इफ्को द्वारा किया जा रहा है। मैले टिमड की 4 एमएल प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल अंकुरण के 30-60 दिन के समय पर कम से कम दो छिड़काव प्रत्येक फस?ल पर किया जा सकता है। इसी प्रकार नैनो डीएपी जिसमे 8 प्रतिशत नाइट्रोजन एवं 16 प्रतिशत फास्फोरस होता है 5 एमएल पानी में मिलाकर बीज को भी उपचारित किया जा सकता है। एक बोतल नैनो यूरिया एवं एक बोतल नैनो डीएपी, एक बोरी ठोस यूरिया एवं एक बोरी ठोस डीएपी के बराबर है तथा फसल उपयोग दक्षता तरल का 90 प्रतिशत है। इस दौरान गोष्ठी में गन्ना विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण के साथ क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने दिया आधार बनाने में तेजी लाने का निर्देश

अवधनामा संवाददाता

महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में आधार प्रमाणीकरण की प्रगति की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने विभागवार आधार निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने डाक विभाग को 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के आधार निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि आधार निर्माण के पूर्व सक्षम स्तर से आवेदक का सत्यापन सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने चौक में एक उप डाकघर की स्थापना हेतु शासन को उनकी ओर से पत्र भेजने हेतु भी पोस्टमास्टर महराजगंज को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी सीएचसी और ब्लाकों पर समय निर्धारित करते हुए डाक विभाग के माध्यम से आधार निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अक्रियाशील और खराब पड़े

मशीनों को क्रियाशील करने हेतु संबंधित विभागों को उनकी ओर से शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया की उपलब्ध मशीनों का प्रयोग इस तरह से करें कि न्यूनतम एक आधार मशीन सभी केंद्रों पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी ब्लाकों में उपयुक्त जगह का चयन करते हुए और एक सप्ताह में सत्यापन करवाते हुए सभी ब्लाकों और तहसील में एक-एक आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कहा की सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए आधार निर्माण में तेजी लाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधार कार्ड के सत्यापन हेतु टीम गठित कर डोर टू डोर सत्यापन का कार्य कराएं। उन्होंने 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में उन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में सीएमओ डॉ नीना वर्मा, डीएसटीओ अजय कुमार श्रीवास्तव, बीएसए श्रवण कुमार गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पहिया फटने से मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी

महराजगंज। फरेंदा- महराजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते दिन सुबह करीब साढ़े सात बजे महराजगंज की ओर से गुड़ लादकर फरेन्दा जा रही मिनी ट्रक का टायर फट जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई।

जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के बहादुरगढ चौराहे पर पहुंचा ही था कि ट्रक का पहिया फट गया। जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक के ड्राइवर मुकेश कुमार ने बताया कि अचानक पहिया फटने की वजह से यह सड़क हादसा हुआ। हालाकि इसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुआ। ट्रक ड्राईवर मुकेश कुमार को दाहिने हाथ में चोट लगी जिसका स्थानीय लोगों की मदद से इलाज कराया गया।

जागरुकता रैली निकालकर लोगों को दी गई जानकारी

अवधनामा संवाददाता

सिसवा बाजार(महराजगंज)। स्थानीय कस्बे के चित्रगुप्त नगर वार्ड रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं तथा कोठीभार पुलिस ने संयुक्त रूप से यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत रैली निकालकर यातायात नियमों के पालन करने की सलाह देते हुए लोगों को जागरूक किया।

प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत शनिवार को चित्रगुप्त नगर वार्ड स्थित प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या शशिकला सिंह एवं सिसवा चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकाल कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।विद्यालय से प्रारंभ हुई इस रैली में छात्राओं ने बैनर और तख्तियों पर लिखे स्लोगन के माध्यम से लोंगो को बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, बाइक पर तीन सवारी यात्रा नहीं करने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का लगाने, सावधानी ही सुरक्षा, दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने जैसे अन्य सुझाव से जागरूकता फैलाई। यह रैली नगर के प्रमुख चौराहों एवं मार्गो से भ्रमण करते हुएपुनः विद्यालय पर पहुंच कर संपन्न हुई। इस रैली में शिक्षिका सुमन सिंह, शशि यादव, अहिल्या तिवारी, उषा गुप्ता सहित हेड कांस्टेबल रामप्रकाश यादव, कां. बृजेश कुमार, धर्मपाल सिंह, पंकज कुशवाहा, विमलेश यादव, दीपक यादव, विवेक गौड़ आदि मौजूद रहे।

पटाखा न फोड़ने की दिलायी गयी शपथ

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु नगर पंचायत स्थित हथिहवां में मथुरा प्रसाद चौधरी ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल पर छात्र-छात्राओं को चाइनीज़ उपकरण प्रयोग न करने और पटाखे को न फोड़ने के लिए शपथ दिलायी गयी। प्रधानाचार्य राम औतार चौधरी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि दीपावली के पर्व पर चीनी उपकरणों का प्रयोग न करें, पटाखे न फोड़े। क्योंकि पटाखे फोड़ने से निकलने वाली गैस मानव जीवन के लिए काफी नुकसानदायक होती है, साथ ही यह सीधे-सीधे पर्यावरण पर प्रहार करती है। उन्होंने कहा कि हमें दीपावली पर खुशियां बाँटनी चाहिए ना कि पटाखे फोड़ कर दूसरों को तकलीफ देना चाहिए। पटाखे की तेज आवाज से जहां कहीं पक्षियों के अंडे गिर जाते हैं। वही जमीन पर विचरण करने वाले तमाम छोटे जीव जंतु मर जाते हैं। इसके अलावा पटाखों के फूटने के बाद उससे निकालने वाली धुआ से अस्थमा और दमा रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में सभी बच्चों को संकल्प दिलाया कि वह दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ेंगे और ना ही चाइनीज उपकरणों का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य राम औतार चौधरी प्रबंधक, सविता चौधरी, सुरेंद्र, सर्वजीत, उमेश, मनोज, मुलायम, ईशानी, प्रियंका, ज्योति, सुरभी, उर्मिला, छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति रही।

डीएम की अध्यक्षता में हुई अष्टम आयुर्वेद दिवस मनाये जाने के संबध में बैठक

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। 10 नवम्बर को अष्टम आयुर्वेद दिवस मनाये जाने के संबध में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी जयेन्द्र कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पवन अग्रवाल को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी डा विजय बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवम्बर को अष्टम आयुर्वेद दिवस मनाया जायेगा।

छात्रों में आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार आयुर्वेद दिवस के माध्यम से छात्र-छात्राओं के माध्यम आयुर्वेद के प्रति जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार कराया जाना, विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयुर्वेद सम्बन्धी औषधीय उपवन विकसित किये जाने, चित्रकारी प्रतियोगिता एवं विभिन्न नवाचारों पर प्रतियोगिता, इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना एवं उक्त कार्यक्रम को आर्कषक बनाये जाने एवं अत्यधिक संख्या में प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाना है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय की सम्भावनाओं को विकसित करने हेतु प्रोफेशनल लोगो के मध्य भी जागरूकता उत्पन्न की जायेगी। किसानों के मध्य राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा विकसित 110 प्रकार के औषधीय पौधों की खेती प्रचार-प्रसार किया जाना इसके अतिरिक्त औषधीय पौधों की खेती, हर्बल कीट नियन्त्रण की आयुर्वेदिक विधियों के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जायेगा। जनस्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस दृष्टि से लोगों में संतुलित जीवन 03 शैली उचित खान-पान, व्यायाम आदि को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करना एवं स्वास्थ्य एवं औषधियों के विषय में जनसामान्य को परामर्श दी जायेगी।

आयुर्वेद दिवस हेतु छात्रों में आयुर्वेद से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार प्रतियोगिताओं जैसे कला आयुर्वेदिक रैसिपि स्लोगन, पोस्टर आर्ट फिल्म वीडियो स्पीच प्रश्नोत्तरी निबन्ध, माडल मेकिंग कम्पटीशन, वाद-विवाद प्रतियोगिता बच्चों में आयुर्वेदिक थीम पर खेल कार्टून एवं स्टोरी मेंकिग आदि का आयोजन कर एवं विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में हर्बल गार्डन की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करें एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रथम द्वित्तीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, को निर्देश दिया गया। जिला न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विकास भवन तथा कलेक्ट्रेट में कैम्प लगाकर लोगो को जागरूक करने हेतु निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार वाजपेयी, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी डा0 विजय बहादुर, जिला उद्यान अधिकारी नन्हे लाल वर्मा, जिला कृषि अधिकारी मु0 मुजम्मिल, तथा अन्य संबधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सीडीओ ने धान की फसल कटवाकर फसलोत्पादन का कराया औसत आकलन

सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार द्वारा मंगलवार को तहसील नौगढ़ के विकास खण्ड उसका के ग्राम डुमरिया में किसान श्रीमती संतोषी देवी एवं ईश्वर देव के प्लॉट नम्बर 1 का 0.2661 हे0 एवम प्लॉट नम्बर 0.134 हे0 में लगे धान की फसल कटवाकर फसलोत्पादन का औसत आकलन कराया। क्रॉप कटिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही ओलवृष्टि, अतिवृष्टि व अन्य प्रकार से फसल नुकसान व फसल बीमा की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता है। डीएम ने क्रॉप कटिंग के दौरान मौजूद किसानों को धान की फसल नजदीक के क्रय केंद्र पर ही बेचने की सलाह दी गयी। इसके अलावा किसानों को पीएम फसल बीमा के लाभ के बारे में जानकारी दी गयी बताया कि फसल बीमा योजना स्वैच्छिक कर दी गई है, परंतु किसी भी आपदा से बचने के लिए बीमा लाभकारी होता है। उन्होंने किसानों को पराली का उचित प्रबन्धन किये जाने की सलाह देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिये इसे नही जलाने की अपील की। क्रॉप कटिंग में समय प्रशिक्षु उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी उसका बाज़ार श्याम मुरली मनोहर मिश्रा, दीपक, अपर सांख्यिकीय अधिकारी कृषि विभाग, ग्राम प्रधान, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम सचिव एवम ग्रामवासी आदि मौजूद रहे।

खुनुवा पुलिस के द्वारा गाड़ियों की की गई चेकिंग

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। यातायात जागरूकता अभियान के तहत शोहरतगढ़ थाना अंतर्गत खुनुवा पुलिस के द्वारा दो पहिया चार पहिया वाहनो की सघन चेंकिग की गयी। खुनुवा पुलिस के द्वारा वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ही नियम तोडने वालों के वाहनों का चालान किया गया। सोमवार को नियम तोड़ते हुए पाए जाने पर ई चलान के द्वारा 26 वाहनों का चालान करके 26 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस मौके पर चौकी प्रभारी खुनुवा महेश कुमार शर्मा, जालंधर, राजेश कुमार, जयप्रकाश कुशवाहा, मुकुंद चौहान, विशाल कुमार शामिल रहे।

कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन व शिलालेख पूजन कार्यक्रम संपन्न

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जनपद मुख्यालय स्थित रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज तेतरी बाजार में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद जी ने प्राइमरी सेक्शन के कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन, तथा रज्जू भैया भवन के तृतीय तल निर्माण हेतु शिला पूजन कार्यक्रम किया।

उन्होंने विद्यालय के अभिभावकों एवं भैया बहनों को संबोधित करते हुए कहा विद्यालय द्वारा प्राइमरी सेक्शन हेतु कंप्यूटर कक्ष का निर्माण कराया गया है इसका उपयोग कर भैया- बहन दक्ष होंगे। सामान्यतया शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान व अच्छा ज्ञान प्राप्त कर नौकरी प्राप्त करना माना जाता है परंतु जीवन मे संस्कार युक्त शिक्षा का बड़ा महत्व है। विद्या भारती संस्कार्युक्त शिक्षा देने के लिए ही 1952 में विद्या भारती की स्थापना की थी। संस्कार विहीन शिक्षा ओसामा बिन लादेन जैसे व्यक्ति को राक्षस बनती है जबकि संस्कार युक्त शिक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम व योगेश्वर श्रीकृष्ण जैसे महापुरुषों का निर्माण करती है। भगवान राम ने अच्छे संस्कार के कारण ही दुष्ट रावण का संहार किया था। आगे उन्होंने कहा कि विद्या भारती बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है इसके द्वारा वर्ष में गणित विज्ञान मेला व वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चे की प्रतिभा निखरकर बाहर आती है । हमारे वेदों शास्त्रों के अन्दर पांच प्रकार के विकास का वर्णन है यहां पर उपस्थित कई भैया भविष्य के वैज्ञानिक खिलाड़ी और अधिकारी होंगे। चन्द्रयान-3 की सफलता में हमारे कई भैया शामिल थे। विद्या भारती अपनी पंचपदीय शिक्षा प्रणाली से बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है सभी भैया/बहन अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करें। भैया बहनों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य से राकेश मणि त्रिपाठी ने कराया। उक्त अवसर पर सांसद जगदंबिका पाल, श्याम बिहारी जायसवाल, विद्यालय के अध्यक्ष मुरलीधर अग्रहरि, विद्यालय सह प्रबंधक सत्येंद्र द्विवेदी, प्रबंध समिति के सदस्य मदन मोहन सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक गोकुल गोयल, कोषाध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल, विद्यार्थी परिषद के धीरेंद्र रणजीत चौधरी, शंभू नाथ गुप्ता, दीपक मौर्य, नंदलाल रस्तोगी, अंगद पाठक आदि नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

नेपाल में आधुनिक हथियार के साथ तीन गिरफ्तार

अवधनामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। नेपाल सशस्त्र पुलिस ने सिराहा जिले से तीन लोगों को आधुनिक हथियार व नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। सोमवार की शाम सिराहा जिले के लहाननगर पालिका-1 सिंगराही में जांच के दौरान मोटर साइकिल पर सवार तीन लोगों को 9 एमएम पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया।

मधेश प्रांत के प्रमुख डीआईजी दीपेंद्र साह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में सुरुंगा नगर पालिका-8 के 32 वर्षीय अनिल राम, सुरुंगा-5 के 30 वर्षीय जिबन्नाद चौधरी और खड़क नगर पालिका-4 सप्तरी के 35 वर्षीय संजय प्रसाद चौधरी शामिल हैं। डीआईजी साह ने बताया कि इनके पास से एक 9 एमएम पिस्टल, एक मैगजीन, 2 गोलियां, एक लाख 84 हजार 253 रुपये नकद, चार मोबाइल सेट और विभिन्न कंपनियों के 4 लाख 64 हजार 500 रुपये के रिचार्ज कार्ड बरामद किये गये।

सशस्त्र पुलिस ने कहा कि उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है इसलिए अग्रिम जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा अभाविप का मिशन साहसी : धर्मेंद्र सिंह तोमर

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर अवधनामा संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिद्धार्थनगर द्वारा मिशन साहसी अभियान 2023 के तहत दिनांक 01 से 15 नवंबर तक विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुण जुडो कराटे, ताइक्वांडो ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। शोहरतगढ में स्थित शिवपति इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जिसमें अमन द्विवेदी द्वारा ट्रेनर के द्वारा 450 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया।अभाविप के तहसील प्रमुख डां हेमंत राज उपाध्याय (अध्यापक) ने कहा इस अभियान के तहत संगठन निःशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से जनपद के 62 विद्यालयों में 25000 छात्राओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह तोमर (अध्यापक) ने कहा कि मिशन साहसी छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री धीरेन्द्र, पूर्व प्रान्त सहमंत्री शिवशक्ति शर्मा, नगर मंत्री अभाविप आकाश कनौजिया एवं ताइक्वांडो के कोच अमन द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहें।

बिना लाइसेंस के चल रही मेडिकल व झोलाछाप डाक्टरों की दुकानें

अवधनामा संवाददाता

शासन व प्रशासन का नहीं है खौफ

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। इण्डो नेपाल बॉर्डर पर स्थित खुनुवा बाजार में धड़ल्ले से चल रही बिना ड्रग लाइसेंस की दवा की दुकानें मानो तो ऐसा लग रहा है कि मेडिकल स्टोर नही अब किराने की दुकान चल रही हैं। जहां जो चाहता है वही दवा की दुकान लगा लेता है। मेडिकल स्टोर व झोलाछाप डाक्टर की खुनुवा बाजार मे भरमार है।

खुनुवा बाजार क्षेत्र के लोग जिला प्रशासन के कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। कोई भी व्यक्ति इंजेक्शन लगाना सीख लेता है तो वह दवा की दुकान खोल लेता है यही नहीं गुमटी वा झोपड़ी बना कर उसमे दवा की दुकान खुनुवा क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। इनको ना तो कोई दवा कि जानकारी होती है और न ही कोई दवा के साइड इफेक्ट कि जिसका नजारा खुनुवा, रमवापुर तिवारी, पकडिहवा, महला, बजहा, गौहनिया, डोहरिया चौराहे पर देखा जा सकता है। प्रशासनिक जिम्मेदारों के सानिध्य में जहां बिना मेडिकल लाइसेंस की दुकानें संचालित है। क्षेत्र में कोई फार्मेसिस्ट भी नहीं रहता और ऐसे लोग दवा का रंग रूप देख कर दवा देते है एवं मरीजों के जान से खिलवाड़ करते है। ये झोलाछाप डॉक्टर कहे जाते है।

जो अपने मन से मरीजों को दवा देते है इनको न कोई डर है शासन का और न प्रशासन का खौफ, तो क्या ये मान लिया जाय की सिद्धार्थनगर औषधि प्रशासन भी लाचार हो चुका है ऐसे कूट रचित झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने में यहा तक देखा जा रहा है खुनुवा बाजार मे कुछ दवाये जैसे क्रीम जो मेडिकल की पर बिकने की दवा है। वह जनरल स्टोरो पर बिना रोक टोक के बिक रही है। जहां इंडो नेपाल खुनुवा बार्डर पर तीन सुरक्षा एजेंसियां मौजूद है।

एकीकृत कृषि प्रणाली माडल को बढावा दिया जाये

बस्ती। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के कुलपति डा बिजेन्द्र सिंह ने कृषि विज्ञान केन्द्र, बंजरिया, बस्ती का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कुलपति महोदय ने निर्देशित किया कि एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) माडल को बढावा दिया जाय तथा मानक के अनुरूप तालाब में मछली पालन एवं उसके चारों तरफ मुर्गी पालन, गाय-भैस पालन, फलदार पौध रोपण, सब्जी उत्पादन, मशरूम इकाई की स्थापना हेतु जनपद के विभागों से सहयोग प्राप्त करें।

उन्होने केन्द्राध्यक्ष प्रो एसएन सिंह को पाली हाउस एवं नेट हाउस के विस्तार हेतु प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) पूसा, नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होने कहा कि किसानों एवं वेरोजगार नवयुवकों को कृषिगत व्यवसाय जैसे मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मूल्य संवर्धन, गुड के विभिन्न उत्पाद आदि पर लम्बी अवधि के व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाये।

मनीषा बनी छपिया गाँव की कोटेदार

अवधनामा संवाददाता

पौली। विकास खण्ड पौली के ग्राम पंचायत कोहलवा के राजस्व गांव छपिया में छः माह से रिक्त कोटे के चयन प्रक्रिया में आरोही महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य मनीषा देवी को गाँव की खुली बैठक में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए कोटेदार के रूप में चुना गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कोहलवा के कोटेदार की मृत्यु हो जाने से गांव का कोटा पद रिक्त था। शासन के निर्देशानुसार नए चयन प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गाँव की खुली बैठक बुलाई गई। खुली बैठक में मौजूद एडीओ पंचायत दलसिंगार यादव और जितेंद्र कुमार सिंह ने शासन के निर्देश के अनुसार कोटे के लिए गाँव मे संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के वरीयता क्रम के अनुसार कोटे के चयन की बात रखी। निर्धारित समय के अनुसार गाँव मे संचालित स्वयम सहायता समूह की कुल तीन टीम के महिलाओं ने कोटेदार पद के लिए आवेदन पत्र डाला। वरीयता क्रम के अनुसार आरोही महिला स्वयं सहायता समूह टीम को वरीयता क्रम मे देखते हुए आरोही महिला स्वयं सहायता समूह टीम की सदस्य मनीषा पत्नी प्रेम चंद को छपिया गाँव के कोटेदार के रूप चयन किया गया। इस मौके पर एडीओ पंचायत दलसिंगार यादव, सूर्यभान सिंह, सचिव अमरेश पटेल, चंद्रशेखर यादव, संजय कुमार, नागेंद्र प्रसाद, राजदेव, प्रियंका देवी रीता कुमकुम चंदा विनीता, प्रेमचंद अच्छेलाल सहित गांव के तमाम लोग मौजूद रहे।

सहायक अध्यापिका ने तहरीर देकर चोरी की शिकायत की

अवधनामा संवाददाता

लोटन सिद्धार्थनगर। कोतवाली लोटन क्षेत्र अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमा मे मोटर चोरी हो गया है। सहायक अध्यापिका उदिता ने पुलिस को तहरीर देकर कही है कि रोज की भांति मै सोमवार को भी विद्यालय मे शिक्षण कार्य का समय खत्म होने के बाद तीन बजे स्कूल बन्द करके घर चली जाती हूँ। मंगलवार की सुबह जब विद्यालय पहुंची तो देखा कि खिड़की का छड़ मोड़ा है।

अन्दर जा कर देखा कि स्कूल मे लगा एक हार्स पावर मोटर व पूरा केबिल कोई व्यक्ति चुरा ले गया है। हम अपने स्तर से पता किया लेकिन पता नही चला तहरीर दे रही हूँ मुकदमा दर्ज कर कार्यावाही की जाय। थाना प्रभारी यशवन्त सिहं का कहना है कि तहरीर मिली है। जाँच कर कार्यावाही की जायेगी।

ईओ टांडा को मोमेन्टम देकर सम्मानित किया

टाण्डा अमबेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। नगर पालिका परिषद टाण्डा के अधिशाषी अधिकारी डॉ0 आशीष कुमार सिंह को श्री राधारमण संकीर्तन समाज टाण्डा के अध्यक्ष शम्भू नाथ शर्मा उपाध्यक्ष रामजीत विश्वकर्मा महामंत्री भरतलाल गुप्ता आदि ने निकट भविष्य के त्योहारों में उनके उत्कृष्ट कार्यो को देखते हुए माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह (श्री राम दरबार) भेंटकर उनके उज्वल भविष्य की कामना की कहा हम सभी आप के आभारी है। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के नाम से प्रचलित उपाध्यक्ष रामजीत विश्वकर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण दधिकांधवोत्सव, शारदीय नवरात्रि पर दुर्गापूजा व विसर्जन सहित निकट भविष्य के सभी पर्वो को सकुशल सम्पन्न कराने में स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन समेत नगर पालिका परिषद प्रशासन व विद्युत विभाग की अच्छी भूमिका रही है। ऐसे में श्री राधारमण सेवा संकीर्तन समाज के पदाधिकारियों ने सभी को सम्मानित किया है। इस अवसर पर पालिका के वरिष्ठ लिपिक जलील अहमद, कर निरीक्षक राकेश कुमार गौरव, सलमान खान आदि उपस्थित रहे।

महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए

बस्ती। जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा आयोजित दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित उजराना शक्ति स्वयं सहायता समूह द्वारा जिला महिला चिकित्सालय में स्थित शक्ति रसोई का फीता काटकर शुभारम्भ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। उन्होने जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से अपील किया कि कलेक्टेज्ट, सभी तहसीलों व ब्लाको एवं सरकारी भवनों के परिसरों में रसोई/कैंटीन खोल सकती है। इसके लिए संबंधित बैंको से उनको ऋण भी मुहैया कराया जायेंगा। उन्होने कहा कि कोई भी कार्य छोटा-बड़ा नही होता है, नीयत साफ होनी चाहिए और कार्य के प्रति सजग व तत्पर रहना चाहिए। उन्होने स्वयं सहायता समूहो को मनोबल बढाने के साथ-साथ कहा कि सिलाई, बुटिक के माध्यम से भी अपने आय को बढा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाए संचालित है, इसके माध्यम से धनराशि भी उपलब्ध करायी जाती है।

डीएम की अध्यक्षता में आयुर्वेद दिवस व आयुष विभाग की समीक्षा बैठक हुई

अवधनामा संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन कलेक्ट्रेट सभागार में 10 नवंबर 2023 को अष्टम आयुर्वेद दिवस/ आयुष विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में इस सु- अवसर पर आयुर्वेद पद्धति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देने एवं आम- जन की स्वीकार्यता सुनिश्चित किए जाने हेतु जन संदेश, जन भागीदारी एवं जन आंदोलन के माध्यम से जन चेतना जागृत करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। आयुर्वेद दिवस के माध्यम से छात्र छात्राओं के मध्य आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु निर्देशित किया गया। आयुर्वेदिक रेसिपी, कला प्रतियोगिता, बच्चों में आयुर्वेद की थीम पर खेल संबंधी प्रतियोगिता कराया जाए। किसानों के मध्य राष्ट्रीय पादप बोर्ड द्वारा विकसित 110 प्रकार के औषधीय पौधों की खेती विषयक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त संसाधन के रूप में औषधीय पौधों की खेती हर्बल कीट नियंत्रकण की आयुर्वेदिक विधियों के बारे में भी किसानों को ब्रोसर/ पंपलेट/ पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया जाए। जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस दृष्टि से लोगों में संतुलित जीवन शैली, उचित खान- पान, व्यायाम आदि को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटरो में माह अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक कुल 270 रोगियों का परीक्षण किया गया तथा आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटरो में माह अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक कुल 342 रोगियों का पंचकर्म किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय बैठक कराया जाए तथा विद्यालय में कार्यक्रम कराया जाए जिससे अधिक से अधिक जन जागरूकता की जा सके। किसानों को औषधीय पौधे के महत्व के बारे में बताया जाए।

निरीक्षण में बूथ लेबल अधिकारी मिले अनुपस्थिति

अवधनामा संवाददाता

बस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत 4 व 5 नवम्बर को विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गयी थी। इसमें बूथ लेबल अधिकारियों को संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर वहॉ आने वाले अर्ह नागरिके के फार्म 6, 7 व 8 भरवाये जाने थें। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी अंद्रा वामसी के आदेश पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने 4 नवम्बर को निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र हर्रैया एवं कप्तानगंज के 12 बूथ लेबल अधिकारी अनुपस्थित पाये गये। इसमें हर्रैया क्षेत्र के बूथों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री विमला देवी, मीरा सिंह, रोजगार सेवक सुनिल गुप्ता, अजय चौहान, अमरनाथ वर्मा, पुष्पा देवी, अनुदेशक यशवंत यादव तथा कप्तानगंज के सफाईकर्मी पाटेश्वरी प्रसाद, अनुदेशक रवि प्रताप, शिक्षा मित्र गायत्री जायसवाल, निर्मला वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री गीता देवी अनुपस्थित पाये गयें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित सभी बूथ लेबल अधिकारियों का अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित करते हुए निर्देशित किया है कि अनुपस्थिति के संबंध में तार्किक स्पष्टीकरण तीन दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा की दशा में विभागीय कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेंगी।

नगर की सफ़ाई व्यवस्था का ईओ ने किया प्रातः काल आकस्मिक निरीक्षण

टांडा अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। टांडा नगर पालिका परिषद में तैनात अधिषासी अधिकारी डॉ आशीष कुमार सिंह ने आज अपने अधीनस्थ के साथ प्रातःकाल जब नगर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले तो क्षेत्र के सभी सफ़ाई नायकों में हड़कम्प मच गया नगर में सभी कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल था अपने आकस्मिक निरीक्षण पर निकले अधिषासी अधिकारी ने बताया कि नगर में किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था में आमजनमानस को समस्या न उतपन्न हो इसी मकसद से वह आज नगर की सफाई व्यवस्था का हाल जानने के उद्देश्य से निकले थे अधिषासी अधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण की नगर में भूरि भूरि प्रशंसा करते लोग थक नहीं रहे हैं मीरानपुरा मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था के प्रति इतना संवेदनशील अधिकारी नगर में पहली बार दिखाई दिया है। उनके आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक सफ़ाई राकेश कुमार गौरव नोडल सफाई नायक मोहम्मद अहमद सफाई नायक मोहम्मद सुहैल मोहम्मद हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे।

कोहली को जन्मदिन का तोहफा

5 अक्टूबर विराट कोहली का जन्म दिन है। भारत अफ्रीका को हरा कर नम्बर एक पर अपना कब्जा कायम रक्खा। साथ ही किंग कोहली को जन्म दिन पर शानदार तोहफा दिया। मैच शुरू होने के पहले दर्शक दीर्घा में हैप्पी बर्थ डे की तख्तियां लहरा रही थी। लोग अपनी कृतज्ञता उत्सह के साथ जाहिर कर रहे थे। कोहली ने 101 रन नाट आउट की शानदार पारी खेल कर भारतीय टीम की जीत पक्की कर दी थी। उसमें श्रेयस अय्यर के 77 रनो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोहली ने अपने जन्म दिन पर क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की। उन्होंने तेन्दुलकर के 49 शतको की बराबरी की। भारतीय टीम ने टास जीत कर पहले बैटिग चुना। पांच वीकेट पर 326 रन बनाये। साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी के लिये उतरी तो खिलाड़ी ताश के पत्ते की तरह ढहने लगे। इसे जीत के लिये 327 रनो का टारगेट मिला था। पर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 83 रनों पर सिमट गयी। लोगो को अहसास था कि टक्कर कांटे का होगा पर मैच एक तरफा हो गया। इसमें कोहली और श्रेयस का योगदान सराहनीय रहा। भारतीय बालिंग शानदार रही जिसमें जड़ेजा ने पांच वीकेट लिये। शमी और कुलदीप ने दो-दो वीकेट लिये और सिराज ने डी काक का महत्वपूर्ण वीकेट लिया।

भारत की इस वर्ल्डकप में लगातार आठवी जीत है। अंको की तालिका में 16 अंक पर पहुंच कर नम्बर एक बना हुआ है। वही साउथ अफ्रीका यह मैच हार कर 12 अंक लेकर अपने नम्बर दो पर बने रहने का क्रम कायम रक्खा। भारतीय टीम की जीत पर बधाइयों की बरसात होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और विपक्ष के राहुल गांधी ने भी बधाई दी। भारत वर्ल्डकप का प्रबलतम दावेदार मना जा रहा है। सम्भावना यह जताई जा रही है फाइनल में साउथ अफ्रीका की भिडन्त भारत से ही होगी।

अपना जन्म दिन लोग अपनी तरह से मनाते है। कोहली अपना जन्मदिन जो सबसे अच्छा कर सकते है उसको करके मनाते है। उस दिन उन्होंने शतक बनाकर अपना जन्मदिन मनाया। यद्यपि बैटिंग के लिहाज से यह उनकी अच्छी पारी नहीं थी पर उन्होंने यहां 49वां शतक बनाकर इसे यादगार बना दिया। क्योंकि सचिन के सर्वाधिक शतक की बराबरी कर ली। 50 ओवर के क्रिकेट में यह सर्वाधिक शतक है। सचिन को क्रिकेट का देवता माना जाता है उनकी बराबरी कर लेना गौरव की बात है। सचिन ने सबसे पहले कोहली को बधाई दी। कोहली के बचपन के कोच रायकुमार शर्मा और उनका परिवार समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह अपनी खुशियां मनाये। रायकुमार शर्मा बताते है आठ साल के कोहली की बैटिंग देख उन्हें अहसास हो गया था कि यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनेगा। उनका कहना है कोहली का किबदन्ती बने सचिन तेन्दुलकर की बराबरी करना हमारे लिये ईश्वरी आर्शिवाद है।

यह इत्तफाक ही है कि सचिन ने भी पहला शतक कोहली की तरह 25 के उम्र में हासिल किया था। सचिन ने आस्टेऊलिया के खिलाफ शरजाहां में 29 अप्रैल 1998 में 134 रनों की पारी खेल कर बनाया था। कोहली ने कहा भारत के लिये खेलना हमारे लिये हमेशा बड़ी बात है। पर इतनी बड़ी भीड़ के सामने अपने जन्मदिन पर शतक बनाना हमारे सपनो का मसाला रहा है। भगवान का मै अहसानमन्द हूॅ। हलाकि कोहली की यह अच्छी पारी नहीं कही जायेगी। क्योकि साउथ अफ्रीकी बालरों के सामने इडेनगार्डेन की धीमी पिच पर वह बहुत सभल संभल कर खेल रहे थे। कोहली को लक्ष पिछा करने का मास्टर कहा जाता है। वह लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर रन बनाते है। वह रबाडा की गेदो को ठीक खेल रहे थे। पर केशव महाराज और तबरेज शम्सी के स्पिन को बहुत संभल संभल कर खेलते हुये रनो के रफ्तार को धीमा कर दिया था। दो अवसर आये जब कोहली आउट हो सकते थे। पहला अवसर केशव महराज के आसान कैच बाल को वीकेट कीपर पकड़ नहीं पाये। दूसरा अवसर महाराज की ही गेद पर आया जब कोहली गेद से चकमा खा गये बल्ले के बाहरी किनारे से लगी गेद को महराज नहीं पकड़ पाये। तब कोहली का स्कोर 30 रन था। कोहली समझते थे क्रीज़ पर बने रहो रन आते रहेगे। इन्होंने वही किया। ऐसा कम होता है कि कोहली के साथ बैटिंग करने वाला बैटर कोहली से ज्यादा रन बनाकर खेल रहा हो। पर उनके साथ खेल रहे श्रेयस ऐय्यर ने 88.51 स्ट्राइक रेट पर रन बनाये जबकि कोहली का स्ट्राइक रन रेल 83.47 रहा। कोहली ने 10 बउन्ड्री मारी पर 121 गेद तक कोई छक्का न ही मार पाये। कोहली और अइय्यर की तीसरे वीकेट की 134 रनो की साझेदारी ने भारत के जीत की नीव रख दी। जीत को पुख्ता सिराज, शम्मी, कुलदीप और जडेजा की गेदबाजी ने की। आगे के मैच के लिये रोहित ने ठीक ही कहा अतिविश्वास से बचना होगा।

भारतीय संस्कृति का वैश्विक शांति दूत

प्रो. पुष्पित अवस्थी

स्वाधीनता के अमृत काल के पावन अजेय काल में विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश की घोषणा हुई है। इस उद्घोषणा के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समय रहते उजागर करके जोड़ देने की जरूरत मुझे अनुभव हो रही है। उसमें अनुपेक्षणीय प्रथम सत्य यह है कि सर्वाधिक क्षमता और अपने कार्यों में दक्षता रखते हुए सर्वाधिक आबादी वाला देश है।

दूसरा महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हिंदी भाषा और उसके परिवार के समुच्चय से बोली जाने वाली भाषा और उपभाषा को संपर्क और संवाद निमित्त इस्तेमाल करने सर्वाधिक आबादी वाला देश है। तीसरा भारतीय संस्कृति बनाम हिंदुस्तानी संस्कृति में समाहित विश्व मंगल की वैश्विक संस्कृति के गुण सूत्र को धारण करने वाला शाकाहारी भोज्य और जीवन शैली को जीने वाला शांति और अहिंसा के धारक और प्रचारक वाला विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आधुनिक सक्षम और समृद्ध भारत से शिक्षित प्रवासियों की विदेश प्रवास और विदेशीयों को अर्पित की गई सेवाएं जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही विश्व में पांच पीढ़ियों से बसे 1834 से 1916 के बीच ब्रिटिश, फ्रेंच और डच कोलोनाइजर द्वारा पराधीन भारत से ले जाए गए हिन्दुस्तानी समाज की भूमिका है।

जिन्होंने विदेशी संस्कृति के भीतर रहते हुए भारतीय संस्कृति के दिए वर्ष भर संघर्ष रहते हुए प्रज्वलित रखे। खुद सुलगते रहे पर पूरे विश्व को हिंदुस्तानी संस्कृति के आलोक से सम्पूर्ण करते रहे। विश्व का भारतीय आज जिस भी देश में है और जिस भी पेशे और उम्र में है वह एक ओर विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचारक होकर भारत का दूत है तो दूसरी ओर विश्व के जिस देश में है खामियों को सहता हुआ उस देश की खूबियों का अपने देश भारत में प्रचारक का दूत है। इस तरह विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश भारत का भारतीय, प्रवासी भारतीय और भारतवंशी दो देशों का सांकृतिक और आर्थिक दूत बनकर विश्व कल्याण का प्रतिनिधि बनकर जीवन यापन कर रहा है। जिस पर हर भारतीय को गर्व है और विश्व को भी होना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस फ़ातिमा रिज़वी ने ग्रुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वज़ीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित कराकर प्रथम तल, मस्जिद नूर महल, साकेत पल्ली, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

किसी भी लेख में कोई विवाद के लिए 'अवधनामा' जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी लेखक की है। किसी भी समाचार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

पोलिटिकल एडीटर : एम.एम. मोहसिन

स्थानीय संपादक

मोहम्मद आलम रिज़वी

RNI No UPHIN/2010/31173

टेली फैक्स नं. : 2288091, 4065716

avadhnamahindi@gmail.com,

साल जनवरी, 2023 में मुफ्त अनाज की अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव थे। दिसंबर, 2021 में अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि फरवरी, 2022 से पंजाब, उप्र, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने थे। पंजाब छोड़ कर भाजपा शेष सभी राज्यों में विजयी हुई और सरकारें बनाईं। नवम्बर, 2020 में मुफ्त अनाज बांटने की अवधि जून, 2021 तक की गई थी, क्योंकि मार्च-अप्रैल, 2021 में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव थे। भाजपा बंगाल, केरल, तमिलनाडु सरीखे बड़े राज्यों में पराजित हुई।

कल्याणकारी योजना की फ्री बीज से तुलना ठीक नहीं

राजेश माहेश्वरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की एक जनसभा से गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचकों तथा विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष के साथ सरकार के आलोचकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने यह फैसला विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है। वहीं विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जाने लगा कि जब विपक्ष लोगों के हित में फ्री की बात करती है तो बीजेपी के साथ पीएम मोदी भी इसकी आलोचना करते हैं, जबकि इसी फ्री की बात जब पीएम करते हैं तो इसे कल्याणकारी योजना का नाम दिया जाता है। असल में बात यह है कि विपक्ष और आलोचक फ्रीबीज और कल्याणकारी योजना का फर्क समझने की बचाए दोनों को एक ही पलड़े में तोल रहे हैं।

भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में जब कोरोनावायरस महामारी चरम पर थी। तो लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूरी में देशभर में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस कारण लोगों की नौकरियां जाने लगी, लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट आन पड़ा। गरीबों के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया था। देश संकट के हालत में था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दर्द को समझा। पीएम मोदी ने इस विकट परिस्थिति में भी ठाना कि लोगों को भूखे पेट ना सोना पड़े। उसके बाद पीएम मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। ये जन वितरण के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम के तहत दिए जाने वाले सस्ते राशन के अतिरिक्त है। इस योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी. गरीबों को लगातार राहत मिले इसको देखते हुए इस योजना को लगातार बढ़ाया गया है।

केंद्र सरकार के मुताबिक, गरीब कल्याण योजना का लाभ देश के 80 करोड़ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को मिलता है। इस योजना को अब सरकार ने 5 साल आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार एक साल तक सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च उठाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो योजना के विस्तार के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की एक स्टडी रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना काफी हद तक गरीबी को रोकने में कामयाब रही। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के कारण महामारी के दौरान भी देश में अत्यंत गरीबों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इससे पहले हुए कुछ अध्ययनों में महामारी के कारण भारत में अत्यंत गरीबी बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई थी। इस

मायने में योजना को पूरी तरह सफल कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी की पहली, दूसरी और तीसरी लहरों के दौरान भी देश के किसी हिस्से में भुखमरी के हालात बनने की खबरें नहीं आईं। संयोग है अथवा राजनीति है कि जब भी मुफ्त अनाज बांटने की अवधि बढ़ाई गई, तब कोई न कोई चुनाव सामने होता था। दरअसल इसी साल जनवरी, 2023 में मुफ्त अनाज की अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव थे। दिसंबर, 2021 में अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि फरवरी, 2022 से पंजाब, उप्र, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने थे। पंजाब छोड़ कर भाजपा शेष सभी राज्यों में विजयी हुई और सरकारें बनाईं। नवम्बर, 2020 में मुफ्त अनाज बांटने की अवधि जून, 2021 तक की गई थी, क्योंकि मार्च-अप्रैल, 2021 में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव थे। भाजपा बंगाल, केरल, तमिलनाडु सरीखे बड़े राज्यों में पराजित हुई। हर चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा करना क्या 'आचार संहिता का उल्लंघन' नहीं है? चूंकि योजना 2020 से निरंतर जारी है, लिहाजा प्रधानमंत्री किसी भी मौके पर समय-सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा करने को स्वतंत्र हैं? दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में अनाज मुहैया कराने के कई प्रावधान हैं। मकसद है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोने पाए। इसका भी एक ईमानदार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। गरीबी-रेखा के नीचे वाले वर्ग को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति पारिवारिक सदस्य सबसिडी दरों पर आवंटित किया जाता है। उसके अतिरिक्त यह 5 किलो मुफ्त अनाज माहवार मुहैया कराया जाता है। इसमें गेहूं, चावल, एक किलो दाल या चना, नमक आदि होता है। सरकार के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था के प्रति आगाह कर चुके हैं। उसके बावजूद इस बार पूरे 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे प्रति वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सबसिडी का बोझ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री गरीबों के कल्याण और हर पेट को खाने की तुलना में सबसिडी को क्षुद्र मानते हैं। यह खर्च आगामी वित्त वर्ष के बजट में जोड़ा जाएगा।

भारत में मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज़ की शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है। 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे. तब डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा कर दिया। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी। डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि, डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 के विधानसभा चुनाव आए. विपक्षी अन्नाद्रमुक ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कम्प्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा भी कर दिया। शादी होने पर महिलाओं को 50 हजार रुपये और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो मुफ्त चावल देने का वादा भी किया। नतीजे आए तो अन्नाद्रमुक की सरकार बन गई।

2006 के चुनावी वादे पर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'फ्रीबीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफी हद तक हिला देती हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह-मशविरा कर एक आचार संहिता बनाए. इसके बाद 2015 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी भी की, लेकिन उसके बावजूद चुनावों में फ्रीबीज का ऐलान होता ही रहा है। यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर विपक्ष और बौद्धिक वर्ग सवाल तो करते हैं, लेकिन जमकर विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि यह 80 करोड़ से अधिक नागरिकों की भूख और खाद्यान्न से जुड़ा मुद्दा है। हां एक बात जरूर है कि इससे गरीबी-उन्मूलन के दावों के विरोधाभास भी उभर कर सामने आते हैं। दरअसल जो महिलाएं और पुरुष मुफ्त अनाज लेने जाते हैं, वे सभी बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मोदी सरकार को प्राथमिकता के आधार पर गरीबी पर व्यापक सर्वेक्षण कराना चाहिए।

चुनावी समर के बीच महादेव एप के मुद्दे पर सियासी घमासान

विपक्षी पार्टीऔर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव ऐप के मालिकों को बचा रही है। अगर इन्हें सही में कार्रवाई करनी है तो आरोपियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ये पार्टी ईडी को हथियार बनाकर विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करवा रही है। मैं साफ कर दूं कि इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं और ना ही कभी वैसे मुलाकात हुई है जैसा कि दावा किया जा रहा है।

किशन भावनानी

वैश्विक स्तरपर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों को चूंकि ग्राम सेवक से लेकर पंचायत समिति और विधान सभा से लेकर संसद तक सीधे जनता चुनती है इसलिए इस सार्वजनिक जीवन वाले पदों के लिए प्रत्याशी को साफ सुथरा होना अति आवश्यक है, इसलिए ही पक्ष विपक्ष दोनों स्तरपर अपने प्रतियोगी के भूतपूर्व, वर्तमान जीवन के हर पहलू को गहराई से जांचते परखते हैं या किसी भी अवैध विवादापस्थ मामले में उसकी थोड़ी सी भी सलंग्नता नजर आई तो तिल का लाल और राय का पहाड़ बनाने में जरा सा भी नहीं चूकते और मुद्दे को लपक लेते हैं ऐसा अमेरिका भारतसहित अनेकों देशों में देखने को मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति उसके बेटों पूर्व राष्ट्रपति उसके परिवार सहित अनेक मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तरपर गूंजे हैं। वर्तमान समय में ऐसा ही एक मामला एक राज्य के तथाकथित महादेव अप के मुद्दे पर चुनावी समर के बीच महादेव ऐप के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां विपक्षी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए राज्य के सीएम को घेर रही है, तो वहीं, सीएम अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यहां तक कि पीएम जब शनिवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने घेरते हुए कहा कि सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। दरअसल, महादेव बुक ऐप ईडी की रडार पर है। ऐप सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके प्रमोटर रायपुर के रहने वाले हैं, और दोनों के दुबई में होने की आशंका है। दोनों वहीं, से ऐप को चलाते हैं,इसे भारत में बैन कर दिया गया है। ईडी एजेंसी ने कुछ महीनों पहले एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कथित तौर पर सीएम के राजनीतिक सलाहकार के साथ संबंध की आशंका है कि अपनी अवैध गतिविधियों को नजर अंदाज करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों, राजनेताओं और अन्य लोगों को रिश्वत में सैकड़ों करोड़ हरे गुलाबी के भ्रष्टाचार की बहू आ रही है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों पर बताया जा रहा है। मामले को ईडी ने हाथ में ले लिया है और इसके तार दुबई तक पहुंच गए हैं जिसे रेखांकित करना जरूरी है। मेरा मानना है कि अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 51वी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग घुड़दौड़, क्लबों में दम पर 28 प्रतिशत जीएसटी और फिर उसको भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसलिए हालांकि अवैध धंधों को जीएसटी वैध नहीं बनता फिर भी बैकडोर से तो आखिर समर्थन मिल ही जाता है, इसलिए जनहित और इसकी सहलग्नता से युवाओं के बढ़ते आत्महत्या मामलों को देखते हुए अब इस तरह की गेमिंग और एप्स को पूरी तरह से बैन किया जाना समय की मांग है। चूंकि अभी सिर्फ 22 एपो पर बैन लगाई गई है जबकि इसके पहले भी 100 से अधिक पर बैन लगा

है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि भारत में युवाओं को विभिन्न अवैध सट्टेबाजी कारोबार, गेमिंग, जुआ से बचाने जीएसटी रूपी स्पीड ब्रेकर से कहीं अधिक इनको अवैध घोषित करना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम एक राज्य में ठीक चुनावी समर में एप पर बवंडर की करें तो, चुनाव से ठीक पहले सियासी बंवडर खड़ा हो गया है। महादेव ऐप को विपक्षी पार्टी ने चुनाव का मुद्दा बनाया है। इस मामले में सीधे-सीधेमुख्यमंत्री का नाम सामने आने के बाद तो पार्टी आक्रमक है। खुद पीएम ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी की सरकार ने यहां की जनता का विश्वास तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। हालांकि, सीएम ने इन आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइटों को प्रतिबंध करने का आदेश जारी किया है। आईटी मंत्रालय ने अवैधसट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ चल रही जांच के बीच इन एप्स पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं। आखिर क्या है महादेव ऐप और क्यों आया छत्तीसगढ़ में भूचाल। कैसे जुड़ा सीएम का नाम यह खोजने वाले प्रश्न हैं। सीएम ने तंज कसते हुए ऑनलाइन ऐप पर जारी सियासी घमासान के बीच कहा कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। विपक्षी पार्टीऔर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव ऐप के मालिकों को बचा रही है। अगर इन्हें सही में कार्रवाई करनी है तो आरोपियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ये पार्टी ईडी को हथियार बनाकर विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करवा रही है। मैं साफ कर दूं कि इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं और ना ही कभी वैसे मुलाकात हुई है जैसा कि दावा किया जा रहा है। मुझे बदनाम करने के लिए वो पार्टी ऐसा काम कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता ही विरोधी पार्टी को करारा जवाब देगी। आगे कहा कि पूरे देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ इस राज्य में ही क्यों किया जा रहा है. क्योंकि यहां चुनाव है। चुनाव खत्म होने तक यह घमासान जारी रहेगा उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपी से कड़ी पूछताछ और उसके पास से जब्त फो की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं ईमेल के मुताबिक, महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने अब तक करीब 508 करोड़ रुपये दिए हैं। हालांकि एजेंसी ने कहा कि पैसे दिए गए या नहीं, इसकी जांच चल रही है। इस मामले के खुलासे होने के बाद सीएम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि चुनाव के दौरान इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है।किसी को पकड़वाकर मैं पीएम का नाम कहवा दूं तो क्या पीएम से एजेंसीपूछताछ करेगी किसी का नाम लेना बहुत आसान है। साबित करना उतना ही मुश्किल काम है। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। ईडी ने यूएई से आए शख्स पर शिकंजाकसा है ईडी के पास खुफिया सूचना है। इस राज्य में 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ये पैसे सत्तारूढ़ के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए एक कैश कूरियर को रायपुर से पकड़ा था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि एजेंट को ऐप प्रमोटरों ने यूएई से भेजा था। ईडी ने 5.39 करोड़ रुपये की नकद राशि उनकी कार से बरामद की। जब्त धनराशि पर आरोपी ने स्वीकार किया है कि महादेव ऐप के प्रमोटरों ने राज्य में आगामी चुनाव खर्चो के लिए एक राजनेता को देने की व्यवस्था की गई थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनमें 15.59 करोड़ रुपये की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी नेआरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, महादेव बुक ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है। इसके प्रमोटर रायपुर निवासी हैं और दोनों दुबई में रहते हैं। दोनों पर आरोप है कि ये ये दुबई से ही ऐप को संचालित करते हैं।ईडी ने इसे भारत में बंद कर दिया है। एजेंसी ने इस मामले में चार लोगों को डिटेन भी किया है।

जीवन को आसान बनाने की उपयोगिता सोच

यह दिवस इसलिये भी है प्रौद्योगिकी लोगों को उनके अनुसार जीने में मदद करते हुए पूर्ण क्षमता और हर जगह सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर उपयोग एवं उपभोग संसार की संरचना कर सके। शैक्षिक प्रौद्योगिकी न केवल सस्ती और सर्वसुलभ होनी चाहिए, बल्कि शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा उपयोग करने योग्य भी होनी चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा दुनिया भर में हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

ललित गर्ग

सरल को जटिल बनाना आम बात है लेकिन जटिल को सरल, अद्भुत रूप से सहज बनाना, यही रचनात्मकता है। इसी रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिये विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रयोज्यता, प्रयोज्य इंजीनियरिंग, सार्वभौमिक प्रयोज्यता, उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन और बेहतर काम करने वाली चीजों के बारे में आम उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी के मूल्यों को बढ़ावा देना एवं उनमें सावधानी, सतर्कता एवं जागरूकता पैदा करना ही इस दिवस का उद्देश्य है। आज प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का युग है, नित-नयी उपभोग वस्तुओं, पदार्थों एवं सेवाओं का संसार विकसित हो रही, जिसमें प्रौद्योगिकी का सहजता एवं सरलता से उपयोग करना बहुत कठिन है। एक सेल फोन दरवाजे की घुंडी की तरह उपयोग में आसान होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकार, संचार, मनोरंजन, कार्य और अन्य क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली दुनिया को मानवीय बनाने के लिए, हमें प्रौद्योगिकियों को इस तरह विकसित करने के लिए सहमत होना चाहिए जो पहले लोगों की सेवा करे। रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत पर्यात्त जरूरतों के बाद प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी उत्पादों एवं पदार्थों का उपयोग, संग्रह और उनके भंडारण में भागदौड़ सभी मनुष्य आदतन करते हैं। क्योंकि ज्यादातर सुख-सुविधाएं शरीर की नहीं, केवल मन की मांग हैं, जो अन्तहीन तृष्णा को जन्म देती है। लेकिन मन से जुड़ी इन मांगों में ही इंसान के ठगे जाने, गुमराह होने एवं नुकसान होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती है, इसलिये इन खतरों एवं संकटों से बचाना ही उपयोगिता दिवस का मूल ध्येय है।

सुविधावादी जीवन को विस्तार देने के लिये विकसित हो रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी साधनों एवं सेवाओं के उपयोग में विवेक एवं समझ का होना जरूरी है। प्रौद्योगिकी एवं उपयोग के बीच उचित सामंजस्य, सहयोग एवं समन्वय का दृष्टिकोण अपेक्षित है। इसीलिये इस वर्ष इस दिवस की थीम 'सहयोग और सहयोग' है। इस दिवस की शुरुआत 2004 में यूपीए बोर्ड के दो सदस्यों, एलिजाबेथ रोसेनज़वेग और निगेल बेवन के बीच एक चर्चा से उपजे विचार के रूप में हुई। प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिये हो, न कि जीवन में तनाव एवं समस्याओं को बढ़ाये या खराब डिजाइन या खराब गुणवत्ता के माध्यम से खतरे का कारण बने। यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि विकसित हो रही प्रौद्योगिकी एवं तकनीक प्रभावी, कुशल, संतोषजनक और विश्वसनीय हो और यह सभी लोगों के लिए उपयोग योग्य हो। यह विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रौद्योगिकी उनके जीवन को बेहतर बना सकती है, जिससे वे काम, सामाजिक और नागरिक अनुभवों में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास यह

जानकर किया जाना चाहिए कि मनुष्य की कुछ सीमाएँ हैं। यदि तकनीक उपयोग में आसान और समझने में आसान नहीं है तो मानवीय त्रुटि होगी। हमें ख़राब डिज़ाइन एवं गुणवत्ताहीन वस्तुओं के परिणामस्वरूप होने वाली मानवीय त्रुटि को कम करने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार, गोपनीयता, संचार, कार्य और मनोरंजन सहित लोगों को उनके जीवन के सभी पहलुओं में सेवा प्रदान करने के लिए विश्वसनीय, उपयोग में आसान तकनीक विकसित करने के लिए एकजुट एवं समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। हमें लोगों को डिज़ाइन के केंद्र में रखना चाहिए, शुरुआत उनकी ज़रूरतों और चाहतों से करनी चाहिए और परिणामस्वरूप ऐसी तकनीक तैयार करनी चाहिए जिससे हम सभी को फ़ायदा हो। जो मनुष्यों को वास्तव में उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करती है, ताकि हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें। यह एक अनूठा, विलक्षण एवं प्रासंगिक दिवस जो दुनिया भर की घटनाओं का एक विश्वव्यापी दिन प्रदान करते हुए पेशेवर, औद्योगिक, शैक्षिक, नागरिक और सरकारी समूहों के समुदायों को सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ लाता है। यह दिवस इसलिये भी है प्रौद्योगिकी लोगों को उनके अनुसार जीने में मदद करते हुए पूर्ण क्षमता और हर जगह सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर उपयोग एवं उपभोग संसार की संरचना कर सके। शैक्षिक प्रौद्योगिकी न केवल सस्ती और सर्वसुलभ होनी चाहिए, बल्कि शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा उपयोग करने योग्य भी होनी चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा दुनिया भर में हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग आसान होना चाहिए। इस क्षेत्र में छोटी-सी भी त्रुटि महंगी एवं जनजीवन के लिये बेहद हानिकारक हो सकती है। हमें स्वस्थ खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता है जो हर जगह लोगों की भलाई में सुधार करेगी। ऐसी तकनीक जो सभी के लिए बेहतर भोजन का उत्पादन करती है, उसे ऐसे अनुसंधान पर बनाया जाना चाहिए जो संपूर्ण मानवता के हित में हो।

विश्व उपयोगिता दिवस की परिधि में दुनिया भर की सरकारें एवं संचार व्यवस्थाएं भी आती हैं। सरकारों द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवा देने और नागरिक अनुभव में भागीदारी बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में नागरिक करों का भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन व्यापार की देखभाल कर सकते हैं; यही क्षमता सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उस डिजिटल विभाजन को खत्म किया जा सके जो अमीरों को गरीबों से अलग करता है या सामाजिक समूहों को अलग करता है। मतदान प्रणालियों को चुनावों में विश्वास और भरोसा सुनिश्चित करना चाहिए। नागरिक सहभागिता का समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकी को सभी नागरिकों को समान पहुंच और अवसर देना चाहिए। लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने में संचार-क्रांति ने व्यापक सहयोग किया है। संचार के लिए पहले से कहीं अधिक साधन विकसित हुए हैं जैसे फोन, इंटरनेट, मोबाइल, संदेश और मुद्रित माध्यम। लोगों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग सहज होना चाहिए। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे ई-कॉमर्स, ई-सरकार और ई-संचार के नए रूपों के बारे में चिंताएँ भी बढ़ती हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए कि हमारी बातचीत सुरक्षित है, कि बच्चे और अन्य सुरक्षित हैं, और हमारे सिस्टम भरोसेमंद हैं। आधुनिक जीवनशैली में मनोरंजन के साधनों का भी आश्चर्यकारी विकास हुआ है, मनोरंजन केवल हमारे खाली समय के साधन नहीं है बल्कि लोग अपने दैनिक जीवन में कई कारणों से मनोरंजन का उपयोग करते हैं। मनोरंजन की दुनिया ने हमें नए तरीकों और नए उपकरणों पर फोटो, फिल्में, संगीत और गेम देने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है। लेकिन, मनोरंजन को भी प्रयोज्यता से लाभ होता है! समझ से परे रिमोट कंट्रोल, भ्रमित करने वाले निर्देश और चमकती वीसीआर घड़ियां हमारे मीडिया में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

‘अमृता का ख़्वाब...साहिर’ का मंचन

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। आज संत गाड्गे प्रेक्षागृह, संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उ0प्र0 सरकार व इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोंसेज़, रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट सोसाइटी (आई.एच.आर.आर.डी.), के तत्वावधान में नाटक ‘अमृता का ख्वाब...साहिर’ का मंचन हुआ। जोकि प्रसिद्ध लेखक एस.एन.लाल का लिखा हुआ था और इसका निर्देशन नवाब मसूद अब्दुल्लाह और एस.एन.लाल ने किया है। यह नाटक इस दौर की उर्दू की बड़ी विभूति स्व0 शारिब रिदौलवी को समर्पित था। इस अवसर पर स्व0 शारिब साहब को 2 मिनट का मौन रखकर श्रृद्धांजलि भी दी गयी।

इस नाटक में बीच-बीच में साहिर के फिल्मी गीतो को गायको ने मंच पर ही प्रस्तुत किया, जोकि नाटक को और खुबसूरत बनाता है। नाटक में साहिर-अमृता की जहां पहली मुलाक़ात हुई, उस मुशायरे को भी पेश किया गया है, जोकि प्रीतनगर में सन् 1944 में हुआ था, इस मुशायरे में जॉ-निसार अख़्तर, मजाज़ लखनवी, जोश मलिहाबादी, अर्श अलसियानी, अली सरदार जाफरी, अमृता प्रीतम व साहिर को मुशायरा पढ़ते हुए दिखाया गया जिसको देखकर और मशायरा सुनकर दर्शन मनोरंजित हुए, दर्शको को लगा, कि मानों वह सन् 1944 में ही बैठे सुन रहे है।

नाटक में अमृता व साहिर के मोहब्बत के पहलूओं को उजागर किया गया है, जोकि समाज को एक संदेश देते है, यह कहानी इन लोगों की मुलाक़ात यानि सन् 1944 से शुरु होकर साहिर के देहान्त यानि 1980 पर ख़त्म हो जाती है। नाटक में जहॉ एक तरफ साहिर अमृता की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गये थे, वही अपनी मॉ से इतनी मोहब्बत करते थे, कि अपनी मॉ और अपने बीच किसी तीसरे को लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाये। उधर अमृता ने साहिर की वजह से अपने पति प्रीतम सिंह को छोड़ दिया, लेकिन साहिर का साथ न मिलने की वजह से साहिर के इन्तेज़ार में ही अपने दोस्त इमरोज़ के साथ रहने लगी। साहिर, ...अमृता का ख़्वाब था, जोकि साहिर के देहान्त के बाद टूट गया... ! फिर अमृता ने बाक़ी बचा अपना जीवन इमरोज़ के साथ ही गुज़ारा।

- नाटक में जहां मॉ और महबूब की मोहब्बत महत्तव को दर्शाया गया
- वही सन् 1944 का मुशायरे को बहुत ही खुबसूरती से पेश किया गया

नाटक की परिकल्पना अतहर नबी साहब की थी, साहिर व अमृता के चरित्रों को सार्थक करने के लिए दिल्ली से आये कलाकारों ने साहिर का चरित्र राजीव शर्मा ने, अमृता का चरित्र चॉद मुखर्जी ने निभाया। सूत्रधार का चरित्र नवाब मसूद अब्दुल्लाह ने, इमरोज़ का चरित्र आदित्य ओहरी, निसार का चरित्र फरीद ख़ान व जयदेव का चरित्र अल्तमश आज़मी, जोश महिलाबादी का राहुल मिश्रा, जॉ-निसार का शाहरुख़, अली सरदार जाफरी का शहबाज़, अर्श मलसियानी का साक़िब हसन, मजाज़ लखनवी का अल्तमश आज़मी व नौकर का चरित्र शाहिद ने किया। इसके साथ ही मंच पर साहिर के गीतों को आवाज़ देने वाले गायकों में जावेद गौरी, कुमार मुकेश व कृति उपस्थित थे।

1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाष्म पार्क को यूनेस्को की सूची में दर्ज कराया जायेगा

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। जनपद सोनभद्र में अमेरिका के एलोस्टोन पार्क के बाद एशिया का सबसे बड़े एवं प्राचीन सलखन जीवाष्म पार्क के समीप स्थित जीवाष्म पार्क को पर्यटन विभाग युनेस्को की सूची में दर्ज कराने का निर्णय लिया है। यह फासिल्स पार्क लगभग 1400 मिलियन वर्ष पूराना होने का अनुमान है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से जीवाष्म वैज्ञानिक एवं पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। इस स्थान पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का फैसला लिया गया है।

यह जानकारी आज यहाँ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन के मामले में विश्व मानचित्र पर स्थापित किया जाए। इसी को देखते हुए जीवाष्म पार्क को दुनिया के सामने पेश करने के लिए यूनेस्को की सूची में स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल में ही विभाग की टीम ने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइन्सेज के निदेशक डॉ0 एम0जी0 ठक्कर के साथ इस पार्क का भ्रमण किया था। जनपद सोनभद्र में बहुत-सी प्राकृतिक संरचनाएं मौजूद हैं। पर्यटकों एवं जीवाष्म प्रेमियों को देखने के लिए कई दर्शनीय स्थल भी हैं। इसलिए इसके आसपास पर्यटन विकास किया जायेगा।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाये जाते हैं, उन्हें जीवाष्म या फासिल्स कहते हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के निरीक्षण से पता चलता है कि पृथ्वी पर अलग-अलग कालखण्ड में भिन्न-भिन्न श्रेणी के जीव-जन्तु हुए हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय होती हैं। जनपद सोनभद्र जिले में इसके अलावा बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। रमणीक एवं मनोरम घाटियों एवं जल प्रपात भी हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगो की भी आमदनी होगी।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि इस पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट्स प्रकार के जीवाश्म हैं। अनुमान के मुताबिक यह 1400 मिलियन वर्ष पुराना है। इसकी देखरेख वन विभाग करता है। सोनभद्र में इतने पुराने फासिल की जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। इसलिए यहां पर्यटकों की संख्या कम है। पर्यटन विभाग यहां बुनियादी पर्यटक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही लोगों तक विभिन्न् माध्यमों से जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसकी लोकप्रियता बढ़ने से राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

जयवीर सिंह ने बताया कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट का एक ऐसा संगठन है, जो

बिजली चोरी के मामलों में छूट दिए जाने के आदेश पर उपभोक्ता परिषद ने उठाई मांग

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। बिजली कंपनियों की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने दो दिन पहले एकमुस्त समाधान योजना का ऐलान किया साथ ही विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्माने में छूट का भी ऐलान कर दिया बिजली चोरी में जुर्माने में छूट तीन चरणों में अलग-अलग आदेश लागू किया जिसमें पहले चरण में जमा करने पर तीन किस्तों की छूट देते हुए केवल 10 प्रतिसत पंजीकरण और कुल राजस्व से निर्धारण का 25 प्रतिसत यानी कि राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिसत जमा करने के बाद 65 प्रतिसत राजस्व निर्धारण की छूट का ऐलान कर दिया इसी प्रकार आगे भी छूट का अलग-अलग चरणों में आदेश निर्गत है उपभोक्ता परिषद का मानना है की बिजली चोरी से ट्रांसफार्मर जला तार टूटा जो भी नुकसान हुआ और अब बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण में भी छूट दी जा रही है तो ऐसे में प्रदेश के जो आदर्श उपभोक्ता है इसका खामियाजा न भुगते उपभोक्ता परिषद माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप से मांग करता है कि इसके येवज में उत्तर प्रदेश सरकार से राजस्व निर्धारण की जो भी राशि माफ की जाए उसके अनुपात में बिजली विभाग को भविष्य में सब्सिडी दिलाए जिससे सही मायने में आदर्श उपभोक्ता बिजली चोरी का खामियां न भुगते।

‘नवीन विश्व व्यवस्था’ के गठन के लिए होगा प्रयास

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में आयोजित ‘विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 24वें पाँच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ में पधारे 61 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश व अन्य प्रख्यात हस्तियों ने ‘लखनऊ घोषणा पत्र’ के माध्यम से विश्व के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों का आह्वान किया है कि भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण, शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्था एवं सुरक्षित भविष्य हेतु अविलम्ब एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायें। पाँच दिनों तक चले इस महासम्मेलन में विश्व की प्रख्यात हस्तियों, न्यायविद् व कानूनविदों ने गहन चिन्तन, मनन व मन्थन के उपरान्त आज सी.एम.एस. गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) ऑडिटोरियम में सर्वसम्मति से ‘लखनऊ घोषणा पत्र’ जारी किया।

लखनऊ घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में देश-दुनिया से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों ने विस्तार से अपने विचार रखते हुए कहा कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य हेतु एक ‘नवीन विश्व व्यवस्था’ के गठन तक हमारा प्रयास निरन्तर जारी रहेगा। इस घोषणा पत्र में विश्व के 61 देशों से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों ने विश्व एकता व शान्ति हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जोर दिया है, साथ ही मूलभूत अधिकारों, सभी धर्मो का आदर करने एवं विद्यालयों में शान्ति व एकता की शिक्षा देने के लिए भी कहा गया है। प्रेस कान्फ्रेन्स में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न देशों से पधारे न्यायविदों ने एक स्वर से कहा कि सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनऊ द्वारा आयोजित यह मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन है, जिससे आगे की पीढियां अवश्य लाभान्वित होंगी।

त्यौहार विशेष रेलगाड़ियाँ – 2023

दीपावली एवं छठ पूजा त्यौहारों के दौरान रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु उत्तर रेलवे द्वारा अन्य जोनल रेलों के सहयोग से निम्नलिखित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जायेंगी जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

उत्तर रेलवे नेटवर्क से यात्रा प्रारम्भ करने वाली/समाप्त करने वाली त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों की सूची

विशेष गाड़ी सं.	स्टेशन से	प्रस्थान समय	स्टेशन तक	आगमन समय	आवृति	चलने के दिन	चलने की तिथि
03255	पटना जं.	22:20	आनंद विहार टर्मिनल	15:00	सप्ताह में दो दिन	गुरुवार, रविवार	23.11.2023 से 10.12.2023
03256	आनंद विहार टर्मिनल	23:30	पटना जं.	17:20		शुक्रवार, सोमवार	24.11.2023 से 11.12.2023
02391	पटना जं.	22:20	आनंद विहार टर्मिनल	15:00	साप्ताहिक	शनिवार	25.11.2023 से 09.12.2023
02392	आनंद विहार टर्मिनल	23:30	पटना जं.	17:20		रविवार	26.11.2023 से 10.12.2023
03635	गया जं.	14:15	आनंद विहार टर्मिनल	05:00	सप्ताह में तीन दिन	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार	20.11.2023 से 08.12.2023
03636	आनंद विहार टर्मिनल	07:00	गया जं.	20:45		मंगलवार, गुरुवार, शनिवार	21.11.2023 से 09.12.2023
05557	जयनगर	06:00	आनंद विहार टर्मिनल	05:00	साप्ताहिक	मंगलवार	21.11.2023 से 05.12.2023
05558	आनंद विहार टर्मिनल	07:30	जयनगर	06:30		बुधवार	22.11.2023 से 06.12.2023
04678	फिरोजपुर कैंट जं.	13:25	पटना जं.	17:00	साप्ताहिक	बुधवार	29.11.2023 तक
04677	पटना जं.	18:45	फिरोजपुर कैंट जं.	22:40		गुरुवार	30.11.2023 तक
04012	नई दिल्ली	19:20	दरभंगा जं.	16:45	सप्ताह में दो दिन	मंगलवार, शुक्रवार	28.11.2023 तक
04011	दरभंगा जं.	18:00	नई दिल्ली	16:40		बुधवार, शनिवार	08.11.2023 से 29.11.2023
04518	चंडीगढ़	23:15	गोरखपुर	18:20	साप्ताहिक	गुरुवार	30.11.2023 तक
04517	गोरखपुर	22:05	चंडीगढ़	14:10		शुक्रवार	01.12.2023 तक
04530	भटिंडा जं.	20:55	वाराणसी जं.	17:30	सप्ताह में दो दिन	रविवार, बुधवार	29.11.2023 तक
04529	वाराणसी जं.	20:40	भटिंडा जं.	19:10		सोमवार, गुरुवार	30.11.2023 तक
04060	आनंद विहार टर्मिनल	10:30	जयनगर	15:15	सप्ताह में दो दिन	मंगलवार, शुक्रवार	28.11.2023 तक
04059	जयनगर	17:00	आनंद विहार टर्मिनल	19:55		बुधवार, शनिवार	08.11.2023 से 29.11.2023
04488	आनंद विहार टर्मिनल	23:15	गोरखपुर	14:00	साप्ताहिक	शनिवार	25.11.2023 तक
04487	गोरखपुर	17:25	आनंद विहार टर्मिनल	10:40		रविवार	26.11.2023 तक
04010	आनंद विहार टर्मिनल	23:45	जोगबनी	05:20	साप्ताहिक	मंगलवार	28.11.2023 तक
04009	जोगबनी	09:00	आनंद विहार टर्मिनल	16:05		गुरुवार	09.11.2023 से 30.11.2023
01664	आनंद विहार टर्मिनल	11:10	सहरसा जं.	11:20	साप्ताहिक	सोमवार	27.11.2023 तक
01663	सहरसा जं.	14:30	आनंद विहार टर्मिनल	13:55		मंगलवार	28.11.2023 तक
03257	दानापुर	07:30	आनंद विहार टर्मिनल	00:30	साप्ताहिक	रविवार	26.11.2023 से 10.12.2023
03258	आनंद विहार टर्मिनल	05:00	दानापुर	20:45		सोमवार	27.11.2023 से 11.12.2023
05577	सहरसा जं.	19:10	अम्बाला कैंट जं.	23:15	साप्ताहिक	शुक्रवार	24.11.2023 से 08.12.2023
05578	अम्बाला कैंट जं.	03:40	सहरसा जं.	09:45		रविवार	26.11.2023 से 10.12.2023
05531	रक्सौल जं.	22:25	आनंद विहार टर्मिनल	18:00	साप्ताहिक	रविवार	26.11.2023 से 10.12.2023
05532	आनंद विहार टर्मिनल	20:00	रक्सौल जं.	14:30		सोमवार	27.11.2023 से 11.12.2023
05273	मुजफ्फरपुर जं.	18:00	आनंद विहार टर्मिनल	11:00	सप्ताह में दो दिन	बुधवार, शनिवार	22.11.2023 से 09.12.2023
05274	आनंद विहार टर्मिनल	13:25	मुजफ्फरपुर जं.	07:00		गुरुवार, रविवार	23.11.2023 से 10.12.2023
05005	गोरखपुर	14:40	अमृतसर जं.	09:30	साप्ताहिक	शुक्रवार	01.12.2023 तक
05006	अमृतसर जं.	12:45	गोरखपुर	08:50		शनिवार	02.12.2023 तक
04049	नई दिल्ली	23:30	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	11:25	सप्ताह में दो दिन	सोमवार, शनिवार	27.11.2023 तक
04050	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	18:30	नई दिल्ली	06:25		मंगलवार, रविवार	28.11.2023 तक
04080	नई दिल्ली	19:20	वाराणसी जं.	09:45	सप्ताह में तीन दिन	सोम, गुरुवार, शनि	30.11.2023 तक
04079	वाराणसी जं.	18:35	नई दिल्ली	09:00		मंगल, शुक्रवार, रवि	01.12.2023 तक
01654	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	23:20	वाराणसी जं.	23:55	साप्ताहिक	रविवार	26.11.2023 तक
01653	वाराणसी जं.	06:20	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	11:20		मंगलवार	28.11.2023 तक
04646	जम्मू तवी	05:45	बरौनी जं.	12:10	साप्ताहिक	गुरुवार	30.11.2023 तक
04645	बरौनी जं.	15:15	जम्मू तवी	22:30		शुक्रवार	01.12.2023 तक
04048	आनंद विहार टर्मिनल (अनारक्षित विशेष)	15:30	पूर्णियाँ जं.	16:05	तिथि वार	बुध, शनि, मंगल, शुक्र	08, 11, 14 एवं 17.11.2023
04047	पूर्णियाँ जं. (अनारक्षित विशेष)	16:55	आनंद विहार टर्मिनल	17:50		गुरु, रवि, बुध, शनि	09, 12, 15 एवं 18.11.2023
04052	आनंद विहार टर्मिनल (अनारक्षित विशेष)	22:45	सहरसा जं.	03:30	तिथि वार	बुध, शनि, मंगल, शुक्र	08, 11, 14 एवं 17.11.2023
04051	सहरसा जं. (अनारक्षित विशेष)	07:00	आनंद विहार टर्मिनल	10:30		शुक्र, सोम, गुरु, रवि	10, 13, 16 एवं 19.11.2023
04058	आनंद विहार टर्मिनल (अनारक्षित विशेष)	08:30	जयनगर	07:00	तिथि वार	गुरु, रवि, बुध, शनि	09, 12, 15 एवं 18.11.2023
04057	जयनगर (अनारक्षित विशेष)	11:00	आनंद विहार टर्मिनल	10:00		शुक्र, सोम, गुरु, रवि	10, 13, 16 एवं 19.11.2023
04066	आनंद विहार टर्मिनल	23:00	पटना जं.	16:00	सप्ताह में दो दिन	सोमवार, गुरुवार	30.11.2023 तक
04065	पटना जं.	17:45	आनंद विहार टर्मिनल	10:35		मंगलवार, शुक्रवार	01.12.2023 तक
04062	दिल्ली जं.	08:05	बरौनी जं.	06:30	साप्ताहिक	रविवार	26.11.2023 तक
04061	बरौनी जं.	08:00	दिल्ली जं.	05:50		सोमवार	27.11.2023 तक
01676	आनंद विहार टर्मिनल	23:15	मुज़फ़्फ़रपुर जं.	21:15	सप्ताह में दो दिन	सोमवार, गुरुवार	30.11.2023 तक
01675	मुज़फ़्फ़रपुर जं.	23:00	आनंद विहार टर्मिनल	23:30		मंगलवार, शुक्रवार	01.12.2023 तक
01678	नई दिल्ली	08:10	गया जं.	00:30	सप्ताह में दो दिन	सोमवार, शुक्रवार	27.11.2023 तक
01677	गया जं.	07:35	नई दिल्ली	23:35		मंगलवार, शनिवार	28.11.2023 तक
02250	नई दिल्ली (राजधानी स्पेशल)	19:10	पटना जं.	07:30	तिथि वार	शुक्र, सोम, बुध, शुक्र	10, 13, 15 एवं 17.11.2023
02249	पटना जं. (राजधानी स्पेशल)	09:00	नई दिल्ली	21:00		शनि, मंगल, गुरु, शनि	11, 14, 16 एवं 18.11.2023
04002	आनंद विहार टर्मिनल	23:55	पटना जं.	15:45	तिथि वार	शुक्र, शनि, सोम, मंगल, गुरु	10, 11, 13, 14 एवं 16.11.2023
04001	पटना जं.	18:45	आनंद विहार टर्मिनल	10:20		शनि, रवि, मंगल, बुध, शुक्र	11, 12, 14, 15 एवं 17.11.2023
04022	नई दिल्ली	15:30	सहरसा जं.	16:30	तिथि वार	शुक्र, शनि, सोम, मंगल, गुरु	10, 11, 13, 14 एवं 16.11.2023
04021	सहरसा जं.	19:00	नई दिल्ली	20:20		शनि, रवि, मंगल, बुध, शुक्र	11, 12, 14, 15 एवं 17.11.2023
05283	मुज़फ़्फ़रपुर जं.	18:00	आनंद विहार टर्मिनल	11:00	सप्ताह में दो दिन	बुधवार, शनिवार	11.11.2023 से 18.12.2023
05284	आनंद विहार टर्मिनल	13:25	मुज़फ़्फ़रपुर जं.	07:00		गुरुवार, रविवार	12.11.2023 से 19.12.2023
02252	नई दिल्ली (वंदे भारत त्यौहार विशेष)	07:25	पटना जं.	19:00	तिथि वार	शनि, मंगल, गुरु	11, 14 एवं 16.11.2023
02251	पटना जं. (वंदे भारत त्यौहार विशेष)	07:30	नई दिल्ली	19:00		रवि, बुध, शुक्र	12, 15 एवं 17.11.2023
09097	बान्द्रा टर्मिनस	21:50	जम्मू तवी	08:35	साप्ताहिक	रविवार	12.11.2023 से 26.11.2023
09098	जम्मू तवी	23:20	बान्द्रा टर्मिनस	10:10		मंगलवार	14.11.2023 से 28.11.2023
09523	ओखा	10:00	दिल्ली सराय रोहिल्ला	10:10	साप्ताहिक	मंगलवार	28.11.2023 तक
09524	दिल्ली सराय रोहिल्ला	13:20	ओखा	13:50		बुधवार	29.11.2023 तक
03435	मालदा टाउन	09:30	आनंद विहार टर्मिनल	12:30	साप्ताहिक	सोमवार	13, 20 एवं 27.11.2023
03436	आनंद विहार टर्मिनल	18:30	मालदा टाउन	23:30		मंगलवार	14, 21 एवं 28.11.2023
02246	नई दिल्ली (गति शक्ति स्पेशल)	23:45	पटना जं.	15:50	तिथि वार	शुक्र, शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र	10, 11, 14, 15, 16 एवं 17.11.2023
02245	पटना जं. (गति शक्ति स्पेशल)	19:00	नई दिल्ली	10:30		शनि, रवि, बुध, गुरु, शुक्र, शनि	11, 12, 15, 16, 17 एवं 18.11.2023
04494	आनंद विहार टर्मिनल (गति शक्ति स्पेशल)	08:30	लखनऊ	18:00	तिथि वार	शुक्रवार	10.11.2023
04493	लखनऊ (गति शक्ति स्पेशल)	08:45	आनंद विहार टर्मिनल	18:15		रविवार	12.11.2023
04498	आनंद विहार टर्मिनल	08:30	वाराणसी जं.	23:30	तिथि वार	शनिवार	11.11.2023
04497	वाराणसी जं.	04:00	आनंद विहार टर्मिनल	19:10		रविवार	12.11.2023
05734	कटिहार	07:50	अमृतसर	00:05	साप्ताहिक	शनिवार	25.11.2023 तक
05733	अमृतसर	12:45	कटिहार	03:30		सोमवार	27.11.2023 तक
04525	सहरसा जं.	19:00	अम्बाला कैंट	22:20	तिथि वार	गुरु, रवि, बुध, शनि	09, 12, 15 एवं 18.11.2023
04527	सहरसा जं.	19:00	अम्बाला कैंट	22:20		सोम, मंगल, शुक्र	10, 14, 17 एवं 20.11.2023
04526	सरहिंद	11:25	सहरसा जं.	16:00	तिथि वार	बुध, शनि, मंगल, शुक्र	08, 11, 14 एवं 17.11.2023
04528	सरहिंद	11:25	सहरसा जं.	16:00		गुरु, सोम, गुरु, रवि	09, 13, 16 एवं 19.11.2023
02260	नई दिल्ली	18:15	भागलपुर	15:15	तिथि वार	मंगलवाल, शुक्रवार	14 एवं 17.11.2023
02259	भागलपुर	20:00	नई दिल्ली	17:00		बुधवार, शनिवार	15 एवं 18.11.2023
04490	नई दिल्ली	19:35	दरभंगा	16:45	तिथि वार	बुध, शनि, बुध, शनि	08, 11, 15 एवं 18.11.2023
04489	दरभंगा	18:00	नई दिल्ली	16:40		गुरुवार, रविवार	09, 12, 16 एवं 19.11.2023
04115	प्रयागराज जं.	21:25	आनन्द विहार (ट)	08:15	तिथि वार	मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार	09, 14, 17, 21 एवं 23.11.23
04116	आनन्द विहार (ट)	10:15	प्रयागराज जं.	20:00		बुधवार, शुक्रवार, शनिवार	10, 15, 18, 22 एवं 24.11.23
05023	गोरखपुर जं.	20:55	दिल्ली जं.	12:30	साप्ताहिक	रविवार	03.12.2023 तक
05024	दिल्ली जं.	14:30	गोरखपुर जं.	07:30		सोमवार	04.12.2023 तक
05115	छपरा	17:45	आनन्द विहार (ट)	11:50	साप्ताहिक	बुधवार	08.11.2023 से 29.11.2023
05116	आनन्द विहार (ट)	14:45	छपरा	09:30		गुरुवार	09.11.2023 से 30.11.2023
05306	लाल कुँआ	22:00	छपरा	07:10	तिथि वार	मंगल, बुध, शुक्र, रवि	29.12.2023 तक
05305	छपरा	08:55	लाल कुँआ	18:00		बुध, गुरु, शनि, सोम	08.11.2023 से 30.12.2023
04006	दिल्ली जं.	23:05	जयनगर	23:45	तिथि वार	गुरु, रवि, बुध	09, 12 एवं 15.11.2023
04005	जयनगर	01:30	दिल्ली जं.	01:30		शनि, मंगल, शुक्र	11, 14 एवं 17.11.2023
04004	नई दिल्ली (अनारक्षित त्यौहार विशेष)	00:10	सीतामढ़ी	23:30	तिथि वार	शनि, मंगल, शुक्र	11, 14 एवं 17.11.2023
04003	सीतामढ़ी (अनारक्षित त्यौहार विशेष)	02:00	नई दिल्ली	01:30		रवि, बुध, शनि	12, 15 एवं 18.11.2023
04016	नई दिल्ली	14:55	सहरसा जं.	15:50	तिथि वार	गुरु, रवि, बुध, शनि, मंगल	09, 12, 15, 18 एवं 21.11.2023
04015	सहरसा जं.	18:00	नई दिल्ली	19:20		शुक्र, सोम, गुरु, रवि, बुध	10, 13, 16, 19 एवं 22.11.2023
02248	आनंद विहार टर्मिनल	00:30	पटना जं.	16:30	तिथि वार	गुरु, शनि, गुरु, शनि	09, 11, 16 एवं 18.11.2023
02247	पटना जं.	19:10	आनंद विहार टर्मिनल	10:50		गुरु, शनि, गुरु, शनि	09, 11, 16 एवं 18.11.2023
09129	वडोदरा	19:00	हरिद्वार	14:30	साप्ताहिक	शनिवार	11.11.2023 से 25.11.2023
09130	हरिद्वार	17:20	वडोदरा	11:25		रविवार	12.11.2023 से 26.11.2023

उत्तर रेलवे नेटवर्क से होकर गुजरने वाली त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों की सूची

विशेष गाड़ी सं.	स्टेशन से	प्रस्थान समय	स्टेशन तक	आगमन समय	आवृति	चलने के दिन	चलने की तिथि
09075	मुम्बई सेंट्रल	11:00	काठगोदाम	14:30	साप्ताहिक	बुधवार	08.11.2023 से 29.11.2023
09076	काठगोदाम	17:30	मुम्बई सेंट्रल	20:55		गुरुवार	09.11.2023 से 30.11.2023
07651	जालना	23:35	छपरा	05:30	साप्ताहिक	बुधवार	29.11.2023 तक
07652	छपरा	22:15	पुणे	04:00		शुक्रवार	01.12.2023 तक
05063	छपरा	16:15	लोकमान्य तिलक	07:25	साप्ताहिक	शुक्रवार	24.11.2023 तक
05064	लोकमान्य तिलक	12:45	सीवान जं.	03:15		रविवार	26.11.2023 तक
09417	अहमदाबाद जं.	09:10	पटना जं.	21:05	साप्ताहिक	सोमवार	27.11.2023 तक
09418	पटना जं.	23:45	अहमदाबाद जं.	11:20		मंगलवार	28.11.2023 तक
05616	गुवाहाटी	18:00	उदयपुर शहर	21:05	साप्ताहिक	रविवार	26.11.2023 तक
05615	उदयपुर शहर	13:45	गुवाहाटी	23:30		बुधवार	08.11.2023 से 29.11.2023
05537	दरभंगा जं.	13:15	दौराई	22:30	साप्ताहिक	शनिवार	09.12.2023 तक
05538	दौराई	23:45	दरभंगा जं.	06:50		रविवार	10.12.2023 तक
09183	मुंबई सेंट्रल	22:50	बनारस	10:30	साप्ताहिक	बुधवार	29.11.2023 तक
09184	बनारस	14:30	मुंबई सेंट्रल	04:35		शुक्रवार	01.12.2023 तक
09525	ओखा	22:00	नाहरलगुन	16:00	साप्ताहिक	मंगलवार	28.11.2023 तक
09526	नाहरलगुन	10:00	ओखा	03:35		शनिवार	02.12.2023 तक
02575	हैदराबाद	21:05	गोरखपुर	06:30	साप्ताहिक	शुक्रवार	24.11.2023 तक
02576	गोरखपुर	08:30	हैदराबाद	16:20		रविवार	26.11.2023 तक
01053	लोकमान्य तिलक	12:15	बनारस	16:05	साप्ताहिक	सोमवार	27.11.2023 तक
01054	बनारस	20:30	लोकमान्य तिलक	23:55		मंगलवार	28.11.2023 तक
01431	पुणे	16:15	गोरखपुर	21:00	साप्ताहिक	शुक्रवार	01.12.2023 तक
01432	गोरखपुर	23:25	पुणे	06:25		शनिवार	02.12.2023 तक
05303	गोरखपुर	08:30	महबूबनगर	19:30	साप्ताहिक	शनिवार	25.11.2023 तक
05304	महबूबनगर	18:00	गोरखपुर	09:00		सोमवार	27.11.2023 तक
05068	गोमती नगर	18:55	मालतीपाटपुर	04:20	साप्ताहिक	गुरुवार	09.11.2023 से 30.11.2023
05067	मालतीपाटपुर	10:00	गोमती नगर	20:00		शनिवार	11.11.2023 से 02.12.2023
09189	मुंबई सेंट्रल	10:30	कटिहार	07:30	साप्ताहिक	शनिवार	11.11.2023 से 25.11.2023
09190	कटिहार	00:15	मुंबई सेंट्रल	18:40		मंगलवार	14.11.2023 से 28.11.2023
09101	वडोदरा	19:00	गोरखपुर	23:30	साप्ताहिक	सोमवार	13.11.2023 से 27.11.2023
09102	गोरखपुर	05:00	वडोदरा	08:35		बुधवार	15.11.2023 से 29.11.2023

07.11.2023 तक की स्थिति

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी अन्य जानकारी जैसे मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन एवं उनकी विस्तृत समय–सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाईन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट **https://enquiry.indianrail.gov.in** अथवा **NTES App** देखें।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर रेलवे

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहको की सेवा मे मुस्कान के साथ

पर हमे फॉलो करे

25 रुपए किलो हर व्यक्ति को दो किलो मिला प्याज

अवधनामा संवाददाता

■ प्याज की महंगाई से मची हाहाकार को देखते हुए एनसीसीएफ भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर 25 रूपए प्रति किलो से बेचा प्याज लगी लंबी लाइनें

हरदोई। बिलग्राम में प्याज ने पकड़ी थी मंहगाई मंगलवार को मुख्य चौराहे पर एनसीसीएफ़ द्वारा पिकअप डाला आकर 25 रुपए की दर से दो किलो प्रति व्यक्ति को दिया गया अपको बताते चले की पिछले महीने 30 रू किलो बिकने वाला प्याज अब मार्केट में 50 से 60 रु प्रति किलो पर बिकने लगा था अपको बताते चले की प्याज की नई फसल भी तैयार होने वाली है दीपावली आते ही प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ गया था लोग प्याज की भरसार कर रहे है आगे और महंगाई होने के असर नजर आ रहे है 20 रु प्रति किलो वाला टमाटर ने अपना रंग दिखाया था और 200 रू प्रति किलो से बिका था अब प्याज भी लोगो को रंग दिखाने लगा था प्याज महंगा होने से दुकानदारों में चिंता सताने लगी थी जिससे अंडा दुकानदारों को हलवाई कवाब पराठा चाट लगाने वालो को अब मूली का इस्तेमाल करने लगे है साथ ही पकोड़ी भी पलक की बेची जा रही है महंगाई की मार से आम आदमी परेशान हैं वही सरकार भी अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे मंगलवार को मुख्य चौराहे पर एनसीसीएफ़ की तरफ से लोडर में प्याज भरकर 25 रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो प्याज दिया गया लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर प्याज लिया लोगो पूछने पर बताया गया की प्याज मार्केट में 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है यहां 50 रुपए का दो किलो मिल रहा है वही लोगो का कहना है की जमा खोरो पर करवाई की जाए प्याज के दाम पर कमी आए वही जो प्याज एक किलो लेने वाले लोग मंहगाई की खरीद पर खरीददारी कम करते नजर आ रहे थे मंगलवार को अचानक एनसीसीफ भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर एक पिकअप पर 25 रुपए की दर से जमकर बिक्री हुई हर व्यक्ति को दो किलो प्याज मिल रहा है अब प्याज का भाव सस्ता होगा ऐसे ही लोगो को वितरित करते रहे।

एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर से टकराई स्कार्पियो, बीच सड़क पर पलटे दोनों वाहन

मथुरा। यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह सुरीर थाना क्षेत्र में नोएडा से आगरा की ओर जा रही स्कार्पियो कार ट्रैक्टर में टकरा कर पलट गई जिससे स्कार्पियो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और एक्सप्रेस वे की राहत टीम ने मौके पर पहुंच कर घायलों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह गोविंद जेना, देवब्रत पेरिआ, परमिल सी, सुनीता और कल्पना और जगदीशशंकर निवासी रामनगर जिला पूर्वी मिदनापुर पश्चिमी बंगाल स्कॉपियो गाड़ी में नोएडा से आगरा की ओर जा रहे थे। सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन 84 के समीप अचानक अनियंत्रित होने पर स्कार्पियो गाड़ी आगे चल रहे ट्रैक्टर में टकरा कर पलट गई।

कृषकों से अच्छा व्यवहार व गन्ने की खरीद पूर्ण निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव की जायें

■ कृषकों का गन्ना समय पर तौल कराने के साथ भुगतान भी निर्धारित अवधि में करायें: डीएम

अवधनामा संवाददाता

हरदोई। डीसीएम श्रीराम चीनी मिल रूपापुर के पेराई सत्र का शुभारम्भ मा0 विधायक सवायजपुर माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मिल के एमडी प्रभात कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से गन्ना तौल कांटा, बैलगाड़ी में लगे बैलों तथा ट्रैक्टर- ट्राली लदे गन्ने के किसानों का तिलक कर, माला पहनाकर तथा शाल, टिफिन, मिठाई एवं गन्ना मूल्य की चेक प्रदान कर किया और पूजा, हवन के उपरान्त सभी अतिथियों ने डोंगा में बेल, नारियल व गन्ना डालकर विधिवत मिल का संचालन प्रारम्भ कराया। इस अवसर विधायक ने किसानों से कहा कि अपना गन्ना अपने निकट की चीनी मिल को उपलब्ध करायें और सभी सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य प्राप्त करें। उन्होने मिल प्रबन्धक से कहा कि मिल में गन्ना लाने वाले किसानों से अच्छा व्यवहार करने के साथ उनके गन्ने की खरीद पूर्ण निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव की जायें। शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत किसान प्रधान देश है इसलिए मिल प्रबन्धन अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हुए कृषकों के गन्ने की ससमय तौल कराने के साथ गन्ने का भुगतान भी निर्धारित अवधि में करायें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सवायजपुर, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार बन्धु तथा भारी संख्या में किसान उपस्थित रहें।

बच्ची के शरीर पर उभर रहे राम-राम और राधे-राधे शब्द

■ डॉक्टर भी हैरान, कहा- नहीं देखा ऐसा सिमटम

अवधनामा संवाददाता

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कक्षा एक की छात्र इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से छात्र की त्वचा पर राम और राधे शब्द उभर रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन सभी हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है।हरदोई के माधौगंज कोतवाली क्षेत्र में कक्षा एक की छात्रा के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर राम और राधे नाम के शब्द उभर आए। स्कूल में जब ऐसा हुआ तो इसकी जानकारी परिजनों को देकर बुलाया गया। जिसके बाद परिजनों ने बताया कि यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है और डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। सहिजना निवासी देवेंद्र राठौर की 8 वर्षीय पुत्री साक्षी माधौगंज कस्बे के एक प्राइवेट विद्यालय में कक्षा एक की छात्रा है। उसके शरीर पर राधे-राधे, राम-राम, गुरुदेव सहित उसका व परिवार के लोगों के नाम और अंक उभर रहे हैं। देवेंद्र के मुताबिक, पिछले 20 दिनों से साक्षी अपने शरीर पर लाइनें बनाती थी, जो खरोंच जैसी लगती थीं। पिता देवेंद्र का दावा है कि उन्होंने साक्षी को हरदोई के कई डॉक्टरों और प्राइवेट नर्सिंग होम में भी दिखाया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। सोमवार को स्कूल में साक्षी के शरीर पर राम, राधे व उसका नाम और कई अन्य अक्षर अलग-अलग जगहों पर उभर आए। हालांकि, लगभग 15 मिनट बाद त्वचा सामान्य हो गई। इतना ही नहीं साक्षी को किसी तरह का दर्द अथवा खुजली या अन्य कोई परेशानी भी नहीं है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. संजय का कहना है कि त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है, लेकिन बिना विस्तृत जांच के कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन व एडेड माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण की मांग ने पकड़ा जोर

अवधनामा संवाददाता

हरदोई। नये शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम -2023 को वापस लेकर चयन बोर्ड व चयन बोर्ड अधिनियम को यथावत रखने, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने तथा मानदेय, आउट सोर्सिंग नियुक्तियों व जन साधारण की शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण को तत्काल बंद किये जाने की तीन सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा से जुड़े दस संगठनों द्वारा बनाये गये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (संयुक्त मोर्चा) के आह्वान पर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने पदयात्रा कर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा।

संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक सुधीर कुमार गंगवार ने कहा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम कार्यरत शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता है। यह शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को समाप्त करने तथा शिक्षकों की नई भर्ती को बंद करने की साजिश है। नये आयोग का गठन ही दोषपूर्ण है। इसके 12 सदस्यों में से 6 सदस्यों के न्यूनतम योग्यता का ही पता नहीं है और 4 सदस्य शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। इसलिए संयुक्त मोर्चा पुराने चयनबोर्ड को यथावत बनाये रखने की मांग कर रहा है। जिला सह संयोजक राजबीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में एनपीएस के घोटाले शुरू हो गए हैं, आगे चल कर यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बन सकता है। सरकार इसको बंद करके तत्काल पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। जिला सह संयोजक महेश प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में केवल मौलिक और स्थायी शिक्षक नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था, सरकार इसके विरुद्ध मानदेय एवं आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां कर रही है और धीरे धीरे जनसाधारण की शिक्षा का निजीकरण कर रही है। इससे गरीबों के बच्चे शिक्षा से ही वंचित हो जाएंगे।

आर्यकन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन

हरदोई। शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में नगर पालिका परिषद हरदोई व फिनिश सोसाइटी द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रोजेक्ट मैनेजर(फिनिश) श्री विवेक सिंह द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन- नगरीय पुष्पेन्द्र सिंह ने सभी बच्चों व शिक्षिकाओं को त्योहारों में घरों में होने वाली सफाई के दौरान निकलने वाली ऐसी वस्तुयें जो उनके लिए अनुपयोगी हों जैसे पुरानी किताबें, कपड़े, बर्तन, जूते- चप्पल आदि को एकत्र कर विद्यालय में जमा करा लें, जिसे पालिका द्वारा उठवाकर पालिका स्थित ऋऋक सेंटर में जमा कर दिया जायेगा जिससे आपकी अनुपयोगी वस्तुयें किसी जरूरतमंद के काम आ सकती हैं और waste reduction होगा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने सभी को स्वच्छता रील व स्वच्छता शपथ हस्ताक्षर अभियान के बारे में अवगत कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की।

185 ली0 अवैध शराब की गयी जब्त

अवधनामा संवाददाता

हरदोई। जनपद में अवैध मद्य निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की गठित संयुक्त टीमों द्वारा लगातार चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत औचक रूप से आबकारी दुकानों की चेकिंग, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों, वाहनों एवं एल्कोहल व एथेनॉल तथा मिथाइल के टैंकरों की सघन चेकिंग की जा रही है। विगत दिवस अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध मद्य निष्कर्षण की प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा थाना पाली के ग्राम भौरापुर, हरनखुदा एवं परेली, थाना लोनार के ग्राम गंगौली, थाना मझिला के ग्राम मझिला, सहरूआपुर एवं माधौपुर, थाना पिहानी के ग्राम जुमनहरा, नयापुरवा एवं कायमपुर के अर्न्तगत सहित औचक दबिश में लगभग 185 ली0 अवैध कच्ची शराब जब्त की गयी तथा लगभग 950 कि0ग्रा0 लहन को मौके पर ही नष्ट कर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत 14 अभियोग पंजीकृत किये गये।

डीएम व एसएसपी ने जसवंतनगर में किया फ्लैग मार्च

■ मौके पर स्कूली वैन में ज्यादा बच्चें ले जाने वाली गाड़ी को सीज कराया, सख्त चेतावनी दी

अवधनामा ब्यूरो

इटावा। जिलाधिकारी अवनीश राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जसवंतनगर में पैदल गस्त किया। उन्होंने जसवंतनगर चौराहा से लेकर हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज एवं रामलीला मैदान तक पैदल गस्त किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर स्कूली वैन में ज्यादा बच्चें ले जाने वाली गाड़ी को सीज कराया तथा सख्त चेतावनी दी। उन्होंने रोड पर खड़ी बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल का चालान कर उसको चीज कराया। उन्होंने रामलीला मैदान में पटाखे की लगने वाली दुकानों की व्यवस्था का जायजा लिया एवं पटाखे की लगने वाली दुकानों को लेकर उप जिलाधिकारी को रामलीला मैदान से हटाकर बुद्ध बाजार के स्थान पर लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां पर स्कूल के बच्चों का आवा गवन रहता है एवं उनकी साइकिल आदि खड़ी होती हैं इससे स्कूली बच्चों को कोई भी समस्या ना हो। गस्त के दौरान उन्होंने विद्युत, पानी आदि समस्याओं को लेकर आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान वहां पर उपस्थित प्रतापपुरा गांव की महिलाओं द्वारा शिकायती पत्र देकर प्रताप पुरा गांव की समस्याओं को लेकर अवगत कराया महिलाओं द्वारा बताया गया कि प्रतापपुर गांव के दबंग लोगों द्वारा पानी नहीं निकलने दिया जा रहा है जिससे आने-जाने में अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो रही है। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी को तत्काल मौके पर जाकर पानी निकासी हेतु जांच कर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उक्त के पूर्व जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नुमाइश ग्राउंड में लगने वाली पटाखे की दुकानों की व्यवस्था हेतु जायजा लिया। उक्त अवसर पर उप जिलाधिकारी दीपशिखा, क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान, लेखपाल सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीराबाई की 525वीं जयंती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का 16 से

मथुरा। उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा द्वारा ब्रजरज उत्सव-2023 का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक रेलवे ग्राउण्ड, धौलीप्याऊ, जंक्शन रोड में किये जाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत मीराबाई राष्ट्रीय सिम्पोजियम (संगोष्ठी) और साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन वेटरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा परिसर स्थित पं0 दीन दयाल उपाध्याय सभागार में 16 व 17 नवम्बर को आयोजित किए जाएंगे। आयोजन स्थल की तैयारियों को परखने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ नगेन्द्र प्रताप भ्रमण किया। मौके पर कार्यदायी संस्था को तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए। मीराबाई राष्ट्रीय सिम्पोजियम का यह आयोजन संत मीरा बाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।

राजा इंद्रजीत सिंह (पंपा राजा) के निधन पर श्रद्धांजलि देने वालों का उमड़ा सैलाब

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। विगत दिन अवागढ़ हाउस डैंपियर नगर निवासी पूर्व सांसद राजा मानवेंद्र सिंह के लघुभ्राता राजा कुंवर नरेंद्र सिंह के बड़े भाई राजा इंद्रजीत सिंह के निधन को लेकर सोमवार को उनके निजी निवास पर श्रद्धांजलि को सैलाब उमड पड़ा। जनपद के हर वर्ग आमजन तथा अनेक पार्टियों के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद तथा अन्य पदाधिकारी का एक सैलाब श्रद्धांजलि को उनके शोक सभा को दिवंगत राजा इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई गमगीन माहौल में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतक की धर्मपत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री तथा दामाद के प्रति प्रेरणा स्रोत भावों को व्यक्त करते हुए ईश्वर से कामना की। उन्हें धैर्य व शांति प्रदान करें। साथ ही उन्होंने ईश्वर से यह भी प्रार्थना की लघुभ्राता को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दे। इसके उपरांत पूर्व विधायक कुशल पाल सिंह, प्रदीप माथुर, सरदार सिंह चौधरी आदि तमाम लोगों ने अश्वपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अन्य लोगों में शोकाकुल माहौल में मृतक पंपा राजा को नमन किया। स्वर्गीय राजा इंद्रजीत सिंह पंपा राजा एक सहनशील,शालीनता की प्रतिभा, मिलनसार, व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार मुलाकात होने पर कोई भी व्यक्ति उनको छोड़ना स्वीकार नहीं करता था, अवागढ़ हाउस से जिन भाइयों ने चुनाव लड़ा वे सुबह से ही आगुंतकों को मेल मुलाकात करना तथा सम्मान के साथ बैठाना उनका परम कर्तव्य था। यहां तक अपने कर्म,स्नान नाश्ता,भोजन को भी त्याग देते थे। उनकी धर्मपत्नी समय-समय पर उनको याद दिलाती थी कि स्नान, नाश्ता, भोजन कर लीजिए लेकिन मुस्कुरा कर वह टाल देते थे। कहने का भावार्थ है प्रत्येक चुनाव लोकसभा या विधानसभा अथवा ब्लॉक प्रमुख अपने आंकड़े लगाते रहते थे और छद्म बढ़कर चुनाव में रुचि रखते थे।

ओटीएस- पहले आओ तो ज्यादा लाभ पाओ

■ चोरी के जुर्माने में भी मिलेगी 25 फीसदी की छूट

■ इस बार योजना में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकान तथा निजी अस्पताल भी शामिल हैः श्री प्रकाश

अवधनामा संवाददाता

इटावा। बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूले जाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू की है इसमें बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छूट मिलेगी। खास बात यह है कि इस योजना में पहले रजिस्ट्रेशन करने वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा और बाद में रजिस्ट्रेशन करने पर काम लाभ मिलेगा। यह योजना तीन अवधि में चलाई जाएगी जो 8 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। प्रथम अवधि में रजिस्ट्रेशन कराने पर 90 प्रतिशत और तृतीय अवधि में रजिस्ट्रेशन कराने पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अधिशासी अभियंता श्री प्रकाश ने मंगलवार को कार्यालय पर पत्रकारों से बताचीत में बताया। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने पर मूलबिल का तीस प्रतिशत जमा करना पड़ेगा और फिर किस्तों में बिल जमा होगा। आगे उन्होंने बताया कि बिजली विभाग कार्यालय में किसी भी कैश काउंटर पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है इसमे 31 अक्टूबर तक की मूल बकाए का 30 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा करना पड़ेगा इसके बाद ही वह छूट के लिए पात्र होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जो उपभोक्ता बिजली चोरी में पकड़े जाते हैं और उन पर जुर्माना लगाया जाता है तो उसे जुर्माने की रकम में भी 25 प्रतिशत की छूट इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अधिशासी अभियंता श्री प्रकाश ने बताया कि अभी तक यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आती थी लेकिन इस बार जो योजना जारी की गई है उसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकान तथा निजी अस्पताल भी शामिल हैं और यह लोग भी अपना बकाया बिल जमा करने के लिए ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 5 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग एमआई के माध्यम से विभाग की ओर से की जाएगी इसके लिए मीटर रीडर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर बिलिंग की शिकायतें मिल रही थी इसलिए विभाग अब स्वयं यह कार्य करेगा जिससे कोई शिकायत ना मिले।

वायु प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर मंडल आयुक्त ने दिए अधीनस्थों को निर्देश

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। वातावरण में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी ने जारी किए निर्देश उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, आगरा / मथुरा / फिरोजाबाद तथा नगर आयुक्त,नगर निगम, आगरा / मथुरा / फिरोजाबाद, मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग, आगरा, समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, आगरा मंडल हेतु विस्तृत दिशा निर्देश किए जारी आगरा मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में वर्तमान में वातावरण में बढ़ रहे,वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन में संबंधित को विस्तृत दिशानिर्देश देते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को आदेशित किया, मंडलायुक्त द्वारा दिए निर्देशों में वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम से संबंधित बताया गया कि अधिकाश सड़कों पर मैनुअल स्वीपिंग के बजाय मैकेनिकल स्वीपिंग करायी जाय।सड़कों के दोनों ओर दिन में दो बार जनपद में उपलब्ध पानी के टैंकरों एवं स्मोग गन से जिला स्तर पर उपलब्ध सभी मशीनों से व्यापक रूप से पानी का छिड़काव कराया जाय।सभी बड़े निजी एवं सार्वजनिक निर्माणाधीन स्थलों पर पानी के टेंकरों और स्मोग गन का अनिवार्य रूप से उपयोग कराया जाय।वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब होने वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करने के लिये, अग्निशमन वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी निर्माणाधीन स्थलों को ढकने के लिए हरे जाल / पर्दे का उपयोग किया जाये। श्रेणी सी व डी के कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर उठवा लिया जाये और उसे रिसाइकिल प्लान्ट करने हेतु भेजा जाये। सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं से उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रवर्तन टीमों का गठन किया जाय और उल्लघन पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाय। मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जनपदों में शासन के उपरोक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या मंडलायुक्त कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए।

माध्यमिक शिक्षकों ने डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जनपद के माध्यमिक शिक्षकों ने एसएसपी निवास के समीप तीन प्रमुख मांगों के समर्थन में प्रदर्शन धरना देने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवास के समीप वटवृक्ष के नीचे प्रधानाचार्य डा.बी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने धरना दिया किया। कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन शिक्षक नेता अयोध्या प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर अरविन्द यादव को दिया। ज्ञापन में सेवा सुरक्षा यथावत रखने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने,व ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण कराने की मांग की। धरने को डा.राकेश माहेश्वरी, श्यामवीर सिंह, चौधरी के.पी.सिह.डा.प्रियंका बघेल ,पूनम बघेल ,प्रज्ञा मिश्रा,अमन दीप श्रीवास्तव,प्रेम सरोज मौर्य, अशोक वर्मा, जिला संयोजक सत्यवीर सिंह ने सम्बोधित किया। धरना-प्रदर्शन में श्रीमती सीमा सिंह, जगदेव, चन्द्र भान यादव, डा. बिजेन्द्र सिंह, चन्दन श्रीवास्तव, मनोज कुमार राम आदि शामिल थे।

दीपोत्सव पर्व की तैयारी में बाजारों में लौटी रौनक

■ घर व प्रतिष्ठानों को सजाने सवारने के सामान की बाजारों में भरमार

अवधनामा संवाददाता

इटावा। दीपावली रोशनी के त्यौहार में अब सिर्फ तीन दिन शेष रह गए है जैसे-जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है वैसे-वैसे बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है।टू व्हीलर के शो रूम भी सज संवर कर तैयार हो गए है नगर में प्रचार प्रसार करते दिख रहे है।

छोटा हो या बड़ा ग़रीब हो या अमीर सभी लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी में लगे है। नगर में दीपावली से पूर्व बाज़ार में दिन को अक्सर जाम की भी स्थिति बन जाती है जबकि पुलिस प्रशासन ने पहले से ही मैन बाज़ार में फोर व्हीलर पर नो एंट्री लगा रखी।

बरसात के बाद यह ऐसा त्योहार है जिसमे गरीब अमीर सभी मकानों से लेकर प्रतिष्ठानों तक को रोशन करने के लिए सजाने सवारने का काम किया जाता है। यही वजह है कि रंग रोगन एवं आकर्षक सीनरी फूल माला एवं अन्य सामिग्री की बिक्री के लिए बाजार तैयार है। इस दौरान होने वाली खरीदारी के लिए दुकानदारों ने सामान का स्टॉक कर लिया है। विशेषकर इलैक्ट्रॉनिक व वार्निश तथा रंग पेंट, गेरू सफेदी के साथ विभिन्न सजावट के समान से दूकाने पट गई है तो अलग-अलग डिजायनों की झालरों की भी भरमार हैं।

घरों व प्रतिष्ठानों की सजावट को लेकर नया लुक देने के प्रयास किये गए हैं। प्रकाश पर्व दीपावली को मनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर कोई इस पर्व को मनाने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। एक ओर जहां साफ सफाई से लेकर रंगाई पुताई की जा रही है। तो लोग अपने मकानों को नया लुक देकर सजावट करने की तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। इस बार प्रकाश का पर्व दीपावली पर नया लुक देखने को लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों पर देखने को मिलेगा।

नगर के पचराहे पर स्थित एस के

इलैक्ट्रॉनिक के दुकानदार सकलैन ख़लील का कहना है कि दीपावली पर इस बार 55 इंच स्श्वछ की मांग अधिक है जिसकी कीमत 39 हज़ार रुपये से शुरूआत है और अधिकतम 90 हज़ार रुपये तक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ स्श्वछ, फ्रिज, वाशिंग मशीन, ए सी के अलावा फर्नीचर का भी सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। रामगंज रोड स्थित चाँद फर्नीचर के दुकानदार शमशुल कमर का कहना है कि बाजारों में रौनक तो देखने को मिल रही है लेकिन ओन लाइन शॉपिंग से इलेक्ट्रॉनिक पर ख़ास कर असर पड़ा है उनका कहना है कि इस साल मार्केट हल्का है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सोफा सैट 15 हज़ार रुपये से 45 हज़ार रुपये तक, डबल बैड 13 हज़ार रुपये से 32 हज़ार रुपये तक, LàßD 14 से 35 हज़ार रुपये तक, वाशिंग मशीन 12 से 27 हज़ार रुपये तक उपलब्ध है।

वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम फायदा, दुनियाभर में 8वें नंबर पर काबिज

एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छठे नंबर पर पहुंच गई। भारत अब इंग्लैंड से ऊपर 2368 .83 रेटिंग अंक के साथ छठे स्थान पर है।

हांगझोउ एशियाई खेलों और एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छठे नंबर पर पहुंच गई। भारत अब इंग्लैंड से ऊपर 2368.83 रेटिंग अंक के साथ छठे स्थान पर है। भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों से पहले आठवें स्थान पर थी।

हांगझोउ में भारत ने कांस्य पदक जीता और रांची में एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में अपराजेय रहते हुए खिताब हासिल किया। भारतीय

टीम पिछले साल भी एफआईएच प्रो लीग के दौरान रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंची थी। नीदरलैंड रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज है जबकि आस्ट्रेलिया दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है।

बेल्जियम चौथे और जर्मनी पांचवें स्थान पर है। भारतीय टीम रांची में 13 से 19 जनवरी तक एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर खेलेगी। इसमें उसका सामना जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, चिली , अमेरिका, इटली और चेक गणराज्य से होगा।

आईपीएल 2024 नीलामी से पहले जोफ्रा आर्चर को लग सकता है झटका, मुंबई इंडियंस करेगी बाहर!

मुंबई इंडियंस टीम के बेहतरीन गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर सकती है। दरअसल, आर्चर को फ्रेंचाइजी ने 2022 में 8 करोड़ रुपये में खरीदा था। लेकिन वो उस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए और अगले सीजन में केवल 5 मैचों में हिस्सा लिया था। वो लगातार चोट से जूझ रहे हैं।

आईपीएल 2024 नीलामी में अब कुछ ही दिन शेष हैं। वहीं सभी टीमें जल्द ही अपनी रिटेंशन सूची जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस टीम के बेहतरीन गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर सकती है। दरअसल, आर्चर को फ्रेंचाइजी ने 2022 में 8 करोड़ रुपये में खरीदा था। लेकिन वो उस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए और अगले सीजन में केवल 5 मैचों में हिस्सा लिया था। वो लगातार चोट से जूझ रहे हैं।

कहा जा रहा है कि, मुंबई इंडियंस निश्चित रूप से अपनी पेस विभाग को मजबूत करने के लिए उनके रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही होगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को काफी चोटें आई हैं। इसलिए मुंबई इंडियंस कोई भी चुनौती नहीं लेना चाहेगी।

आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ की आश्चर्यजनक कीमत पर खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था। आर्चर ज्यादातर चोटिल रहते हैं जिसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने ये दांव खेला।

जोफ्रा आर्चर की चोटों का सिलसिला और भी बढ़ गया है। पिछले सीजन में वो सिर्फ 5 ही मैच खेल पाए थे। इस दौरान उन्होंने महज 2 ही विकेट झटके।

वर्ल्डकप 2023 में भी वो इंग्लैंड टीम में जगह बनाने में नाकामयाब रहे।

आने वाले समय में रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जमा होने के साथ, ये माना जा रहा है कि जोफ्रा आर्चर पर कोई भी टीम दांव लगाने से बचेगी। वहीं मुंबई उन्हें इस बार रिलीज कर सकती है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर पहली बार पंजाब का कजा, अर्शदीप सिंह ने पलटी बाजी

पंजाब ने बडौदा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है। मंदीप सिंह की अगुवाई में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रनों से मात दी। इससे पहले पंजाब चार बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन कभी टाइटल अपने नाम नहीं किया था। इस बार ये कसर भी पंजाब ने पूरी कर दी।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बडौदा को हराकर पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की है। मंदीप सिंह की अगुवाई में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रनों से मात दी। इससे पहले पंजाब चार बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन कभी टाइटल अपने नाम नहीं किया था। इस बार ये कसर भी पंजाब ने पूरी कर दी।

इस मैच में दोनों टीमों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया और कुल 426 रन बने। वहीं पंजाब की जीत के हीरो अनमोलप्रीत सिंह

और अर्शदीप सिंह रहे। अनमोलप्रीत ने पहली पारी में शतक जड़कर 113 रन बनाए। वहीं अर्शदीप ने अपने 4 ओवर में मात्र 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। अर्शदीप ने 19वें ओवर में मैच को पलट दिया। हालांकि, अनमोलप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अनमोलप्रीत सिंह के शतक की बदौलत 224 का लक्ष्य दिया। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने वाली बड़ौदा ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 191 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि बड़ौदा की टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। क्रुणाल पांड्या 45 तो विष्णु सोलंकी 7 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे थे। इस दौरान विष्णु ने 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बटोरे थे।

आखिर में पंजाब के लिए संकटमोचन बनकर अर्शदीप सिंह आए। जिन्होंने 19वें ओवर में तीन विकेट झटकर बाजी ही पलट दी। इस ओवर में उन्होंने 2 वाइड समेत कुल चार रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए। इसमें क्रुणाल पांड्या का विकेट भी शामिल था।

अफगानिस्तान टीम ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किया क्वॉलिफाई

अभी तक अफगानिस्तान टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां उसने अपने पिछले तीन मैचों में जीत हासिल की है। इसके साथ ही अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया है। अफगान टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा होगी।

वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान टीम मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेल रही है। वहीं अभी तक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां उसने अपने पिछले तीन मैचों में जीत हासिल की है। इसके साथ ही अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया है। अफगान टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा होगी।

बता दें कि, सोमवार को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच

दिल्ली में खेले गए मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की 3 विकेट से हार के बाद अफगानिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। अफगान टीम ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले हैं और 4 में जीत हासिल की है। अफगानिस्तान ने कई बड़ी टीमों को मात दिया, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स शामिल है।

बता दें कि, अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। उसे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे। फिलहाल उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका से भिड़ना है।

रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो मामला में मृणाल ठाकुर, नागा चैतन्य ने की कार्रवाई की मांग

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के, छेड़छाड़ कर बनाए गए वीडियो (डीपफेक वीडियो) के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर, नागा चैतन्य और चिन्मयी श्रीपदा सहित बॉलीवुड की कई हस्तियां उनके समर्थन में आगे आई हैं।

प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है और इसका विकास रोमांचक नवाचार और कुछ परेशान करने वाले विकास दोनों ला रहा है। वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), मेटावर्स, रोबोटिक्स और कई अन्य जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक गहरा परिवर्तन देखा जा रहा है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के, छेड़छाड़ कर बनाए गए वीडियो (डीपफेक वीडियो) के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मृणाल ठाकुर, नागा चैतन्य और चिन्मयी श्रीपदा सहित बॉलीवुड की कई हस्तियां उनके समर्थन में आगे आई हैं। तथ्य की जांच करने वाले एक व्यक्ति ने ब्रिटिश-भारतीय सोशल मीडिया हस्ती जारा पटेल के मूल वीडियो के साथ रश्मिका मंदाना का 'डीपफेक वीडियो' क्लिप पोस्ट किया और उन्होंने भारत में 'डीपफेक' से निपटने के लिए एक कानूनी और नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता रेखांकित की।

फिल्म 'गुडबाय' में मंदाना के सह कलाकार अमिताभ बच्चन ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बच्चन इस पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने इस मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए मंदाना की प्रशंसा की और उन लोगों से इस मुद्दे पर मूक दर्शक न बने रहने का आग्रह किया, जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है। ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धन्यवाद रश्मिका, अब तक हमने इसकी (डीपफेक) सिर्फ झलकियां देखी हैं, लेकिन हममें से बहुतों ने चुप रहना ही बेहतर समझा है। हम एक समुदाय, एक समाज के रूप में कहां जा रहे हैं? उन्होंने लिखा, हम लोग एक अभिनेत्री होने के नाते सुर्खियों में हो सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में हममें से हर कोई इंसान है। हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चुप मत रहिए, अब समय नहीं है।

मंदाना ने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की। मंदाना ने कहा कि वह वीडियो देखकर 'वास्तव में आहत' हुई, जिसमें एक लिफ्ट के अंदर कसरत करने के दौरान पहनी जाने वाली काले रंग की पोशाक (वनसी) में एक महिला को दिखाया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके इस महिला (जारा पटेल) के चेहरे में छेड़छाड़ कर इसे इस तरह बना दिया गया कि वह मंदाना की तरह दिखे। रश्मिका ने लिखा, आज एक महिला और एक अभिनेत्री होने के नाते मैं अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की शुक्रगुजार हूं, जो मेरे रक्षक और सपोर्ट सिस्टम हैं।

उन्होंने कहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ उस वक्त हुआ होता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो सच में मैं कल्पना नहीं कर सकती कि तब मैंने इसका कैसे सामना किया होता। इससे पहले कि हममें से और लोग इससे प्रभावित हों, हमें एक समुदाय के रूप में और तत्परता से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 'डीपफेक' एक डिजिटल विधि है जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता किसी व्यक्ति की छवि को किसी दूसरे व्यक्ति की छवि से आसानी से बदल सकता है। जारा पटेल ने भी मंदाना के डीपफेक वीडियो की निंदा की और कहा कि क्लिप से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

पटेल के शरीर पर ही मंदाना के चेहरे के साथ छेड़छाड़ कर डीपफेक वीडियो तैयार कया गया था। पटेल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, नमस्ते, मुझे पता चला कि किसी ने मेरे शरीर और लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री के चेहरे का उपयोग करके एक डीपफेक वीडियो बनाया है। डीपफेक वीडियो से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान और निराश हूं। उन्होंने लिखा मैं उन महिलाओं और लड़कियों के भविष्य को लेकर और भी चिंतित हूं जो खुद को सोशल मीडिया पर लाने से और भी डरेंगी।

पटेल ने कहा कि इंटरनेट पर जो भी आप देखते हैं, उसकी तथ्य-जांच करें। इंटरनेट पर सब कुछ वास्तविक नहीं है। जो कुछ हो रहा है मैं उससे बहुत परेशान हूं। अभिनेता नागा चैतन्य ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है कि तकनीक का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है और भविष्य में क्या ये और बढ़ सकता है, इसके बारे में सोचना और भी डरावना है। चैतन्य ने मंदाना की एक्स पोस्ट के जवाब में लिखा, कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों की सुरक्षा के लिए किसी तरह का कानून लागू किया जाना चाहिए, जो इसका शिकार हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डीपफेक को भारत में लड़कियों को निशाना बनाने और ब्लैकमेल करने का हथियार बताया।

उन्होंने लिखा, लोन एप्स महिला उधारकर्ताओं को अश्लील तस्वीरों के साथ उनके चेहरों की फोटोशॉप्ड तस्वीरें दिखाकर परेशान करते हैं और वे इससे निपट नहीं सकतीं। सामान्य अप्रशिक्षित लोगों के लिए डीपफेक को पहचानना कठिन हो जाएगा। हर किसी के पास उच्च-क्षमता वाला डिस्प्ले नहीं होता। चिन्मयी ने लिखा, मुझे सच में उम्मीद है कि यह एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, जो लड़कियों के लिए डीपफेक के खतरों के बारे में आम जनता को शिक्षित करने और मामलों को अपने हाथों में लेने के बजाय घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए तत्काल शुरू हो सकता है। मंदाना ने बाद में अमिताभ बच्चन को उनके समर्थन में खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया और कहा, मैं आप जैसे नेताओं के साथ देश में सुरक्षित महसूस करती हूं। उन्होंने चैतन्य और चिन्मयी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, धन्यवाद... इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए, उम्मीद है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और विनियमित दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे।

अनिल शर्मा की नई फिल्म का एलान, सनी देओल के बाद नाना पाटेकर संग मचाएंगे गदर

कुछ महीने पहले हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर अनिल शर्मा की मूवी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर मचाया। सुपरस्टार सनी देओल स्टारर गदर 2 ने कमाई के मामले में रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल की है। गदर 2 से कामयाबी का नया अध्याय लिखने वाले अनिल शर्मा की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। निर्देशक की अगली फिल्म का नाम जर्नी (है। खास बात ये है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर और गदर 2 स्टार उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

अनिल शर्मा ने सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 के जरिए हर किसी का भरपूर मनोरंजन किया। 22 साल बाद सनी और अनिल की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर एक नया इतिहास रचा है। जिसके चलते सिनेप्रेमी डायरेक्टर अनिल शर्मा की अपकमिंग मूवी के एलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

ऐसे में अब फैंस का सब्र खत्म करते हुए अनिल शर्मा ने मंगलवार को अपने

ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अगली फिल्म जर्नी की घोषणा की है। अनिल ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा है गदर 2 के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद के चलते नई जर्नी की शुरुआत।

इस ट्वीट में निर्देशक ने कलाकार नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा की तस्वीरों को शेयर किया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद अब फैंस अनिल शर्मा की जर्नी के एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

सनी देओल की गदर 2 से पहले डायरेक्टर अनिल शर्मा हिंदी सिनेमा में कई शानदार फिल्मों को बना चुके हैं। जिनमें तहलका, अपने, महाराजा, गदर-एक प्रेम कथा, जीनियस और सलमान खान की वीर जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि गदर 2 की तरह अनिल की जर्नी कैसा प्रदर्शन करती है।

दिल, दिमाग और दम की निकली हेकड़ी, बिग बॉस ने एक साथ किया 9 कंटेस्टेंटस को नॉमिनेट

बिग बॉस 17 इस हफ्ते हुए नॉमिनेशन ने कंटेस्टेंट्स का दिमाग हिला दिया। बिग बॉस ने एक साथ 9 लोगों को एलिमिनेट कर दिया। बिग बॉस ने ऐसा गेम खेला कि दिल, दिमाग और दम में से किसी की प्लानिंग नहीं चली।

बिग बॉस ने इस नॉमिनेशन टास्क में घरवालों को अपने ही ग्रुप में से दो लोगों को नॉमिनेट करने के लिए कहा। शो में आए इस ट्विस्ट ने कई कंटेस्टेंट्स के चेहरे से मुखौटा उतार दिया।

अंकिता लोखंडे को मिला धोखा

बिग बॉस ने एक-एक कर दिल, दिमाग और दम घर के लोगों को एक्टिविटी एरिया में बुलाया। सबसे ज्यादा हैरान दिल घर ने किया, क्योंकि अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय ने मिलकर अंकिता लोखंडे को नॉमिनेट कर दिया, एक्ट्रेस से अच्छी दोस्ती होने के बावजूद। दिल घर से अंकिता

के अलावा नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा भी नॉमिनेट हुए।

यूट्यूबर्स का निकला दम

दम घर की बात करें तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन इस घर से हुए। दम घर समर्थ जुरेल, सनी आर्या, अरुण माशेट्टी और अनुराग डोभाल को नॉमिनेट किया गया।

दिमाग घर का नहीं चला दिमाग

दिमाग घर को बिग बॉस ने खुद को बचाने का एक मौका दिया। बिग बॉस ने कहा कि वो इस बार नॉमिनेट हुए 7 कंटेस्टेंट्स के नामों का सही अंदाजा लगाए, अगर वो ऐसा कर पाए तो, दिमाग घर से कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा। हालांकि, बहुत तिकड़म लगाने के बाद भी दिमाग घर अंकिता लोखंडे का नाम बताने से चूक गए। इसके बाद दिमाग घर को नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ा। इसके साथ ही मनारा चोपड़ा और नावेद सुले को नॉमिनेट कर दिया गया।

कौन-कौन हुआ नॉमिनेट

बिग बॉस 17 में इस हफ्ते दिल, दिमाग और दम घर को मिलाकर 9 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया है। इनमें अंकिता, ऐश्वर्या, नील, अनुराग, अरुण, सनी, समर्थ, नावेद और मनारा का नाम नॉमिनेट किया गया है, जो आने वाले वीकेंड का वार में एलिमिनेशन का मार झेलेंगे।

गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से एमसीए का बड़ा फैसला

पूरे देश के लिए शुरू करेंगे फैक्ट चेकिंग नेटवर्क

नई दिल्ली। मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस ने 7 नवंबर को भारत में फैक्ट-चेक संगठनों के लिए मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के प्रयास में एक स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के ढांचे की घोषणा की। एक प्रेस रिलीज में, एमसीए ने कहा कि यह फैक्ट-चेक संगठनों को गलत सूचना और दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ाई में विश्वसनीय भागीदार बनने में सक्षम बनाएगा। एमसीए ने एक ईमेल भी लॉन्च किया है, जो एक हॉटलाइन के तौर पर काम करेगा। यहां संभावित या संदिग्ध गलत सूचना वाले पोस्ट या संदेश सदस्य तथ्य-जांच न्यूजरूम की ओर से तथ्य जांच और वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा सकते हैं। मालूम हो कि एमसीए एक क्रॉस-इंडस्ट्री सहयोगात्मक प्रयास है, जिसे लक्षित हस्तक्षेपों और गतिविधियों के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार से निपटने और सीमित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ऑनलाइन गलत सूचना और दुष्प्रचार

जूझ

दुनिया भर के देश इस चुनौती से निपटने की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

का प्रसार आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक बन गया है। इसमें कहा गया, दुनिया भर के देश इस चुनौती से निपटने की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया, हाल के वर्षों में, फैक्ट-चेक संगठन चुनौती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नागरिकों को झूठी और भ्रामक जानकारी के खतरों को समझने में मदद कर रहे हैं और वे उनका शिकार बनने से बचने के लिए कैसे बच सकते हैं, इसके लिए सतर्क कर रहे हैं। भारत भी इस घटना से अछूता नहीं है और वास्तव में अब यह दुनिया के सबसे

बड़े फैक्ट-चेक समुदाय का गढ़ बन गया है। प्रेस रिलीज में बताया गया, ÷यह एक विविध समुदाय है, जिसने भारत के अलग-अलग लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की अपनी क्षमता को निखारा है, चाहे नौकरी के लिए कोई भी भाषा और कोई भी प्रारूप आवश्यक हो। इसलिए यह नागरिक समाज, तकनीकी मंच और सरकार गलत सूचना और दुष्प्रचार की समस्या से निपटने के अपने प्रयासों में एक आदर्श भागीदार है। प्रेस रिलीज में एमसीए ने कहा गया, भारतीय फैक्ट-चेक समुदाय के लिए इस बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, हम भारत के डिजिटल नागरिकों का विश्वास जीतने की आवश्यकता को भी समझते हैं। उन्हें संतुष्ट रहना होगा कि हमारा काम निष्पक्ष, कठोर और निष्पक्ष है और हम अपने बारे में पारदर्शी हैं और हम कैसे काम करते हैं, ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया को समझने की कोशिश करते समय हमारे आकलन और फैक्ट चेक पर भरोसा करते हुए सुरक्षित महसूस कर सकें। एफसीएन के पास सिद्धांतों की एक मजबूत संहिता है, जो भारतीय तथ्य जांचकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका काम एक निर्विवाद मानक का है। संहिता में गैर-पक्षपातपूर्णता और निष्पक्षता (किसी भी पक्ष को अनुचित रूप से लक्षित न करने सहित), कार्यप्रणाली की पारदर्शिता (यह समझाने सहित कि तथ्यों की जांच कैसे की जाती है और किस साक्ष्य का उपयोग किया जाता है) और फंडिंग की पारदर्शिता (यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठकों को किसी भी प्रासंगिक पूर्वाग्रह के बारे में पता हो) की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। हालांकि, इस तरह की प्रतिबद्धताएं अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं में भी पाई जा सकती हैं, स्नष्टह्र सिद्धांत संहिता इससे भी आगे है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरूप प्रावधान हैं कि भारत के डिजिटल नागरिकों के हित मजबूती से सामने और केंद्र में हैं। कोड पर हस्ताक्षर करने वाले फैक्ट-चेक संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा कि उनके चेक आसानी से पहुंच योग्य है और उनके चेक का उपयोग रचनात्मक कॉमन्स लाइसेंस के तहत जागरूकता अभियान जैसे गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

उन्हें गोपनीयता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करनी होगी, जिसमें बच्चों और जघन्य अपराधों के पीड़ितों की पहचान की रक्षा के लिए भारतीय कानून के तहत विचार, साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी शामिल है।

पुतिन की हत्या...आतंकी हमलों में बढ़ोतरी और वैश्विक मंदी, साल 2024 के लिए बाबा वेंगा की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

नई दिल्ली। बाबा वेंगा ने विश्व की प्रमुख घटनाओं को लेकर कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं। उन सभी भविष्यवाणियों में बाबा वेंगा की कही हुई बात सच साबित हुई है। बाबा वेंगा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने विश्व की प्रमुख घटनाओं जैसे 9/11 आतंकवादी हमले, राजकुमारी डायना की मृत्यु, चेरनोबिल आपदा और ब्रेक्सिट की भविष्यवाणी की थी।

वेंगा के अनुयायियों का मानना ??है कि दृष्टि बाधित रहस्यवादी बाबा वेंगा ने उनकी मृत्यु की सटीक तारीख की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा जिनका मूल नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्तारोवा था। दृष्टि बाधित रहस्यवादी बाबा वेंगा ने वर्ष 2024 के लिए कुछ चौंका देने वाली भविष्यवाणी की है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हत्या का प्रयास÷ बाबा वेंगा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर साथी देशवासियों द्वारा हत्या के प्रयास की भविष्यवाणी की है।उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि साल 2024 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आतंकी हमलों में होगी बढ़ोतरी÷ बाबा ने यह भी दावा किया कि अगले साल 2024 में एक बड़ा देश जैविक हथियारों का परीक्षण करेगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि यूरोप में आतंकवादी हमला हो सकते हैं। बड़ा आर्थिक संकट÷ बाबा ने कहा कि अगले साल बड़ा आर्थिक संकट आएगा, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वे कुछ बदलाव देखेंगे जैसे कि ऋण का बढ़ता स्तर, अधिक भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम से पूर्व की ओर आर्थिक शक्ति का स्थानांतरण। साइबर हमले÷ परिष्कृत हैकरों द्वारा पावर ग्रिड और जल उपचार संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले साइबर हमलों में अनुमानित वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। मेडिकल ब्रेकथ्रू÷ बाबा ने मेडिकल क्षेत्र में सकारात्मक जानकारी दी और कहा कि अल्जाइमर समेत अन्य बीमारियों का नया शोध और इलाज संभव हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2024 में कैंसर का भी इलाज संभव है। चरम मौसम संबंधी घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि अगले साल तक पृथ्वी पर प्राकृतिक अपदाएं और खराब मौसम कहर मचाएंगी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की कमी पर व्यक्त की चिंता

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को रा'य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफों की कमी पर चिंता व्यक्त की। हाई कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान पीठ ने रा'य में डॉक्टरों, तकनीशियनों और विभिन्न अन्य कर्मियों सहित 16,500 चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का जिक्र किया। बता दें कि पीठ ने इस संबंध में 16 अक्टूबर को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का उल्लेख किया।

इसके बाद, खुद कोर्ट ने रजिस्ट्रार को समाचार रिपोर्ट के आधार पर एक जनहित याचिका दायर करने और इसे अदालत के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रा'य के 454 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। साथ ही रिपोर्ट में 72× एमबीबीएस डॉक्टरों, 7,492 नर्सों, 1,517 लैब तकनीशियनों, 1,517 फार्मासिस्टों, 1,752 परिचारकों और ×,25× ग्रुप डी कर्मचारियों की कमी का जिक्र किया गया था।

नहीं रहे कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डी. बी. चंद्रेगौड़ा

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दारादहल्ली बायरेगौड़ा चंद्रेगौड़ा का आज सुबह चिकमगलूर जिले के मुदिगेरे तालुक के दारादहल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया।

तालुक

डी. बी. चंद्रेगौड़ा का जन्म 26 अगस्त 1936 को कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के मुदिगेरे तालुक के दारादाहल्ली में डीए बायरे गौड़ा और पुट्टम्मा के घर हुआ था।

यह खबर कर्नाटक डीआईपीआर ने दी। डी. बी. चंद्रेगौड़ा का जन्म 26 अगस्त 1936 को कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के मुदिगेरे तालुक के दारादाहल्ली में डीए बायरे गौड़ा और पुट्टम्मा के घर हुआ था। 87 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह वही नेता हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अपनी लोकसभा सीट खाली कर दी थी जिससे उन्हें 1978 में

आपातकाल के बाद राजनीतिक वापसी करने की अनुमति मिली थी।

87 वर्षीय चंद्रेगौड़ा के परिवार में उनकी पत्नी और चार बेटियां हैं। गौड़ा के परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनके पार्थिव शरीर को आज शाम तक उनके अनुयायियों और शुभचिंतकों के श्रद्धांजलि देने के लिए मुदिगेरे के आद्यंतया रंगमंदिर में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक स्थान दारादहल्ली में किए जाने की संभावना है। चंद्रेगौड़ा जिन्होंने सभी चार सदनों - विधान सभा, परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया था साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे - प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कर्नाटक क्रांति रंगा, जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस और भाजपा का भी हिस्सा रहे थे।

स्कूलों में फ्री सैनेटरी नैपकिन बांटने की नीति तैयार, कोर्ट ने कहा- राष्ट्रीय मॉडल सुनिश्चित करें सरकार

नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन बांटने और उसके निस्तारण के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। यह जानकारी सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सरकार ने कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि तैयार मसौदे पर सभी हित धारकों और आम जनता की राय आनी है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में शौचालय का राष्ट्रीय मॉडल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। कोर्ट ने सैनेटरी नैपकिन वितरण योजना पर केंद्र सरकार से कहा कि वह नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों की इस बारे में लागू योजनाओं को भी देखे और उसके बाद एक समग्र नीति बनाए।

ये निर्देश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को दिए। जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मासिक धर्म स्वच्छता का मुद्दा उठाते हुए स्कूलों में छह से 12 कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन बांटने और लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण की मांग की है।

बेंगलुरु में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश के आसार

बेंगलुरु (कर्नाटक)। बेंगलुरु के सिलिकॉन वैली में सोमवार को भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम हो गया। भारी बारिश से सोमवार को बनासवाड़ी, बयापनहल्ली, गुंजूर, वाड्डुरपाल्या जंक्शन और शंकर नगर क्षेत्र सहित कई इलाके जलमग्न हो गए।

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से बाढ़ वाले इलाकों में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया है। वहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आधी रात को हडसन सर्कल में बीबीएमपी मुख्यालय के वॉर रूम का औचक दौरा किया और बेंगलुरु में भारी बारिश के मद्देनजर शहर की स्थिति, आपदा और राहत कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने एक्स पोस्ट पर कहा, बेंगलुरू के विभिन्न हिस्सों में कई घंटों तक लगातार बारिश के मद्देनजर मैंने आज देर रात बीबीएमपी के वॉर रूम का दौरा किया और बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण होने वाली समस्याओं की जांच की। मुझे वॉर रूम में भी फोन आया और मैंने उनसे बात की। बता दें कि 3 नवंबर 2015 के बाद बेंगलुरु में इस साल नवंबर महीने में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों के लिए दक्षिणी कर्नाटक के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने अपनी मौसम रिपोर्ट में कहा कि राज्य में 9 नवंबर तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

युद्ध रोकने के लिए तैयार हुआ इजरायल

गाजा। इजरायल-हमास युद्ध को आज एक महीना पूरा हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस-नहस कर दिया है। इसी बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी से सहायता सामग्री के प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय के विराम पर विचार करेगा। हालांकि, इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया है। एन्क्लेव के उत्तर में घनी आबादी वाले गाजा शहर को घेरने के बाद, इजरायल की सेना ने कहा कि उसने एक आतंकवादी परिसर पर कब्जा कर लिया है और भूमिगत सुरंगों के एक वॉरेन में छिपे आतंकियों पर हमला करने के लिए तैयार है। दरअसल, एक महीने पहले दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद से इजरायल ने इलाके पर बमबारी की है। उस दौरान हमास के लड़ाकों ने 1,400 लोगों को मार डाला था और 240 लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में लगभग 4,100 बच्चों सहित 10,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल और हमास दोनों ने लड़ाई रोकने की बढ़ती मांग को खारिज कर दिया है। इजरायल का कहना है कि पहले बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। हमास का कहना है कि जब गाजा पर हमला हो रहा है तो, वह बंधकों को मुक्त नहीं करेगा और न ही लड़ाई बंद करेगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा, थोड़े-थोड़े समय के लिए हमने पहले भी हमले पर विराम लगाया है। मेरा मानना है कि हम परिस्थितियों की जांच करेंगे और मानवीय सहायता, हमारे बंधकों के लिए आवागमन की सुविधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सामान्य युद्ध विराम होने जा रहा है।

बमबारी

दरअसल, एक महीने पहले दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद से इजरायल ने इलाके पर बमबारी की है।

न्यूयॉर्क धोखाधड़ी केस में जज ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाई फटकार

न्यूयार्क। धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान जज ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए कहा कि यह राजनीतिक रैली नहीं है, कोर्ट रूम है। जज ने उन्हें अपने जवाब संक्षिप्त रखने को कहा। अदालत ने कहा कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है।

जज आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल के जवाब गैर-उत्तरदायी होने के साथ ही दोहराव वाले हैं। ट्रंप बार बार जज एंगोरोन और न्यूयार्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि जज एंगोरोन उनके खिलाफ फैसला सुनाएंगे। सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही।

अमेरिका में भारतीय शख्स को उम्रकैद की सजा

फ्लोरिडा। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में एक भारतीय व्यक्ति को 2020 में अपनी 26 वर्षीय पत?नी को 17 बार चाकू मारकर और फिर उसके शरीर पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी निर्मम हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई। %सन सेंटिनल% अखबार के मुताबिक, फिलिप मैथ्यू ने अपनी पत्नी मेरिन जॉय की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोई मुकदमा नहीं लड़ने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मैथ्यू को मौत की सजा इसलिए नहीं दी, क्योंकि उसने केस नहीं लड़ने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि जॉय अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं था। वह पत्नी से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता था। इसलिए उसने प्लानिंग के तहत अपनी पत्नी की ब्रोवार्ड हेल्थ कोरल स्प्रिंग्स की पार्किंग में कर दी। मेरिन जॉय ब्रोवार्ड हेल्थ कोरल स्प्रिंग्स अस्पताल में एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी।

पुलिस के अनुसार, मैथ्यू ने ब्रोवार्ड हेल्थ कोरल स्प्रिंग्स अस्पताल के पार्किंग स्थल पर अपने वाहन से मेरिन की कार को रोक दिया। इसके बाद उसने उस पर चाकू से बार-बार वार किया और फिर उसपर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया। घटना के बाद मेरिन जॉय के सहकर्मियों में से एक ने कहा कि मैथ्यू ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जैसे वह एक स्पीड बम्प हो, और जैसे ही वे उसकी मदद के लिए दौड़े, मेरिन ने रोते हुए कहा कि मुझे एक बच्चा हुआ है। मेरिन ने दम तोड़ने से पहले अपने हमलावर की पहचान का खुलासा किया, जिसके कारण अंततः मैथ्यू की गिरफ्तारी हुई। मामले में मैथ्यू को कोई रिहाई नहीं मिलने की संभावना पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही घातक हथियार से गंभीर हमले के लिए अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई गई थी। स्टेट अटॉर्नी कार्यालय की प्रवक्ता पाउला मैकमोहन ने कहा, आजीवन कारावास की निश्चितता के कारण और प्रतिवादी अपील करने का अपना अधिकार छोड़ रहा था, इसलिए मृत्युदंड को माफ करने का निर्णय लिया गया।

मेरिन के चचेरे भाई जॉबी फिलिप ने सेंटिनल को बताया, ÷जॉय की मां को यह जानकर खुशी हुई कि उनकी बेटी का हत्यारा शेष वर्षों तक जेल में रहेगा और उन्हें यह जानकर राहत मिली कि कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई है।

इजरायल-हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व की यात्रा पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख

जिनेवा। इजरायल-हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने गाजा में मानवाधिकार उल्लंघनों पर सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के साथ बातचीत करने के लिए मंगलवार को मध्य पूर्व की पांच दिवसीय यात्रा शुरू की। तुर्क ने एक बयान में कहा, यह नरसंहार, निरंतर पीड़ा, रक्तपात, विनाश, आक्रोश और निराशा का पूरा एक महीना रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन इस वृद्धि की जड़ में है और दर्द के इस भंवर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मानवाधिकार केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनके कार्यालय ने कहा कि तुर्क मंगलवार को काहिरा में हैं और गुरुवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान की यात्रा से पहले बुधवार को गाजा की सीमा पर स्थित राफा का दौरा करेंगे।

नेपाल में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 153 की मौत और 266 घायल

काठमांडू। नेपाल में सोमवार को एक बार फिर आए भूकंप में लगभग 16 और लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि देश के पश्चिमी भाग जाजरकोट में सोमवार को चार से ज्यादा तीव्रता वाले तीन झटके महसूस किए गए थे। जिसके बाद अब कुल घायलों की संख्या 266 पहुंच गई है। वहीं, मरने वालों की संख्या 153 है। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सोमवार दोपहर पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट में चार से अधिक तीव्रता वाले तीन झटके लगे। जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रुकुम पश्चिम में दस लोग घायल और जाजरकोट में छह लोग घायल हुए हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने जजरकोट में आए भीषण भूकंप के बाद घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह जानकारी प्रधानमंत्री प्रचंड के प्रेस समन्वयक सौर्य किरण शर्मा की ओर से जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य भूकंप के बाद किए जाने वाले राहत एवं पुनर्वास कार्यों को लेकर चर्चा है।

तीव्रता

नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सोमवार दोपहर पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट में चार से अधिक तीव्रता वाले तीन झटके लगे।

युद्ध के बीच लोगों के लिए फिर खोला गया राफा क्रॉसिंग

गाजा। इजरायल-हमास युद्ध के बीच सीमित संख्या में लोगों को मिस्त्र में प्रवेश करने देने के लिए राफा क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सोमवार को राफा सीमा को फिर से खोल दिया गया है। इस दौरान पूर्व-अनुमोदित सूची में शामिल मिस्त्रवासियों और विदेशियों को मिस्त्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। राफा सीमा मिस्त्र के लिए गाजा का एकमात्र प्रवेश द्वार है। इस पर इजरायल का कोई नियंत्रण नहीं है। इसे विदेशी नागरिकों और उनके आश्रितों के साथ-साथ घायल गाजावासियों के लिए बुधवार को खोल दिया गया था। बाद में इसे दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मिस्त्र के अधिकारियों ने कहा कि पिछले सप्ताह गाजा में एक एंबुलेंस पर इजरायली हमले के बाद शनिवार को मानवीय गतिविधियां बंद हो गईं। इस सीमा से प्रवेश करने वाले राहत सामग्री लेकर जाने वाले ट्रकों की आवाजाही भी कम हो गई है। सूत्रों ने कहा कि मिस्त्र निकासी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंबुलेंस की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा था। रविवार-सोमवार की रात गाजा के दो अस्पतालों पर इजरायली हमलों में आठ लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पहला हमला आंखों के अस्पताल पर हुआ। इस अस्पताल में चार लोग मारे गए, जबकि दूसरा हमला बच्चों के रैनतिसी अस्पताल पर हुआ, वहां भी चार लोग मारे गए हैं।

अचानक आई बाढ़ में डूबा केन्या और सोमालिया

नायरोबी। केन्या और सोमालिया में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से अब तक लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। सोमालिया में, सरकार ने खतरनाक मौसम के कारण 25 लोगों की मौत और घरों, सड़कों और पुलों के नष्ट हो जाने के बाद सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आपातकालीन और बचाव कर्मी दक्षिणी सोमालिया के जुबालैंड राज्य के लूउक जिले में बाढ़ के पानी में फंसे अनुमानित 2,400 निवासियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने जुबा और शबेले नदियों के किनारे बाढ़ के उच्च खतरे की चेतावनी दी और जुबा में रहने वाले लोगों को निकालने का आह्वान किया है। एजेंसी के प्रबंध निदेशक हसन इस्से ने समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस को बताया, ÷सोमालिया आपदा प्रबंधन एजेंसी तेजी से मुश्किलों का जवाब दे रही है, डोलो के लिए एक उड़ान भेजने और निकासी में सहायता के लिए दो नावों को किसमायो से ल्यूक और एक को बार्डेरे तक ले जाने की योजना है। इस्से ने कहा, इथियोपिया के हाइलैंड्स में ऊपर की ओर से अधिक पानी आने के कारण अगले कुछ दिनों में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और भयावह होने की संभावना जताई है। लगातार चार वर्षों तक सूखे का सामना करने वाले सोमालिया को भारी बारिश ने अब अकाल के कगार पर धकेल दिया। पड़ोसी केन्या में, केन्या रेड क्रॉस ने कहा कि शुक्रवार से शुरू हुई भारी बारिश के बाद से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, बंदरगाह शहर मोम्बासा और पूर्वोत्तर काउंटी मंडेरा और वजीर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि रविवार तक अचानक आई बाढ़ ने 241 एकड़ कृषि भूमि को नष्ट कर दिया था और 1,067 पशुधन की मौत हो गई थी। केन्या में मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं ने सितंबर में चेतावनी देना शुरू कर दिया था कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच छोटी बारिश के मौसम के

दौरान बारिश सामान्य से अधिक होगी।हालांकि, राष्ट्रपति विलियम रूटो ने पूर्वानुमान का खंडन करते हुए केन्या वासियों को बताया कि विशेषज्ञों ने कहा है कि कोई विनाशकारी अल नीनो बाढ़ नहीं होगी। इथियोपिया के सोमाली क्षेत्र में भी भारी बारिश और बाढ़ की सूचना मिली है, जहां बाढ़ के पानी से घर और खेत नष्ट हो जाने के बाद हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

व्यक्तित्व विकास का माध्यम है प्रतियोगिता: कुलपति

- विद्यार्थी मेधा के माध्यम से तय करें आगे का सफर: कुलसचिव
- दीक्षोत्सव समारोह का हुआ समापन, प्रतिभागी सम्मानित

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में चल रहे दीक्षोत्सव समारोह का समापन मंगलवार को हुआ। प्रो राजेंद्र सिंह रज्जू भईया संस्थान के आर्यभट्ट सभागार में कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का माध्यम बनती है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई भी दी। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने प्रतियोगिता पर विवेकानंद के दर्शन को समझाया। कहा कि विद्यार्थी मेधा के माध्यम से आगे का सफर तय करें।

वित्त अधिकारी उमाशंकर ने कहा कि विद्यार्थी अपने अभिवावकों के सपने को साकार कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें।

प्रो. बी. बी. तिवारी एवं प्रो. मानस पाण्डेय ने भी अपने विचार व्यक्त किये. इस अवसर रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. मिथिलेश यादव को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान दिया गया.

कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से दीक्षांत समारोह के आयोजन के पूर्व परम्परागत खेल, काव्य लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, देशभक्ति, गीत, लोक नृत्य, भाषण प्रतियोगिता, शैक्षिक विषयों पर व्याख्यान का आयोजन किया गया था। दीक्षोत्सव समारोह ओजस्वी वक्ताओं के व्याख्यान से भी विद्यार्थी लाभनन्वित हुये।

दीक्षोत्सव कार्यक्रम हेतु प्रो. प्रदीप कुमार को संयोजक, डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव एवं डॉ. अन्नू त्यागी को सदस्य नामित किया गया था । संचालन डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव ने किया. इस अवसर पर कुलसचिव महेंद्र कुमार, वित्त अधिकारी उमाशंकर, प्रो. वंदना राय, डॉ. प्रमोद यादव, प्रो. मिथिलेश सिंह, डॉ. मनोज मिश्र, डॉ गिरिधर मिश्र, डॉ दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ रसिकेश, डॉ सुनील कुमार. डॉ श्याम कन्हैया सिंह, डॉ. मनोज पांडेय, डॉ नितेश जायसवाल, समेत शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित रहे।

रिहंद परियोजना में मना एनटीपीसी स्थापना दिवस

सोनभद्र/बीजपुर। एनटीपीसी का 49 वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को रिहंद परियोजना में मनाया गया। परियोजना के प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परियोजना प्रमुख (रिहंद) पंकज मेदीरत्ता ने इस अवसर परंपरागत रूप से एनटीपीसी ध्वज फहरा कर समारोह का शुभारंभ किया। तत्पश्चात परिसर में उपस्थित लोगों द्वारा एनटीपीसी गीत गाया गया। कार्यक्रम की कड़ी में मुख्य अतिथि एवं सहअतिथियों ने केक काटकर एनटीपीसी का 49 स्थापना दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। अपने संबोधन में मेदीरत्ता ने इस अवसर पर समारोह में उपस्थित सभी कर्मचारियों, सहयोगी संस्थाओं तथा एनटीपीसी परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकमनाएँ दी। उन्होने कहा कि एनटीपीसी सन 1975 से देशवासियों के ज़िंदगी में उजाला भरने का काम करती आ रही है।

अजय अध्यक्ष व प्रदीप बने मंत्री

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व व मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. पटेल विधायक मडियाहू जौनपुर की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रेश यादव कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार सिंह व अध्यक्ष करंजाकला इकाई कृष्ण पांडे चुनाव अधिकारी की मौजूदगी व देख रेख में मड़ियाहूं इकाई का चुनाव जूनियर हाई स्कूल शीतल गंज में मंगलवार को संपन्न हुआ। जिसमें अजय कुमार मिश्र को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया व प्रदीप कुमार सिंह मंत्री निर्वाचित हुए। इसी क्रम में राधे मोहन तिवारी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव, आनंद कुमार पाठक, प्रद्युम्न त्रिपाठी, विनोद कुमार यादव को उपाध्यक्ष अमिता उपाध्याय को महिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष विपिन मिश्रा को संयुक्त मंत्री जय सिंह यादव, गौरव दूबे को संगठन मंत्री अर्चना देवी को महिला प्रचार मंत्री संजय पटेल को मीडिया प्रभारी सीमा मौर्य को लेखाकार अखिलेश सिंह को प्रचार मंत्री राहुल श्रीवास्तव को ऑडिटर इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रेश यादव जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण तिवारी कोषाध्यक्ष डॉ आशीष सिंह उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, प्रवेश चंद्रपाल, राय साहब सिंह प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा महिला उपाध्यक्ष निशा मिश्रा संगठन मंत्री रजनीश सिंह, यशवंत सिंह, प्रभाकर उपाध्याय, ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, पंकज सिंह, चंचल पाठक, प्रमोद शुक्ला अध्यक्ष शाहगंज श्री कृष्ण पांडे अध्यक्ष करंजाकला प्रदीप कुमार सिंह अध्यक्ष केराकत सरोज सिंह अध्यक्ष सुईथाकला संतलाल गौतम अध्यक्ष बरसठी विनोद सिंह अध्यक्ष रामनगर विजय बहादुर यादव लेखाकार आनंद सिंह अध्यक्ष मछली शहर शैलेंद्र सिंह, संजय सिंह, रमेश सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।

गांव के विकास के लिए साढ़े पांच करोड़ का रखा खाका

अवधनामा संवाददाता

- क्षेत्र पंचायत की बैठक में हुआ प्रस्ताव

जौनपुर (खुटहन) ब्लाक मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में गांवों के विकास के लिए साढ़े पांच करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। बतौर अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख बृजेश यादव ने क्षेत्र में कराए गये विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी मनरेगा से जोड़े जाने की वकालत किया।

मुख्य अतिथि विधायक रमेश सिंह ने कहा कि सरकार गांवों के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इसके लिए क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि के अलावा ब्लाक व ग्राम प्रधान के माध्यम के माध्यम से निरंतर गांवों के विकास की योजनाएं संचालित है। उन्होंने आगामी वर्ष की 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाले शाहगंज महोत्सव में पांच सौ से अधिक गरीब परिवारों के घर की बेटियों के हाथ पीले कराने का संकल्प खुद के साथ साथ आगतो को भी दिलाया। विशिष्ट अतिथि ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव मम्मन ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रधानों की तरह निधि जारी किए जाने की मांग किया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने अन्नदाताओं की समस्या और उसके निराकरण पर सरकार के प्रयासों के बिषय में बताया। मिशन प्रबंधक ऋषी मिश्रा ने क्षेत्र में गठित छह सौ से अधिक स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। बीडीओ गौरवेंद्र सिंह ने वित्तीय वर्ष में कराए गए विकास कार्यों की आख्या प्रस्तुत किया। इस मौके पर प्रधान संतलाल सोनी ,गौरव सिंह,रीगन सिंह, डाक्टर रोहित लाल, डाक्टर चंद्रभान, संजीव गुप्ता,दीपक, रामदुलार यादव प्रधान,शतिनारायण बिंद, श्याम बहादुर यादव, रामकुमार उपाध्याय, राना यादव, बिंदू वर्मा, श्वदेश यादव आदि मौजूद रहीं।

मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह में सैकड़ों जोड़ों का हुआ विवाह

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। सल्तनत बहादुर इंटर कालेज, बदलापुर में आयोजित तीन दिवसीय बदलापुर महोत्सव का शुभारम्भ किया गया। महोत्सव के पहले दिन मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सैकड़ो जोड़ों का विवाह कराया गया और प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाकर आमजन को विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीशचन्द शर्मा ने कहा कि मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कन्यादान महादान है विधायक बदलापुर ने आयोजन कर सराहनीय कार्य किया है। अयोध्या के महंथ राजकुमार दास, अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक बापू चिन्मयानंद, हनुमान गढ़ी अयोध्या के महंथ राजूदास, अभय चौतन्य फलाहारी मौनी महाराज अमेठी आदि ने नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, पुलिस अधीक्षक डा0 अजय पाल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, उपजिलाधिकारी बदलापुर अर्चना ओझा ने नव विवाहित जोड़ो को आर्शीवाद दिया। इस अवसर पर बिहार के पूर्व डीजीपी आचार्य गुप्तेश्वर महराज, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, ज्ञान प्रकाश सिंह, विधायक शाहगंज रमेश सिंह, विधायक लम्भुआ सीताराम वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सिंह, योगेश पाण्डेय, अमित मिश्रा उपस्थित रहे। संचालक जिला महामंत्री भाजपा सुनील तिवारी ने किया।

मोदी सरकार के इजरायल के पक्ष है विरोध में सपा ने सौंपा ज्ञापन

आजमगढ़। पुरानी नीति के उलट मोदी सरकार इजरायल के पक्ष में खड़ी है इसके खिलाफ आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर विपक्षी दलों एवं संगठनों के नेताओं ने प्रतिवाद कर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा को सौंपा । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद से ही भारत सरकार फिलीस्तीन के मुक्ति के पक्ष में रहा है लेकिन इधर मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में इजरायल के पक्ष में खड़ी है हम विपक्षी दल मोदी सरकार के इस समर्थन का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि मोदी सरकार अपने पुराने नीति का अमल करें और कुटनीतिक दबाव बना कर फिलीस्तीन इजरायल युद्ध को रोकाने का अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया जाए जिससे फिलीस्तीनी नागरिकों के नरसंहार को रोका जा सके इजरायल को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए, फिलीस्तीनियों को1967के समझौते के अनुसार स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाए। भारत सरकार अमेरिकी युद्ध रणनीति का हिस्सा न बने।फिलीस्तीन मानवीय सुविधाएं दवा, पानी भोजन आदि की व्यवस्था हो और भारत सरकार भारतीय जनमानस के भावनाओं का सम्मान हो ऐसा नहीं होने पर हम विपक्षी गण युद्ध पर रोक लगाने ,फिलीस्तीन में शान्ति बहाल करने के लिए सड़क पर संघर्ष के लिए उतरे गें। कार्यक्रम में भाकपा-माले नेता और किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड जयप्रकाश नारायण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री कामरेड जितेंद्र हरि पाण्डेय सीपीएम के जिला मंत्री कामरेड रामजनम यादव, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव, निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बंदी, कांग्रेस के प्रदीप यादव, राष्ट्रीय लोकदल के पतिराम यादव, भाकपा-माले जिला प्रभारी कामरेड विनोद सिंह, जनवादी लोकमंच के रविन्द्र राय,देवनाथ साहू समाजवादी पार्टी, दुर्गेश यादव, मुस्तजाब आलम बाबू आदि शामिल रहे।

39 लाख की लागत से बन रही सड़क का किया लोकार्पण

- विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम रूकने का नाम नहीं ले रहा

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। स्थानीय नगर पालिका परिषद की ओर से नईगंज वार्ड में 39 लाख 54 हजार की लागत से शुक्ला ट्रांसपोर्ट से सिटी स्टेशन रोड आरामशीन तक जल निकासी एवं इंटरलाकिंग निर्माण कार्य का लोकार्पण आज नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्य पत्नी डॉ रामसूरत मौर्य ने किया। लोकार्पण के बाद नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य ने कहा कि मुहल्ले के निवासियों द्वारा बताया गया कि कई वर्षों से उक्त सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था जिससे वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुहल्ले वालों का सौभाग्य है कि आप सभी को राजेन्द्र मौर्या जैसा सभासद मिले है जिनके अथक प्रयास से आज यह ऐतिहासिक कार्य सम्भव हो पाया है। आगे जन्होने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि शहर का चहुंमुखी विकास कराया जाए। कोई भी गली मोहल्ला ऐसा न बचे यहां जर्जर सड़क हो। अभी जल्द ही शहर में दर्जनों मोहल्लों में जल्द ही सड़क निर्माण कराया जाऐगा। शहरवासियों को बेहतर पेयजल आपूर्ति दी जा रही है। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में सभासद राजेन्द्र मौर्य ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्य व प्रतिनिधि डॉ रामसूरत मौर्य व नगर पालिका की अंजू राय एवम उनकी समस्त टीम को बधाई देते हुए कहा कि अध्यक्ष द्वारा हर छोटी-बड़ी समस्याओं के निदान हेतु जिस प्रकार से सफलतापूर्वक प्रयास किया जा रहा है वह प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। इस मौके पर पंकज शुक्ला, विवेक मौर्य, देवेंद्र मौर्य, सभासद, संतोष मौर्य, सभासद, निशि सोनकर सभासद, समेत आदि लोग रहे।

जजी के मैदान में दुबई थीम कार्निवल मैं दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। जजी के मैदान में लगी प्रदर्शनी (दुबई थीम कार्निवल) मैं दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है स दर्शकों को प्रदर्शनी में बुर्ज खलीफा, ट्विन टावर, एफ्फिल टावर, लवर्स पॉइंट्स जैसे दर्जनों ऐतिहासिक चीज़ ग्राहकों को फ्री में देखने को मिल रहा है स दर्शक मात्र 50 के टिकट में प्रदर्शनी में प्रवेश कर रहे हैं स पुरुष महिला हो या बच्चे सभी इन ऐतिहासिक चीजों को सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं स 150 के आसपास दुकान लगी है जिसमें एक से बढ़कर एक सामान सस्ते मिल रहा है जिसमें कश्मीरी शाल पशमीना वस्त्र कश्मीरी ड्राई फ्रूट बनारसी साड़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है स इन सामानों को खरीदने में भी लोग चूक नहीं रहे हैं स क्योंकि मार्केट से सस्ता और अच्छा सामान मिल रहा है स वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूला जिस पर बूढ़े जवान महिलाओं से लेकर बच्चों तक बैठकर आनंद ले रहे हैं प्रदर्शनी के मैनेजर पंकज मिश्रा ने बताया कि यह प्रदर्शनी अभी अपने पूरे शबाब पर है स दशहरा में लोगों ने खूब आनंद उठाया वही दीपावली पर भी काफी भीड़ और सामान खरीदेंगे स उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लिए प्रदर्शनी ऐतिहासिक है ऐसी प्रदर्शनी लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लोग प्रदर्शनी में आकर प्रदर्शनी का खूब आनंद उठा रहे हैं उन्होंने दर्शकों से अपील किया कि आप लोगों के लिए प्रदर्शनी के अंदर आप लोगों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी स आप लोगों के लिए प्रदर्शनी में बुर्ज खलीफा ट्विन टावर एफ्फिल टावर लवर्स पॉइंट लगाया गया है ताकि आप लोग देख कर इन सब चीजों को एहसास कर सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग आकर प्रदर्शनी का आनंद उठाने का काम करें स प्रदर्शनी में सुरक्षा का पूरा इंतजाम है प्रदर्शनी में हमेशा वॉलिंटियर घूमते रहते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

डीएम ने की समीक्षा बैठक

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम विकास सेक्टर के अंतर्गत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), एनआरएलएम एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों का आधार सीडिंग शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। रोजगार की मांग करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे प्रधानमंत्री आवास में रोजगार देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए तथा श्रमिकों के पेंडिंग का भुगतान इसी सप्ताह में किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) को इसी साल के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, कृषि विभाग, पशुपालन, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कैटल कैचर अभियान का जायजा लेने मुबारकपुर पहुंचे विशेष सचिव

अवधनामा संवाददाता

मुबारकपुर आजमगढ़। मुबारकपुर नगर के रोडवेज जल कल परिसर में गोबंश आश्रय स्थल का हाल जानने मंगलवार को विशेष सचिव प्रदेश शासन अमर नाथ उपाध्याय पहुंचे और पशु ओं का संरक्षित करने का अभियान को सफल बनाने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। ब्यवस्था ठीक देखकर का सन्तोष जताया।

प्रदेश सरकार के आदेश पर कैटल कैचर अभियान पहली नवम्बर से 31दिसम्बर तक चलया जा रहा है।इस अभियान के सम्बन्ध में विशेष सचिव अमरनाथ नाथ उपाध्याय ने बताया कि छुट्टा पशु ओं की समस्याओ पर नजर रखने के लिए उनहे आजमगढ़ और गोरखपुर मण्डल में आवारा पशु ओं को गोबंश आश्रय स्थल तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है।इसी का जायजा लेने आया हूं।पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे से उतर कर आते समय रास्ते में मुबारकपुर तक को ई पशु नही मिला है।यहां की ब्यवस्था ठीक है। चार कैटल कैचर के लिए आदेश दिया गया है।

इससे पूर्व सठियांव के कस्बा सराय गोबंश आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया। कैटल कैचर में लापरवाही के चलते नाराजगी ब्यक्त किया। वहीं मौके पर एडीओ पंचायत सुनील मिश्र के न मिलने पर अनुपस्थित दर्ज कर स्पष्टीकरण मांगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ,जिला विकास अधिकारी संजय सिंह ,खण्ड विकास अधिकारी कविता तिवारी,पशु चिकित्सा अधिकारी चन्द्र भान कश्यप,एडीओ आइ एस बी राजेश सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राजू सिंह, ग्राम प्रधान दुर्गावती देवी, रवि प्रकाश आदि मौजूद रहे।

एसडीएम के आदेश का नहीं हो रहा है पालन, नहीं खुल रहा है रास्ता

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। थाना मुबारकपुर सदर तहसील क्षेत्र के अमुडी गाँव में दबंग ने सैयद मजार के रास्ते को किया बन्द ग्रामीण लगा रहे हैं अधिकारियों का चक्कर अधिकारी के आदेश का कर्मचारियों पर नहीं हो रहा असर भ्रष्टाचार में लिफ्त कानूनगो लेखपाल के मिली भगत कभी भी हो सकती है अनहोनी घटनस योगी सरकार भले ही भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है वही सदर तहसील के अमुडी गाँव के भूमाफिया दबग व कानूनगो लेखपाल के आगे अधिकारी बौने नजर आ रहे पीड़ित ग्रामीण नवजीवन सन्तोष कुमार यादव ने बताया अमुडी मे गाँव सैयद मजार पर रास्ता पुराने जमाने से बना हुआ था गांव के मनबढ व दबंग भूमाफिया द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया पूर्व में रास्ते को लेकर मारपीट भी हुआ था ग्रामीण द्वारा एसडीएम ज्ञान चन्द गुप्ता को कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया एसडीएम द्वारा कई बार रास्ता हटवाने का आदेश भी गया। भ्रष्ट कानूनगो व लेखपाल द्वारा रास्ते को हटाया नहीं गया भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया और एसडीएम से वार्ता किया गया एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है।

फर्जी इंसपेक्टर गिरफ्तार

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। निजामाबाद पुलिस ने आज एक फर्जी इंसपेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त द्वारा वर्दी पहनकर वाहन चालकों को धमकाकर वसूली की जाती थी। अजीत यादव पुत्र स्व0 रामचन्दर यादव निवासी जगदीशपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि वह 06 नवम्बर को अपने ट्रक से गिट्टी लादकर आ रहा था कि समय करीब 4.30 बजे भोर मे मुहम्मदपुर से फरिहा मार्ग पर एक व्यक्ति सड़क पर पुलिस इन्सपेक्टर की वर्दी में गाड़ी को हाथ से रोकने का इशारा किया गाडी रोकने पर उसने डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देने लगा तथा गाली गलौज देते हुए 5000 हजार रूपये की मांग करने लगा, डरवश अजीत ने उक्त फर्जी इंसपेक्टर को 2000 रूपये दे दिया। उस व्यक्ति के वर्दी के नेम प्लेट पर मुकेश पाण्डेय लिखा था। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त घटना के सन्दर्भ में जनपदीय स्वाट टीम व थाने की टीम को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। आज 07 नवम्बर को स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह व उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी अपने हमराहियों के साथ रात्रि में फरिहा चौराहे पर सुरागरसी में लगे थे। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए मुकेश पाण्डेय नाम का नेम प्लेट लगाये हुये है फरीदाबाद तिराहे (आजमगढ-शाहगंज मार्ग) पर आने जाने वाले वाहनों आदि को रोककर वाहन चालकों को वर्दी का रौब दिखा कर डरा धमका कर पैसे की वसूली कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल फरीदाबाद तिराहे (आजमगढ-शाहगंज मार्ग) पर घेराबंदी करके मौके से पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर फर्जी इंस्पेक्टर के रूप पहचान सुनिश्चित कर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम मुकेश पाण्डेय पुत्र लल्लन पाण्डेय निवासी ग्राम कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया।

इनरव्हील क्लब ऑफ ने जरूरतमंदो में वितरण की सिलाई मशीन

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। इनरव्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ का एक समारोह रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में मंगलवार को सम्पन्न हुआ। जिसमे इलाहाबाद से आई डिस्ट्रिक चेयरमैन सुषमा अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर आजमगढ़ की अध्यक्ष अमित लता सिंह व सचिव प्रिया अग्रवाल ने जोरदार स्वागत किया। अतिथिद्वय ने दीप प्रज्ज्वलित किया इसके बाद गणेश वंदना की प्रस्तुति से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। क्लब द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को व्हीलचेयर, सिलाई मशीन, 10 महिलाओं को साड़ी, शाल व 12 कुर्सियों, पैड आदि भी वितरित किया गया वहीं चार माह में हुए सम्पूर्ण कार्यो का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर आगामी कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई मुख्य अतिथि सुषमा अग्रवाल ने कहाकि संगठन में एक दूसरे के हाथों को पकड़कर एक दिशा में आगे बढ़कर ही समाज की सेवा हो सकती है। सेवा जैसे पुनीत कार्य में सभी को अपना शत प्रतिशत सहयोग देना चाहिए। जिस तरह दिन रात प्रकृति का नियम है उसी तरह सेवा ही असली मानवता है। क्लब की महिलाओं का कार्ययोजना बेहद शानदार है मुझे पूरी उम्मीद है कि अमितलता सिंह व प्रिया अग्रवाल क्लब को आगे भी बेहतर मुकाम मे दिलाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी इनरव्हील क्लब का यह शताब्दी वर्ष है जिसे 20 दिसंबर को लखनऊ में शानदार ढंग से मनाया जा रहा है। आयोजन में अपना शत प्रतिशत सहभागिता रखें और सीखने की क्षमता को लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहाकि इनरव्हील क्लब का सृजन खास उद्देश्य के लिए हुआ है आज हम उसी उद्देश्य को साकार करने में अपनी जो भी भूमिका निभा रहे है उसे सोचकर मन-मस्तिष्क बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। जिस तरह का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है उससे लगता है कि हमारी इकाई एक विशेष मुकाम हासिल करेगी। इस दौरान श्रीमती सिंह ने लगातार अपने इकाई के पदाधिकारियों व सदस्यों के कार्यो की प्रशंसा किया।

इसके बाद सचिव प्रिया अग्रवाल ने चार माह में हुए सभी कार्या की चर्चा करते हुए कहाकि चार माह पूर्व मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी उसे में शत प्रतिशत देकर लगातार पूर्ण करने का काम जारी है आगे भी क्लब अपने कार्ययोजनाओं को मूर्त रूप देगा और अपने समाज में विशेष कार्यो के लिए पहचाना जाएगा। संचालन डा अल्का सिंह ने किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष अमित लता सिंह, सचिव प्रिया अग्रवाल, टेजरार वंदना सिंह, एडिटर पुष्पा श्रीवास्तव, आईएसओ रूचि अग्रवाल, गिरिजा यादव, अल्का सिंह, लाजो, वर्षा, रिचा, अन्नपूर्णा, गीता, रीता अग्रवाल, रीता खेतान, वैजंती, अनीता, मंजू अग्रवाल, अनीता आदि मौजूद रही।

पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर और असेसर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

नई दिल्ली। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आज कारीगरों और शिल्पकार समुदाय को चिन्हित किए गए ट्रेड में सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मास्टर ट्रेनर्स और असेसर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की।

6 से 10 नवंबर, 2023 तक राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) में आयोजित होने वाला यह पांच दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित 10 विभिन्न राज्यों के 41 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने के लिए निर्धारित है। मास्टर ट्रेनर्स का पहला बैच निम्नलिखित ट्रेडों जैसे बार्बर (नाई), टेलर (दर्जी), मेसन (राजमिस्त्री), कारपेन्टर (सुथार/बढ़ई), गुड़िया और

खिलौना निर्माता (पारंपरिक), और ब्लैकस्मिथ (लोहार) को कवर करेगा। मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का लक्ष्य इन मास्टर ट्रेनर्स को आधुनिक तकनीक कौशल और उद्यमशीलता के ज्ञान से लैस करना है। प्रतिभागियों को उद्यमशीलता दक्षताओं, बिजनेस योजना की तैयारी, सरकारी सहायता इकोसिस्टम, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मास्टर ट्रेनर्स को अपने कौशल को बढ़ाने और समकालीन प्रथाओं को अपनाने के लिए एक आधुनिक टूल किट प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के माननीय सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने किया। उद्घाटन के दौरान, उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के महत्वपूर्ण घटकों पर जोर दिया और कहा, ÷एक कुशल और सशक्त कार्यबल के निर्माण की खोज में, पीएम विश्वकर्मा के तहत मास्टर ट्रेनर्स और असेसर्स प्रोग्राम, हमारे देश को आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।÷ ये मास्टर ट्रेनर, नॉलेज और इनोवेशन के पथप्रदर्शक के रूप में, हमारे देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा उनका समर्पण और विशेषज्ञता न केवल हमारे कार्यबल के स्किल सेट को समृद्ध करेगी बल्कि आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और समृद्ध भारत के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के विज़न को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। साथ मिलकर, हम अपने नागरिकों को सशक्त बनाएंगे और सामूहिक रूप से 21वीं सदी के लिए एक कुशल भारत का निर्माण करेंगे।

पोकरबाज़ी ने दूसरे 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टूर्नामेंट्स' के विजेताओं को 10 करोड़ रुपये की इनामी राशि प्रदान की

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाज़ी ने भारत के सबसे मशहूर पोकर टूर्नामेंट्स में से एक, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टूर्नामेंट्स (जी.ओ.ए.टी.) के समापन की घोषणा कर दी है। 12 दिनों की अवधि में लगभग 17000 एंट्रीज़ ने मुकाबला करते हुए अपना कौशल दिखाया और बेंगलुरु के एक आईटी कंसल्टेन्ट अरुण विजय मुतगी चैम्पियन बनकर उभरे और उन्होंने जी.ओ.ए.टी. का टाइटल हासिल किया। टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण में प्लेयर्स ने जीतने के लिये अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए इनामी राशि के लिये मुकाबला किया। पोकर की भारतीय दुनिया के बेजोड़ और मशहूर प्लेयर्स के बीच ड्यूअल्स के बाद फाइनल टेबल पर 9 घंटे का रोमांचक शोडाउन हुआ और अरुण विजय मुतगी ने 1.5 करोड़ रूपये जीतकर बाज़ी मारी तथा केरल के श्रीकांत केएन भी 1.5 करोड़ रूपये जीतकर दूसरे स्थान पर रहे। अपने प्रदर्शन से बेहद खुश अरुण विजय मुतगी ने कहा, ÷मैं एक दशक से पोकर खेल रहा हूँ और बीतते वक्त के साथ मैंने यह जाना और समझा है कि एक प्लेयर को अपने हुनर को निखारने और हर खेल का मूल्यांकन करने पर लगातार ध्यान देना चाहिये। मेरा मानना है कि इससे पोकर में मेरी तरक्की में काफी योगदान मिला है और आखिरकार टाइटल जीतने में मुझे मदद मिली है। ऐसे समापन पोकर प्लेयर्स के साथ स्टेज शेयर करने की मुझे बहुत खुशी है और मैं पोकरबाज़ी का शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टूर्नामेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जहाँ मेरे जैसे उभरते प्लेयर को भी इतने बड़े पैमाने पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट के समापन पर अपनी बात रखते हुए, बाज़ी गेम्स के संस्थापक एवं सीईओ नवकिरण सिंह ने कहा, ÷यह देखकर दिल को सुकून मिलता है कि ऑनलाइन गेमिंग, खासकर पोकर का विकास हुआ है और इसे देश में दिमाग के एक खेल के रूप में स्वीकारा गया है। दिमाग के इस खेल की बढ़त में कुशलता का पहलू लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे इस गेम की लोकप्रियता देखकर बड़ी खुशी है और इस बात पर भी कि यह खेल किस तरह से लोगों को अपने जीवन में वही कौशल और ज्ञानात्मक योग्यताएं अपनाने के लिये मदद कर रहा है। नवकिरण सिंह ने आगे कहा, टूर्नामेंट का चैम्पियन बनने के लिये अरुण विजय मुतगी और दूसरे पोडियम फिनिशर्स को भी दिल से बधाई। मुझे विश्वास है कि हम जल्दी ही इन प्रतियोगियों को पोकर के विभिन्न वैश्विक टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते देखेंगे। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से लोगों की रिकॉर्ड संख्या ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान टॉप 10 राज्यों में शामिल रहे।

सोने की कीमतों में 250 रुपये की गिरावट, चांदी 650 रुपये लुढ़की

नई दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 250 रुपये टूटकर 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 650 रुपये टूटकर 74,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 250 रुपये टूटकर 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 250 रुपये गिरकर 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 650 रुपये टूटकर 74,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों गिरावट के साथ क्रमशः 1,970 डॉलर प्रति औंस और 22.75 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार करते दिखे।

कोटक म्यूचुअल फंड ने सीबीएसई के साथ साझेदारी में किया निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल सीखो पैसे की भाषा का लखनऊ में आयोजन

लखनऊ। कोटक म्यूचुअल फंड ने लखनऊ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के साथ साझेदारी में अपनी निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल, सीखो पैसे की भाषा का आयोजन किया। यह पहल शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला आयोजित करके वित्तीय साक्षरता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को उनकी वित्तीय समझ को विससित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाना है, और अंततः जो संभावित प्रगतिशील भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में योगदान करने में मदद कर सकता है।

इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में 12450 से अधिक सीबीएसई शिक्षकों और लखनऊ में 2400 से अधिक शिक्षकों के बीच वित्तीय साक्षरता के बारे में शिक्षित और जागरूकता पैदा करना है। इनमें 50% महिलाओं के होने की उम्मीद है, जो समान वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने पर जोर देती है।

इस पहल के हिस्से के रूप में, कोटक म्यूचुअल फंड ने सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (सीआईईएल) से 500 से अधिक कुशल प्रशिक्षकों को अपने साथ जोड़ा है, जो यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे कार्यक्रम में गुणवत्ता और प्रासंगिकता बरकरार रखी जाए, प्रभावशाली सत्रों का नेतृत्व करेंगे।

नेहा सिंह, प्रिंसिपल, सेंट अंजनी पब्लिक स्कूल (सेक्टर 3-राजाजीपुरम, लखनऊ) ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने शिक्षकों को धन प्रबंधन की अनिवार्यताओं को समझने में मदद करना है। यह हमारे शिक्षकों को जिम्मेदार वित्तीय निर्णय लेने की तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा।÷

कोटक म्यूचुअल फंड के मार्केटिंग और एनालिटिक्स, डिजिटल बिजनेस प्रमुख किंजल शाह ने बताया, इस निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम सीखो पैसे की भाषा के माध्यम से, हम वित्तीय सशक्तिकरण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि शिक्षक हमारे देश की नियति को आकार देने और नई पीढ़ी को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीबीएसई के साथ हमारी साझेदारी वित्तीय साक्षरता और निवेश के बारे में सम्मानित शिक्षकों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए है। सामूहिक रूप से, हम एक ऐसे भविष्य को आकार दे सकते हैं जहां वित्तीय रूप से जागरूक शिक्षक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

यह पहल आर्थिक रूप से सशक्त भारत की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य प्रगति और विकास के लिए देश की आकांक्षा के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाना है।

ग्लोबल अलायन्स फॉर मास एंटरेप्रेन्योरशिप और एफआईएसएमई ने एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए की साझेदारी

लखनऊ। ग्लोबल अलायन्स फॉर मास एंटरेप्रेन्योरशिप (जीएएमई)और फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एण्ड स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइज़ (एफआईएसएमई) ने देश के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रगति एवं कल्याण को सुनिश्चित करने हेतू विभिन्न प्रोग्रामों, हस्तक्षेपों के लिए एक दूसरे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत भुगतान में देरी, कारोबार की सुगमता, विशेष संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं तथा शिकायत एवं समस्या निवारण अडवाइज़री पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस साझेदारी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री केतुल आचार्य, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल अलायन्स फॉर मास एंटरेप्रेन्योरशिप ने कहा, ''एफआईएसएमई देश के लघु एवं मध्यम उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य संस्था है, जो उनके विकास एवं सफलता के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करती है। इस संगठनने ऐसी कई गतिविधियों और पहलों को अंजाम दिया है, जो एमएमएसई के लिए कारगर साबित हुए हैं। एमएसएमई के विकास में आनी वाली रूकावटों को दूर करने के लिए ग्लोबल अलायन्स फॉर मास एंटरेप्रेन्योरशिप (जीएएमई)और फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एण्ड स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइज़ (एफआईएसएमई) ने हाथ मिलाया है। एफआईएसएमई के साथ काम करने के लिए हम बेहद उत्सुक हैं।'' रिपोर्ट्स के प्रकाशन से लेकर अनुसंधान अध्ययन, नीतिगत दस्तावेजों के निर्माण तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के विस्तार के लिए प्रोग्रामों के आयोजन तक- यह साझेदारी फाइनैंस को सुलभ बनाने, मौजूदा कारोबारों का पैमाना बढ़ाने, तथा स्थानीय एवं राष्ट्रीय हितधारकों को एक ही मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।''

दिवाली की खुशियां दोगुना कर देगी बिकानो की पेशकश, त्योहार पर 40 फीसदी ज्यादा बिक्री का अनुमान

आगरा। पारंपरिक भारतीय मिठाइयों और स्नैक्स की दुनिया का जाना-पहचाना नाम, बिकानो एक बार फिर रोशनी के त्योहार दिवाली पर पूरी तरह तैयार है, अपनी स्वादिष्ट पेशकश के साथ। इनमें बेशकीमती रॉयल से लेकर मजेदार ड्राई फ्रूट डिलाइट, राजसी शाही नजराना, लुभावना अनमोल और इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स में ड्राई फ्रूट डिलाइट, उत्तम, बेक्ड डिलाइट, रसमोल, मीठा चटपटा, बेक्ड डिलाइट रिजॉयस, सोलफुल ट्रीट्स, अनुपम, उपहार, उत्सव, तरंग, उमंग, अभिनंदन, अलबेला, काजू बर्फी आदि भी शामिल हैं। इस तरह, बिकानो ने स्वादिष्ट और मजेदार स्नैक्स को इस तरह संजोया है कि यह सभी के बजट में फिट हो सके और सभी को मजा भी दे। बिकानो ने 180 से 799 रुपये के बीच पेश किए गिफ्ट हैंपर्स।

बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री मनीष अग्रवाल ने इस बारे में बताया, ÷इस वर्ष, बिकानो एक बार फिर दिवाली की शानदार पेशकश के माध्यम से घरों को रोशन करने के लिए तैयार है। हर प्रोडक्ट को बहुत सोच-समझकर बेहतर तरीके से तैयार किया गया है, जिससे धूमधाम के इन पलों में ज्यादा खुशियां और मीठापन जोड़ा जा सके। हमें विश्वास है कि हमारे अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स और अलग-अलग साइज में उनकी पैकिंग्स से त्योहारों की सभी तरह की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। हमने हाल ही में ग्राहकों के आत्मविश्वास और क्रय क्षमता में बहुत उछाल देखा है। इसके अलावा, हमारी निर्माण क्षमता भी बढ़ी है, जिससे हम देश के हर कोने तक खुशियां बांटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। असल में, त्योहारों पर चारों ओर केवल खुशियां ही नहीं फैलतीं, बल्कि आर्थिक तरक्की भी होती है। इस दौरान भी बिकानो ग्राहकों की पसंद को पहली प्राथमिकता देती है और उसी के अनुसार, अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करती रही है। पिछले साल की बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि ने इस साल रक्षाबंधन से दिवाली तक के त्योहारों के मौके के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इस सफलता से उत्साहित, बिकानो को इस दिवाली पर बिक्री में 40 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

वीवो दिवाली कैम्पेन ऑडियंस को इस दिवाली Joy of Home Coming की दिलाता है याद

नई दिल्ली। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने हाल ही में अपना दिवाली कैम्पेन- Joy of HomeComing लॉन्च किया है। एफसीबी इंडिया द्वारा तैयार किया गया, यह कैम्पेन त्योहार की भावना को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है व यह याद दिलाता है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। कैम्पेन का उद्देश्य यह बताना है कि वीवो न केवल एक जाना-माना स्मार्टफोन ब्रांड है, बल्कि एक सक्षम माध्यम भी है जो लोगों को अपने प्रियजनों से जुड़ने और अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है। यह कैम्पेन दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति पर केंद्रित है जो परिवार और करियर के बीच किसी एक को चुनने के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे यह तब महसूस होता है जब वह अपनी नवजात बेटी के प्रति अपने गहरे प्यार को पहचानता है, जो उसका वीवो डिवाइस उसे दिखाता है, कि इस दिवाली, उसकी असली जगह घर पर है, जहां वह अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली का आनंद ले सके।

कैंपेन को लांच करते हुए, वीवो इंडिया के कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हेड, गीतज चन्ना ने कहा, दौड़ भाग वाली इस दुनिया में करियर के चक्कर में अकसर उन चीजों को भुल जाते है, जो वास्तव में मायने रखता है। हमारे ब्रांड की फिलॉसफी लिव द जॉय' के अनरुप, हमारा दिवाली कैम्पेन हमारी ऑडियंस को यह याद दिलाना चाहता है कि आप अपने करियर की भागदौड़ में जहां कहीं भी हो इस त्योहार अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने और साथ रहने की खुशी को महसूस करने के लिए घर लौट आएं।

एफसीबी इंडिया के प्रेसिडेंट अभिनव कौशिक ने कहा, यह कैम्पेन ब्रांड की भावना को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन और काम आपको कहां ले जाते हैं, सच्चा आनंद केवल अपने परिवार के साथ रहने में आता है।

निवेशकों के लिए अवसरों और जोखिमों पर विशेषज्ञों ने एक जटिल निवेश परिदृश्य के बारे में मार्गदर्शन करते हुए चर्चा की

हांगकांग। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने हाल ही में अपने प्रमुख एपॅक इन्वेस्टर फोरम 2023 की मेजबानी की, जो हांगकांग में आयोजित एक हाइब्रिड इवेंट थी, जिसमें विशेषज्ञ निवेश प्रबंधन टीमों के हमारे समूह से हमारे सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजरों सहित निवेश विशेषज्ञों के एक पैनल को भू-राजनीतिक बदलावों, तकनीकी नवप्रवर्तन और बदलती जनसांख्यिकी द्वारा चिह्नित विकसित होते निवेश परिदृश्य तथा नए वातावरण के लिए उनके निवेश दृष्टिकोणों पर चर्चा के लिए एक साथ लाया गया। 2024 में मंदी के जोखिम और अवसरों पर टिप्पणी करते हुए मुख्य बाजार रणनीतिकार और फ्रैंकलिन टेम्पलटन इंस्टीट्यूट के प्रमुख स्टीफन डोवर ने कहा-

हालांकि अमेरिका में हल्की मंदी की संभावना अधिक बनी हुई है, फिर भी उभरते बाजार, विशेष रूप से एशिया, अधिक उछालदार साबित हो सकते हैं। कमजोर होते जा रहे अमेरिकी डॉलर को उभरते बाजारों का सहयोग करना चाहिए, विशेष रूप से उन बाजारों का, जो आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता में बदलाव से लाभान्वित होंगे। निम्न ऋण स्तर, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और ठोस राजकोषीय नीति कई एशियाई देशों को अधिक अनुकूल स्थिति में रखती दिख रही हैं। हम जापान में सबसे बड़े अवसर देखते हैं, जहां कई दशकों के रुझानों में बदलाव देखा जा रहा है, जो अब सकारात्मक गति दिखा रहे हैं।

बेंगलुरु में प्रोजेक्ट टाइगर की स्क्रीनिंग को मिली जबरदस्त सफलता

लखनऊ। फिल्म निर्माता रोहित वर्मा और कल्याण वर्मा, नेचर इनफोकस की फीचर-लेंथ डॉक्यूमेंट्री ÷प्रोजेक्ट टाइगर÷ की बहुप्रतीक्षित स्क्रीनिंग पूरी हुई, जो ग्लोबल आइकन को विलुप्त होने से

बचाने के भारत के साहसी मिशन की असाधारण अनकही कहानी को दिखाता करती है। माराकाटा, चमारा वज्र, जयमहल और बेंगलुरु में 1500 से अधिक लोगों के लिए एक यादगार और जादुई अनुभव था। जैसे ही तारों से जगमगाते आकाश के नीचे फिल्म प्रदर्शित हुई, गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। दर्शकों को एक अनोखी सिनेमाई यात्रा का अनुभव हुआ जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के लुभावने दृश्य और सम्मोहक कहानी और स्क्रीनिंग के बाद हिंद महासागर के विशेष प्रदर्शन ने साथ मिलकर एक यादगार शाम बन गया जिसने राजसी बाघों और भारत की संरक्षण यात्रा को दिखलाया मनाया। इस शाम को यशपाल राठैड़ और विजय मोहन राज की कॉफी टेबल बुक टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट का भी विमोचन हुआ, जिसमें शानदार तस्वीरें और अनदेखी कल्पना के माध्यम से प्रोजेक्ट टाइगर को दिखाया गया। प्राकृतिक दुनिया की कहानियों को विशेषज्ञता से दिखाने वाले रखने वाले अग्रणी प्रोडक्शन हाउस नेचर इनफोकस ने भारत की प्रमुख संरक्षण पहल, ÷प्रोजेक्ट टाइगर÷ के अनकहे पहलुओं को दिखाया, जो आज इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण परियोजना बन गई है। डॉक्यूमेंट्री यह समझने के लिए अतीत में जाती है कि हम क्यों और कैसे उस स्थिति में पहुंचे जहां राजसी बाघ लगभग विलुप्त हो गए और इस बात पर विस्तार से जानकारी दी है कि कैसे भारत ने इस वैश्विक और आइकोनिक प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए लोगों को एकजुट किया, कई चुनौतियों पर काबू पाया और बदले में न केवल बाघ बल्कि बड़े इकोसिस्टम को भी बचाया।

केएसबी लिमिटेड ने तीसरी तिमाही में 31 प्रतिशत की वृद्धि की दर्ज

लखनऊ। भारत में लीडिंग पंप और वाल्व निर्माता में से एक, केएसबी लिमिटेड ने पिछले वर्ष की तुलना में तीसरे तिमाही में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तीसरी तिमाही 23 के प्रदर्शन के बारे में केएसबी लिमिटेड के सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट, श्री फ़ारूख भथेना ने कहा, 2023 के तीसरी तिमाही में, केएसबी ने साल दर साल 31 प्रतिशत की शानदार सेल्स ग्रोथ हासिल की और पिछले वर्ष की तुलना में पिछली तीन तिमाही में बिक्री में 27 प्रतिशत की क्यूमिलेटिव ग्रोथ देखी गई। इस अवधि के दौरान हमारा परफॉर्मेंस बेहद शानदार था, जिसमें कई महत्वपूर्ण विकास भी हुए। हम इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि 2023 की तीसरे तिमाही में एक मजबूत ऑर्डर इनटेक से प्रेरित है। हम डिमांड के स्थिति के बारे में आशावादी बने हुए हैं क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में लगातार ऊपर की ओर रुझान देखा जा रहा है, जो ग्लोबल बाजार में हमारी पोजिशन को मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त, हमारे सोलर डिविजन में महत्वपूर्ण ग्रोथ देखी गई है, जो हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्राप्त करने पर केंद्रित भविष्य की ओर प्रेरित कर रहा है। हमने अपनी फैसिलिटी में ई-सेल्स टूल को भी सफलतापूर्वक लागू किया है जो ऑपरेशनल एफीशियंसी और प्रॉफिबिलटी को बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हुए, केएसबी एक्सिलेंस, सस्टेनबिलटी और सभी स्टेकहोल्डर के लिए स्थायी वैल्यू बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एट्रियल फिब्रिलेशन के करीब एक-तिहाई मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखायी देतेः डॉ आदित्य कपूर

एट्रियल फिब्रिलेशनएक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है क्योंकि इसकी वजह से जीवनघाती जटिलताएं, जिनमें स्ट्रोक भी शामिल है, पैदा हो सकती हैं। यह एक प्रकार की कार्डियोवास्क्युलर कंडीशन है जिसमें हार्ट के ऊपरी चैंबर में अनियमित धड़कनों की वजह से निचले चैंबर्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऐसा हार्ट की इलैक्ट्रिकल इम्पल्स में व्यवधान के कारण होता है। भारत में विभिन्न अस्पतालों में करवाए गए शोध से यह बात सामने आयी है कि करीब 10-25 प्रतिशत स्ट्रोक के मामलों में मरीज साइलेंट एएफ के शिकार होते हैं भारत में करीब, एट्रियल फिब्रिलेशन के करीब एक-तिहाई मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखायी देते और सबसे पहली अभिव्यक्ति स्ट्रोक के रूप में ही सामने आती है।

डॉ आदित्य कपूर, प्रोफेसर एवं हैड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ ने कहा मैं हर हफ्ते 15-20 एएफ मरीजों को देखता हूं यदि एएफ का समय पर इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से हार्ट फेल या स्ट्रोक जैसी कई दीर्घकालिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। एएफ के रिस्क फैक्टर्स में रियूमेटिक हार्ट डिजीज, मोटापा, डायबिटीज, और हाइ ब्लड प्रेशर शामिल हैं। मरीजों की इन जोखिमों के संदर्भ में नियमित रूप से जांच जरूरी है ताकि साइलेंट एएफ का पता लगाया जा सके और भविष्य में स्ट्रोक से बचाव हो सके। मैं मरीजों को हैल्दी लाइफस्टाइल का पालन करने, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनीटर करने, तथा अन्य लाइफस्टाइल रोगों जैसे कि डायबिटीज आदि को मैनेज करने की सलाह देता हूं। एफए के उपचार के लिए रेट-कंट्रोलिंग दवाएं, ब्लड थिनर्स और यदि जरूरी हो तो, एंटी-एरिथमिक दवाएं दी जाती हैं। यदि ये दवाएं कारगर नहीं होती, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और एब्लेशन जैसी प्रक्रियाओं की मदद भी ली जाती है। स्ट्रोक का जोखिम पांच गुना बढ़ाने के अलावा, एट्रियल फिब्रिलेशन सेहत के लिए अन्य कई तरह से भी खतरा है, जैसे मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है, लाइफ की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, और काम करने की क्षमता उत्पादकता भी घट सकती है। अगर एएफ का समय पर पता चल जाए तो ओरल एंटी-कॉग्यूलेंट थेरेपी से इस प्रकार के स्ट्रोक से बचाव हो सकता है। जिन लोगों को एएफ का जोखिम है उनकी स्क्रीनिंग से एएफ का समय रहते पता लगाया जा सकता है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, या अन्य मेडिकल कंडीशंस जैसे कि मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट फेल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जन्मजात हृदय रोग, फेफड़ों के रोग जैसे सीओपीडी, स्लीप एप्निया, या हाइपरथायरॉइडिज़्म से प्रभावित लोगों में एएफ का जोखिम अधिक होता है ।

बच्चों के लिए हिमालया टूथपेस्टः फन, फ्लेवर, एंड ऑरल हेल्थ का परफेक्ट ब्लेंड

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख वैलनेस ब्रांड, हिमालया वैलनेस कंपनी ने बच्चों के स्वाद व् स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तीन रोमांचक नए स्वादों- ऑरेंज, कूल मिंट और बबल गम के साथ हिमालया किड्स टूथपेस्ट बाजार में प्रवेश की घोषणा की है। हिमालया कंपनी का पर्सनल केयर मार्किट में एक जाना पहचाना नाम है। यह टूथपेस्ट माता-पिता को उनके बच्चों के दांतों की सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेचुरल तत्वों से बना यह टूथपेस्ट बच्चों के दांतो के लिए कोमल, प्रभावी और सुरक्षित है। प्राकृतिक कैविटी सुरक्षा के साथ हिमालया किड्स टूथपेस्ट प्राकृतिक तत्वों को मिला कर बनाया गया है। इसे बिना किसी केमिकल के तैयार किया गया है। इसमें कोई अतिरिक्त चीनी, आर्टिफिशल फ्लेवर या प्रेज़रवेटिव नहीं हैं, जिसकी वजह से यह बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ऑरल सोल्युशन है। फ्लोराइड मुक्त टूथपेस्ट विशेष रूप से बच्चों की ऑरल स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बोलते हुए, श्री चक्रवर्ती एन.वी., डायरेक्टर - बेबीकेयर, हिमालया वैलनेस कंपनी, कहते हैं, हिमालया में, हमने हमेशा अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित और प्रभावी केयर सोल्युशन प्रदान करने के लिए प्रकृति की अच्छाई में विश्वास किया है। हमारी नई टूथपेस्ट रेंज लॉन्च के साथ हम बच्चों की ऑरल देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता बढ़ा रहे हैं। हम समझते हैं कि बच्चों के दांत और मसूड़े संवेदनशील होते हैं और अच्छी ऑरल स्वच्छता बनाए रखना उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हिमालया किड्स टूथपेस्ट रेंज विशेष रूप से बच्चों की ओरल हेल्थ और स्वाद के हिसाब से तैयार की गई है।

दुबई में दीवाली का जश्नः जहां लक्ज़री और परम्परा का मिलन होता है

दीवाली के इस सीज़न अपने प्रियजनों के साथ यादगार पलों का जश्न मनाएं। इस त्योहार आप दुबई में आकर्षक ऑफर्स, ढेरों पुरस्कार जीतने का मौका पा सकते हैं, साथ ही शहर के कई ज्वैलर्स भी आपके लिए ढेरों उपहार लेकर आए हैं। इसके अलावा शहर के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेन्ट्स में स्वादिष्ट व्यंजन भी आपके इस त्योहार को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। 1.ग्लोबल विलेज, ला पारले, वार्क में 3 कोर्स डाइनिंग का अनुभव पाएं, दुबई ज्वैलरी ग्रुप , अमारा रेस्टोरेन्ट ।

1.ग्लोबल विलेज

दीवाली का त्योहार ग्लोबल विलेज में मनाएं, जहां आपको इंडिया पैविलियन में बॉलीवुड शोज़ का आनंद उठाने, प्रमाणित कलाकृतियों, कारीगरियों एवं परफोर्मेन्स का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। यहां आप इंडियन चाट बाज़ार में भारतीय स्ट्रीट फूड, शानदार भारतीय रेस्टोरेन्ट्स में बेहतरीन व्यंजनों का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार और शनिवार को म्युज़िकल फायरवर्क्स आपके इस जश्न को जीवन भर के लिए यादगार बना देंगे।

2.ला पारले

ला पारले में अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ विजुअल एक्स्ट्रावैगेंज़ा के बीच शानदार परफोर्मेन्सेज़ का आनंद उठाएं। ताज़ा बने मसाला पॉपकॉर्न अपने खास मसालों और क्रिस्पी स्वाद के साथ आपके इस शो को और भी मज़ेदार बना देंगे।

3.वार्क में 3 कोर्स डाइनिंग का अनुभव पाएं

वार्क आपको स्वादिष्ट फ्लेवर्स, कलर्स और अरोमा का आनंद उठाने के लिए आमंत्रित करता है, इस स्वाद को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यहां आप बेहतरीन मसालों के संयोजन से तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं जो भारतीय पाक धरोहर

को परिभाषित करते हैं।

4.दुबई ज्वैलरी ग्रुप

दीवाली के अवसर पर दुबई ज्वैलरी ग्रुप ने पूरे शहर में रीटेल इनीशिएटिव शुरू की है, पूरे दुबई के प्रख्यात ज्वैलर्स इसमें शामिल हैं। जाने-माने ज्वैलर्स इस अवसर पर अपने खरीददारों के लिए एक्सक्लुज़िव दीवाली कलेक्शन के साथ बेहतरीन डील्स, आकर्षक डिस्काउन्ट्स और खरीद पर कॉम्प्लीमेंटरी उपहारों के ऑफर लेकर आए हैं। इसके अलावा एक आकर्षक रैफल के तहत 30 विजेताओं को AED 150,000 कीमत के ज्वैलरी वाउचर वितरित किए जाएंगे।

5.अमारा रेस्टोरेन्ट

कअमारा आपको क्युलीनरी डिस्कवरी की नई यात्रा पर ले जाएगा, जहां आप कारोबार के प्राचीन रूट जिसे सिल्क रूट कहते हैं, के व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे। इसके मैन्यू में ढेरों फ्लेवर्स हैं, जो आपको इस ऐतिहासिक रूट की याद दिलाएंगे।

अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के तीन सदस्य मुठभेड़ में गिरफ्तार

अवधनामा ब्यूरो

पुलिस गिरफ्त में घायल बदमाश

- तमकुहीराज के गाजीपुर के पास हुई मुठभेड़
- दाहुगंज में आभूषण के दुकान में हुई चोरी में थे शामिल

कुशीनगर। तमकुहीराज थाने की पुलिस और स्वॉट की संयुक्त टीम ने सोमवार की आधी रात को मुठभेड़ में ईरानी गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो अपराधी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनमें एक पर 50 हजार और दूसरे पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। तीसरा बिहार के गोपालगंज जिले का निवासी है। इनके पास से असलहे और 3.20 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं।

गैंग ने बीते दिनों तमकुहीराज में आभूषण दुकानदार के यहां से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस तथा सोने के आभूषण व तीन लाख 20 हजार नकदी बरामद हुआ है। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने टीम की इस सफलता पर एक लाख व एसपी ने 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। एसपी ने बताया कि संयुक्त टीम को रात एक बजे सूचना मिली कि तमकुहीराज इलाके में कुछ संदिग्ध मौजूद हैं। टीम गाजीपुर भरपटिया के समीप फोरलेन पर संदिग्धों की तलाश में जुट गई। इस बीच दो बाइक से तीन युवकों को आते देख टीम ने रूकने का इशारा किया। पुलिस देख युवक बाइक मोड़ तेज गति से वापस भागने लगे। पीछा करने पर युवक बाइक रोक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिए। जवाबी कार्रवाई में दो युवकों के पैर में गोली लग गई और वे गिर पड़े। दोनों की पहचान 50 हजार रुपये का इनामी सुल्तान उर्फ यासीन व 25 हजार रुपये का इनामी समीर अब्बास उर्फ वसीम अली घेर श्यामू खां ठंडी सड़क निकट मदर इंडिया कोल्ड स्टोर थाना कोतवाली नगर जिला फार्रूखाबाद के रूप में हुई। जबकि तीसरे बदमाश नमाजी अली थावे विदेशी टोला थाना थावे जिला गोपालगंज बिहार को टीम ने दौड़ाकर दबोच लिया। बदमाशों के पास से तीन तमंचा, पांच कारतूस, सोने के छह आभूषण व तीन लाख 20 हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस को मौके से दो खोखा भी मिला। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि ईरानी गैंग यूपी के अलावा महाराष्ट्र में सक्रिय है। ये आभूषण दुकानदार को अपना निशाना बनाते हैं। तीनों ने बीते एक नवंबर को तमकुहीराज के दाहूगंज बाजार में आभूषण दुकानदार दशरथ वर्मा की दुकान से सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाशों के विरुद्ध लखनऊ, मैनपुरी, गोरखपुर व कुशीनगर में मुकदमे दर्ज हैं। सुल्तान पर 14, समीर अब्बास उर्फ वसीम अली पर 12 तथा नमाजी अली के विरुद्ध चार मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि फर्रूखाबाद का ईरानी गैंग यूपी के अलावा महाराष्ट्र में सक्रिय है। तमकुहीराज से पूर्व इस गैंग ने गोरखपुर में घटना को अंजाम दिया था। **एडीजी जोन गोरखपुर व एसपी ने टीम को दी इनाम :** मुठभेड़ में ईरानी गैंग के तीन सदस्यों को दबोचने में कामयाबी हांसिल करने वाली पुलिस टीम को एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार ने एक लाख रूपए व एसपी कुशीनगर धवल जायसवाल ने 25 हजार रुपए पुरस्कार देकर टीम की हौसला अफजाई किया। **ऐसे देते थे अपराध को अंजाम :** पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह गैंग पुलिस का रूप लेकर भी आपराधिक कार्य करते हैं जैसे सेल टैक्स ऑफिसर बन जाना, सादे वेशभूषा पहने के दौरान खास तौर पर खाकी जूता और जैकेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि आमजन मानस में यह दिखे की पुलिस है इनका टारगेट बुजुर्ग व्यक्ति महिला एवं ज्वेलर्स विशेष तौर पर होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति या महिला को बैंक से पैसा निकाल कर जाते समय किसी बहाने रोक कर अपनी बातों में उलझाते हैं एवं झपट्टा मारकर पैसे लेकर फरार हो जाते हैं, साथ ही साथ जिस जनपद में यह अपना ठिकाना बनाते हैं उस जनपद में अपराध ना करके बल्कि आसपास के जनपद में जाकर अपना टारगेट चिन्हित करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं घटनाकारित करने के बाद भागते समय ही तुरंत यह अपने ऊपर पहने कपड़े को जैसे शर्ट जैकेट टीशर्ट को चेंज कर लेते हैं ताकि फुटेज के दौरान आसानी से इनकी पहचान ना हो सके हर अपराध में उनकी कोशिश होती है की घटना में बदल बदल कर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए, ईरानी गैंग के सदस्य अनेक जनपद एवं राज्यों में फैले हुए हैं जहां से इनको पूरी मदद मिल जाती है।

शौक पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में रखे थे कदम

शकील अहमद

कुशीनगर (अवधनामा ब्यूरो)। शान शौकत, ऐसो आराम सब कोई चाहता है, लेकिन सही तरीके से कोई नहीं। मेहनत और मजदूरी भाड़ में जाए अवैध तरीके से कमाना जरिया बन गया है। ये कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अंजाम क्या होगा कोई नहीं सोंचता। ऐसा ही एक मामल जिले में आया है। जहां पुलिस टीम ने तीन बदमाशों को मुठभेड़ में तब दबोच लिया जब वह किसी घटना को अंजाम देने या कहीं भागने के फिराक में थे। ये तीनों अभियुक्त अपना शौक पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखे थे। आखिरकार ये शानो शौकत कुछ ही समय में पतन हो गया। कुशीनगर पुलिस ने मंगलवार को जिस ईरानी गैंग का खुलासा किया है उस गैंग के अपराधी अपनी शान शौकत को पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखे थे। क्षण भर में लूट, डकैती व बड़े घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित कर अपना शौक पूरा करते थे। भला ये कब तक चलेगा आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आना ही था, और ऐसा ही हुआ। ईरानी गैंग के सदस्य अनेक जनपद एवं राज्यों में फैले हुए हैं जहां से इनको पूरी मदद मिल जाती है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराधियों द्वारा बताया गया कि अपराध से प्राप्त हुए धन को यह अपने शौक आदि के लिए खर्च कर देते हैं। लालच बुरी बला है ये कहावत आज इन तीनों बदमाशों पर चरितार्थ हो गई और ये लोग अपने अंजाम को पहुंच गए।

विधायक ने किया सीसी रोड निर्माण कार्य का लोकार्पण

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र पाल सिंह ने भटहट ब्लाक के समस्तपूर मुड़िला में अमृत सरोवर व ग्रामसभा महरी में सीसी रोड का लोकार्पण किया। बताते चलें कि ग्रामसभा महरी में हनुमान मंदिर से वहीं के रहने वाले पड़ोही के खेत तक सीसी रोड का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र पाल सिंह ने किया। अमृत सरोवर की बात की जाए तो आपको बतादें कि 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर लांच किया गया था। बताना यह भी जरूरी है कि इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण कर पूराने तालाबों को दुरुस्त करना है। लोकार्पण के दौरान वहां खंड विकास अधिकारी आनन्द कुमार गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी सुनील कुमार यादव, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि राघवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान विरजेश सिंह, योगेन्द्र सिंह, नरेंद्र सिंह, परवेज आलम को लेकर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

भारत स्काउट गाइड का मना 74वां स्थापना दिवस

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरौली क्षेत्र के पंडित जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज के कार्यक्रम की शुरुआत सर्व धर्म प्रार्थना से की गई एवं स्काउट गाइडों को स्टिकर प्रदान किया गया। प्लास्टिक टाइटर्नर के तहत यूज प्लास्टिक एवं क्लीन इंडिया के तहत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। वास्तव में स्काउटिंग की शुरुआत 1907 ईस्वी में की गई थी। भारत में स्काउटिंग मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के प्रयासों से 1909 ईस्वी में आई ,लेकिन भारत में अलग-अलग नामों से जाना जाता था। 7 नवंबर 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा भारत स्काउट और गाइड की स्थापना की गई।भारत स्काउट गाइड गोरखपुर द्वारा पंडित जवाहर लाल इंटर कॉलेज जैतपुर,गोरखुर में भारत स्काउट गाइड स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्काउट प्रशिक्षक अजय गुप्ता द्वारा सभी अध्यापकों को स्काउट गाइड झंडा स्टिकर लगाया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामनवल यादव, गोपाल शुक्ल,निशिकांत पांडेय, सूरज सिंह, शिवशंकर,अमर सिंह, अनिल कुमार, वीरेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

ट्यूबवेल की पाइप फटी, किसान कैसे करें सिंचाई

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। सहजनवां तहसील के पिपरौली ब्लाक के

अमटौरा गांव स्थित 2 एनजीजी सरकारी ट्यूबवेल कि पाईप विगत दो महीनों से जगह- जगह फटी हुई है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल चल नहीं पा रहा है। किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, किसान परेशान हैं तो वहीं जिम्मेदार बेखबर हैं। बताते चलें कि ग्राम सभा अमटौरा स्थित सरकारी ट्यूबवेल जिससे पिपरौली, अमटौरा गांव के सैकड़ों किसानों के खेतों कि सिंचाई होती है। इसकी पाइप करीब दो-तीन जगह फट गई है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल चल नहीं पा रहा है। जिसकी वजह से किसान खरीफ की महत्वपूर्ण फसल धान की समय से सिंचाई नहीं कर पाए जिससे उनकी धान की फसल खराब हो गई तथा अब रवी की फसल की बुवाई का समय आ गया है,किसान गेहूं कि फसल कि बुवाई कर रहे हैं,पर ट्यूबवेल खराब होने से किसान चिंतित व परेशान है कि आखिर रवि की फसल की सिंचाई कैसे होगी? आलम यह है की जिम्मेदार बेखबर व अनजान है। इस संबंध में जे ई संजय सिंह ने बताया कि पाइप फटी है, इसकी सूचना है। एक हफ्ते में इसको ठिक करवा दिया जाएगा। क्षेत्र के जय सिंह, संजय सिंह,रजनीश सिंह, अग्रसेन सिंह, भानु प्रताप सिंह, फौजी, दयाराम साहनी,खुडबुड इत्यादि ने इस समस्या से निजात की मांग की है।

सिकटिया घाट से अवैध बालू लदी ट्रेक्टर ट्राली को खनन अधिकारी ने पकड़ा

मथौली बाजार, कुशीनगर अवधनामा संवाददाता। खनन अधिकारी के लगातार छापेमारी के बावजूद अवैध बालू खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों खड्डा क्षेत्र में खनन अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से माफियाओं के हौसले पस्त हो गए। इसी क्रममें रामकोला थाना क्षेत्र से निकलने वाली छोटी गंडक नदी के सिकटिया घाट पर अवैध बालू लदी ट्रेक्टर ट्राली को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि छोटी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर रात में अवैध बालू खनन जोरों पर चल रहा है। पिछले दिनों सूचना पर हाटा तहसील प्रशासन ने एक डीसीएम बालू लदी को पकड़ थाने को सुपुर्द कर दिया। इसी क्रम में मंगलवार को सिकटिया घाट पर अवैध बालू खनन की सूचना पर खनन अधिकारी पहुंच गए। भनक लगते ही खनन माफिया भागने में कामयाब हो गए जबकि एक बालू लदी ट्रेक्टर ट्राली पकड़ लिया। जिसे थाने को सुपुर्द कर दिया। खनन अधिकारी ने गाड़ी को सीज करते हुए रामकोला थाना को दे दिया। खनन अधिकारी ने बताया की किसी भी हालत में अवैध बालू खनन नही होने दिया जायेगा।

चेयरमैन ने किया अस्थाई गौशाला का निरीक्षण

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। घघसरा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभाकर दुबे ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ नगर पंचायत स्थित अस्थाई गौशाला का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सभासदों के अतिरिक्त काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। घघसरा स्थित एक एकड़ में बनी सब्जी मंडी जो कि पूरी तरह खाली पड़ी है। उसमें अस्थाई गौशाला हेतु कैंपस तथा उसकी बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन किया गया। लोगों के लिए बनाए गए शौचालयों की मरम्मत करने की बात की गई। शासन की मंसा है कि क्षेत्र के छुट्टा पशुओं को जाड़े से बचाया जाए और उनके लिए एक ही जगह पर चारे-पानी समेत अन्य सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। इसी क्रम में जनपद के सभी नगर पंचायतों में छुट्टा पशुओं के लिए फौरी तौर पर अस्थाई गौशालाओं का अस्थाई केंद्र बनाया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभाकर दुबे ने कहा कि-भारत की पूर्ण कल्पना पशुओं की सेवा के वगैर नहीं की जा सकती है। भारतीय पशु भारत के संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। हम सभी को उनकी रक्षा व सेवा करनी चाहिए। इससे जहां पुनीत कार्य होंगा वहीं किसानों के फसलों की रक्षा भी होगी। छुट्ट उक्त अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष के अलावा अधिशासी अधिकारी आशुतोष सिंह, विनोद कुमार पांडेय, संतोष पांडेय, विनोद कुमार गुप्ता, प्रशासन कुमार, अखिलेश गुप्ता, अवधेश यादव, शिवानंद पाण्डेय,राम जनक मौर्य, हरिकेश मौर्य, राणा प्रताप, अनिल, प्रिंस दुबे, राकेश वर्मा, रामनाथ यादव समेत कई लोग मौजूद थे।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने पर सफाईकर्मी बर्खास्त

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पाण्डेय ने बताया है कि सफाईकर्मी कांति देवी को सम्यक जांचोपरांत फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने की पुष्टि होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कांति देवी द्वारा शासनादेश में उल्लिखित नियम के विरूद्ध फर्जी कागजात जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र लगाकर सफाई कर्मी की नौकरी प्राप्त करने का आपराधिक कृत्य किया गया है जिसके लिये वे पूर्ण रूप से दोषी हैं। डीपीआरओ ने बताया है कि अभिलेखानुसार कांति देवी को वेतन एवं अन्य मदों में मु0 5535323 (पचपन लाख पैंतीस हजार तीन सौ तेईस) रू0 का भुगतान किया गया है। कांति देवी को निर्देशित किया गया है कि उक्त शासकीय धनराशि जिला कोषागार, देवरिया के सम्बन्धित हेड में पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर जमा कराते हुए जमा रसीद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उनसे उक्त धनराशि की वसूली भू राजस्व की भांति कराने की कार्यवाही प्रख्यापित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व कान्ती देवी का होगा। सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड रुद्रपुर को निर्देशित किया गया है कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर कांति देवी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसकी सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

रोडवेज कर्मियों ने मांगों के समर्थन में दिया ज्ञापन

अमेठी अवधनामा संवाददाता। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को रोडवेज कर्मियों ने प्रबंध निदेशक को संबोधित एक ज्ञापन अमेठी डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि परिवहन निगम के कारोबार में निजी क्षेत्र की अनियंत्रित भागीदारी के कई निर्णय लेकर निगम के निजीकरण जैसी स्थिति उत्पन्न करने के विरोध में तथा परिवहन निगम वा इसके कर्मचारियों की सामूहिक प्रमुख मांगों की समयबद्ध पूर्ति हेतु आंदोलनात्मक नोटिस दी गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि निगम द्वारा सीधे भर्ती किए जाने की व्यवस्था को बदलकर पुनः एजेंसीयों के माध्यम से परिचालकों की भर्ती कर युवाओं का शोषण व निगम का व्यय भार बढ़ाया गया है।नियमित कर्मचारियों की भर्ती न कर आउटसोर्स के नए-नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। जिससे कर्मियों की रोजी-रोटी के समक्ष गंभीर संकट आने की स्थिति बन रही है। नियमित कर्मचारियों को 18 फीसदी कम महंगाई भत्ता भुगतान किया जा रहा है। वेतन विसंगति के प्रकरण सहित अन्य कई मांगों का हवाला ज्ञापन में दिया गया है। यह ज्ञापन स्थानीय इकाई द्वारा ए आर एम को दिया गया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष राजा बहादुर सिंह शाखा मंत्री डी एन सिंह अजीत वर्मा शीतल प्रसाद शुक्ल सूर्य भान सिंह पूरन एमपी सिंह राकेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।

सूचना प्राद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक उपकरणों ने कुम्हारों के रोजी रोटी पर पैदा किया संकट

शकील अहमद

दिपावली की तैयारियां जोरों पर

कुशीनगर (अवधनामा ब्यूरो)। दिपावली का पर्व कुछ दिन शेष रह गया है। ऐसे में लोग जहां अपने घरों की साफ-सफाई कर सजाने में लगे है वहीं पुरातन काल से चली आ रही परम्परा के तहत कुम्हार दियो को बनाने में लगे है, उनकी चाक पुरी गति से चल रही है। लेकिन कुम्हारों के इस पारम्परिक रोजी रोटी पर अब संकट के बादल मडराने लगे है क्योंकि आधुनिक युग में सूचना प्राद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक उपकरणों ने दियो की जगह अपना स्थान बना लिया है।

लोग कम लागत में पुरी सुन्दरता के साथ दियो की जगह पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे है, और मिट्टी का दिया लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। यू तो भारत वर्ष में सैकड़ों की संख्या में पर्व मनाए जाते है लेकिन दिपावली पर्व का अपना एक विशेष महत्व है। सुख, सौभाग्य, समृद्वि और अनुपम खुशियों का यह पर्व लोग बड़ी श्रद्वा और धन समृद्वि की कामना के साथ जरूर मनाते है और अपने स्वेंहीजनो को उपहार देकर गले मिलकर उनके सुखद और समृद्व जीवन की मंगलमयी कामना करते है। पुरातन काल से मिट्टी के दियो का प्रयोग लोग करते चलें आ रहे है अपने घरो, चौबारे, अटालिकाओ पर दियो की पंक्ति सजाकर प्रकाश पर्व दिपावली को बड़ी श्रद्वा पुर्वक मनाते चले आ रहे है। किसी कवि ने लिया है कि-'' दिवाली प्यारी आती है, दिवाली न्यारी आती है, दियो की पांति जलाने को, हृदय से खुशी मनाने को, दिवाली प्यारी आती है। उक्त पंक्ति से स्पष्ट है कि दिपावली जो प्रकाश पर्व है मनुष्य के जीवन मे दुख, निराशा, असफलता और दरिद्रता की घनीभुत कठोर कालिमा को मिटाकर मनुष्य के जीवन को सुख समृद्व देते हुये अपार खुशिया प्रदान कर दिपावली कें दिये उनके जीवन को अपने रश्मिमयी किरणो से जीवन को आलोकित कर देती है लेकिन युग बदला, लोग बदले और हमारे पारम्परिक रीति रिवाज भी आधुनिक युग के सुचना प्राद्योगिकी के कहर से बच नही पाये और कुम्हार जो आदि काल से मिट्ट के दिये बनाकर लोगो के घर के लिए प्रकाश पर्व मे सहयोग कर रोजी रोटी का जुगार कर लेते थे आज इनके सामने भी संकट के काले बादल भी घिर गये है। लोग मिट्टी के दिखे जलाने के बजाय आज तमाम प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण जो कम विद्युत खर्च एलईडी युक्त वस्तुओ का प्रयोग कर रहे और यहाँ तक की मोमबत्ती जैसे रोजगार पर भी संकट के बादल घिर गये है। आज कुम्हार काफी मशक्कत कर चाक पर मिट्टी के दिये बनाते है जो आधुनिक युग में इन सब उपकरणो से कुम्हार के जीवन यापन करने मे दिक्कते पैदा हो गयी है। पहले कुम्हार शिकहर बहिया बनाकर दिये और मिट्टी के खिलौने जिसमे चाकी, घंटी, कोशे आदि रखकर गांव और शहरो मे पहुंचते थे और लोगो जहाँ दिये खरीदते थे वही बच्चो के लिए उनके मनपसन्द के मिट्टी के खिलौने भी खरीदते थे लेकिन आज सब कुछ बदल गया और इस बदले परिवेश मे किसी को राहत मिली तो किसी की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया।

खाद्य सचल दल द्वारा जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर 6 नमूने किए गए संग्रहित

देवरिया अवधनामा संवाददाता। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर

प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दिवाली त्योहार के पूर्व आम जन मानस को सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए गए और 6 नमूने संग्रहित किए गए। भटवालिया चौराहा स्थित स्वागत मिष्ठान भंडार से छेना मिठाई तथा मेवा लड्डू का नमूना संग्रहित किया गया, उसके पश्चात टीम द्वारा कनक मिष्ठान भंडार के मिठाई निर्माण के कारखाने का निरीक्षण किया गया तथा वहां व्याप्त कमी हेतु सुधार सूचना की नोटिस जारी की गई एवं वहां पर संग्रहीत खोया तथा छेना मिठाई का नमूना एकत्रित किया गया, तत्पश्चात रुद्रपुर में तिवाई मोड पर जय गुरुदेव मिष्ठान भंडार की निर्माण इकाई जहां पर भट्ठियों द्वारा खोया का निर्माण होता पाया गया वहां पर भी लाल खोया का नमूना विश्लेषण हेतु एकत्रित किया गया, जनपद के शहर में स्थित स्वदगृह मिष्ठान भंडार में कारखाने का निरीक्षण कर प्रतिष्ठान में तैयार हो रही चाट का नमूना एकत्रित किया गया। उपरोक्त अभियान में कुल 25 किलो मिठाई जो मानव उपभोग हेतु नहीं थी और जिसका मूल्य लगभग 7500 था नष्ट कर दिया गया मटेरियल की गुणवत्ता का विशेष निरीक्षण किया गया, एवं किसी भी दशा में अधोमानक या बासी मिठाइयों की बिक्री न किया जाने हेतु सचेत किया गया। उपरोक्त खाद्य सचल दल में सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड II विनय कुमार सहाय, मुख्य खास सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानवेंद्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप श्रीवास्तव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम वर्मा सम्मिलित थे।

विधिक सेवा दिवस पर निकलेगी रैली

अवधनामा संवाददाता

अमेठी। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर/अमेठी ने बताया कि मा उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार 09 नवम्बर 2023 को विधिक सेवा दिवस पर विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एवं रैलियां निकाली जायेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जनपद व प्रत्येक तहसील ब्लॉक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आशा बहुओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनके स्थानीय कार्यक्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग व अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एवं रैलियां निकालने हेतु निर्देशित किया है।

जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों व शिक्षकों ने ली मतदान की शपथ

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत आज रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आज जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की उपस्थिति में सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने उपस्थित जन समुदाय एवं छात्रों को मतदान की शपथ दिलाते हुए यह कहा कि एक संजीव लोकतंत्र के लिए प्रत्येक नागरिक का मतदान करना आवश्यक है। जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण तिथियां 25 एवं 26 नवंबर 2023 तथा 2 एवं 3 दिसंबर 2023 को है।

उक्त तिथियों का सभी ग्राम सभाओं में प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण तिथियां के दिन सभी लोग बीएलओ के माध्यम से अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जांच ले एवं नाम न होने की स्थिति में नाम के पंजीकरण हेतु आवेदन कर दें।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में समस्त ब्लॉक में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं समस्त विद्यालयों पर प्रत्येक शनिवार को चुनाव पाठशाला का आयोजन एवं विशेष पुनरीक्षण तिथियों के एक दिन पूर्व ग्राम सभा में रैली निकाली जायेगी।

कार्यक्रम में समस्त ब्लाकों के खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक डॉ आलोक पांडेय, स्वीप कोऑर्डिनेटर आशुतोष नाथ तिवारी, जिला जिला व्यायाम शिक्षक संजय सिंह, जयशिव प्रताप चंद, जिला स्काउट मास्टर संजय मिश्र, स्तुति पांडेय, आशुतोष शाह, विवेक मिश्र, शशांक, प्रमोद कुशवाहा प्रियंका यादव आदि उपस्थित रहे।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है: डॉ मनीषा

प्रद्युम्न बने राजनीति विज्ञान परिषद के अध्यक्ष

अमेठी अवधनामा संवाददाता। नगर स्थित रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता विषय पर एक दिवसीय सेमिनार एवं लोकतांत्रिक ढंग से राजनीति विज्ञान परिषद का गठन किया गया। राजनीति विज्ञान परिषद का गठन सामान्य निर्वाचन द्वारा मुख्य अतिथि एवं मुख्य चुनाव अधिकारी समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ धनन्जय सिंह के दिशा निर्देशन में हुआ। जिसमें 182 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। मतदान द्वारा अध्यक्ष पद पर प्रद्युम्न कुमार पांडेय उपाध्यक्ष पद पर रेखा मौर्य सचिव पद पर सुभाषचंद्र यादव संयुक्तसचिव पद पर श्रद्धा मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष पद पर पूजा अग्रहरि निर्वाचित हुई। निर्वाचन से पूर्व आयोजित संगोष्ठी में अतिथियों का स्वागत करते हुए राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ मनीषा सिंह ने कहा आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्राचार्य प्रोफेसर पी के श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान करते समय हमें किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। डॉ धनन्जय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में मत की कीमत अमूल्य है। हमें एक एक मत की कीमत समझनी चाहिए।आज हम मतदान द्वारा भ्रष्टाचार अपराध एवं जातिवाद से मुक्त समाज बना सकते हैं। सभी के प्रति आभार आशीष कुमार शुक्ल ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रो आशा गुप्ता अजीत कुमार उपाध्याय आदि शिक्षक छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा तनु शर्मा ने किया। प्राचार्य प्रोफेसर पी के श्रीवास्तव ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

निराश्रित गौ संरक्षण विशेष अभियान की समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी ने की बैठक

अवधनामा संवाददाता

अस्थायी गौआश्रय स्थल परसेण्डी का किया निरीक्षण

बहराइच। शासन के निर्देष के क्रम में 01 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक संचालित किये जा रहे 60 दिवसीय निराश्रित गौ संरक्षण विशेष अभियान के क्रियान्वयन का जायज़ा लेने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी प्रबन्ध निदेशक पी.सी.डी.एफ. आनन्द कुमार सिंह ने 01 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में विशेष अभियान की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि अभियान के दौरान कोई भी निराश्रित गौवंश गौ आश्रय स्थल के बाहर न रहने पायें। श्री सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान राष्ट्रीय व राज्यीय तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर स्वच्छन्द विचरण करने वाले गौवंशों को गौआश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाय।

नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि गौआश्रय स्थलों में शासन की मंशानुरूप चारे, पानी, उपचार, छाया इत्यादि के माकूल बन्दोबस्त किये जाये तथा शरद ऋतु को देखते हुए संरक्षित गौवंशों के बचाव के आश्रय स्थलों में बाड़ों में पर्दे लगाये जाये तथा पशुओं के टाट कोट भी उपलब्ध कराये जाये। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि भरण पोषण धनराशि के भुगतान की कार्यवाही को ससमय पूर्ण की जाय। श्री सिंह ने यह भी सुझाव दिया गौआश्रय स्थलों में नर व मादा पशुओं को अलग-अलग बाड़ों में रखा जाय। नोडल अधिकारी ने यह भी सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधियों से भी समय-समय पर गौशालाओं का निरीक्षण कराया जाय। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की ओर से प्राप्त होने वाले सुझावों पर अमल करते हुए गौवंशों के संरक्षण में उनका भी सहयोग प्राप्त करें। नोडल अधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि गौशालाओं के आस-पास स्थित रिक्त भूमि का चिन्हाकन कर हरे चारे के प्रबन्ध हेतु लैण्ड बैंक बनाया जाय। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., उप जिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित, पयागपुर के दिनेश कुमार, नानपारा के अजित परेश, महसी के राकेश कुमार मौर्या, मोतीपुर के संजय कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ईओ बहराइच प्रमिता सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, डिप्टी सीवीओ व पशु चिकित्साधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि बैठक से पूर्व नोडल अधिकारी श्री सिंह ने इससे पूर्व विकास खण्ड कैसरगंज में संचालित अस्थायी गौआश्रय स्थल परसेण्डी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हुए संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि गौशाला में कुल 479 गौवंश संरक्षित हैं जिसमें 299 नर व 180 मादा हैं। नोडल अधिकारी श्री सिंह ने गौवंशों का गुड़, फल व चारा खिलाकर गौसेवा भी की।

पत्रकारों एवं उनके परिजनों पर फर्जी मुकदमे हों वापिस

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वावधान में पत्रकारों एवं उनके परिजनों पर फर्जी मुकदमे दर्ज होने से आक्रोशित ग्रापए ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रापए के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार द्विवेदी ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ललितपुर तहसील उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के पिताजी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा पर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिसकी जांच कर उसे खारिज किया जाए। इसके अलावा पत्रकार शिवेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया पर षड्यंत्र रचकर झूठे मामले में फंसाया गया है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों एवं उनके परिजनों पर फर्जी मुकदमे खारिज नहीं हुए तो गापए आन्दोलन को बाध्य होगा। वहीं उन्होंने गल्ला मंडी में अवैध तरीके से निर्माण हो रही दुकानों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार शालिगराम पाण्डेय, धर्मेंद्र सिंह, शंकरलाल, लखन लाल आदि मौजूद रहे।

शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा सुल्तानपुर का धरना तिकोनिया पार्क में हुआ

अवधनामा संवाददाता

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त मोर्चा सुल्तानपुर के आह्वान पर जनपद के अशासकीय विद्यालय में कार्य शिक्षकों ने तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को वापस लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को पुनर्स्थापित कर इसकी धारा 21 धारा 18 व धारा12 को सेवा सुरक्षा तथा सेवा शर्तों को बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, मानदेय व आउटसोर्सिंग नियुक्तियां तथा जन शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाते हुए सभी माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय कारण किया जाए।संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक शिवनंदन यादव ने जिले के सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा वेतन वितरण अधिनियम कमजोर किया जा रहा जिसके कमजोर होने से हम सभी शिक्षक साथियों का भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे असुरक्षित तनावपूर्ण माहौल में हम एक अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं। इसके लिए सभी शिक्षक साथियों और प्रदेश के उच्च अधिकारियों को चिंतन मनन करना होगा।सोम महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश ने शिक्षकों को एक होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। साथ ही साथ अपने सेवा के कटु अनुभवों को बताया।जिला संयोजक डॉ अजय कुमार सिंह ने में बताया की जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की कार्यशैली अत्यंत असंतोष जनक है। सन 2019 से लंबित प्रकरण एनपीएस का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के जिलामंत्री सुरेंद्र वर्मा ने शिक्षकों की वर्तमान समस्या पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुटीय विभाजन को छोड़कर शिक्षकों को संघर्ष करना होगा तभी कार्यालयों में हो रहे शिक्षकों का शोषण और उत्पीड़न बंद किया जा सकता है।

पुरातात्विक, नैसर्गिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ललितपुर धनी

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। जनपद में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में पर्यटन निदेशालय लखनऊ की दो सदस्यीय टीम के प्रस्तुतकर्ता सुश्री प्रियंका दत्ता एवं सुधान्शु पाण्डेय द्वारा पर्यटन नीति 2022 सम्बंधी वृहद प्रजेन्टेशन कलैक्ट्रेट सभागार में प्रस्तुत किया गया। पर्यटन निदेशालय की टीम द्वारा जनपद के उद्योग विभाग के अधिकारी एवं उद्यमियों को पर्यटन नीति 2022 के सम्बंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटकों हेतु बेहतर आतिथ्य सत्कार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन के बहुमुखी विकास हेतु नवीन उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गयी है। पर्यटन नीति 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमीयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन, लाभ, छूट एवं अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। टीम के द्वारा पर्यटन नीति में वर्णित राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित किये जाने हेतु पर्यटन उत्पादों, आयोजनों, और राज्य के अल्पतर सेवित गंतव्यों का वैश्विक स्तर पर विपणन और प्रोत्साहन किया जाना, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारणों की तरफ आकर्षित करना, युवा पर्यटन क्लबों को देश में उत्तरदायी और सतत पर्यटन विकसित करने के साधन के रूप में चिन्हित किया गया है।

स्काउट गाइड स्थापना दिवस पर डीएम ने दी बधाई

स्काउट गाइड का 73 वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया

अवधनामा संवाददाता

सुल्तानपुर। भारत स्काउट गाइड ने 73 स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया।इस अवसर पर जनपद की जिलाधिकारी/ जिला संस्था की अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक को स्थापना दिवस का झंडा लगाया गया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना द्वारा सभी को शुभकामनाएं देते हुए हमेशा सेवा की भावना को जागृत रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया।उपस्थित सभी पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया गया।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी स्थापना दिवस का झंडा लगाया गया। जिला मुख्यआयुक्त/ जिला विद्यालय निरीक्षक रवि शंकर, सह- जिला विद्यालय निरीक्षक जटाशंकर, जिला कमिश्नर डॉ दिनेश प्रताप सिंह, अनुपम श्रीवास्तव, जिला सचिव डॉ गुलाब सिंह ने भी स्काउट गाइड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त की।जिला संस्था के मुख्य आयुक्त जिला/ विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस मौके पर किरन देवी ए0एल0 टी0, जिला प्रशिक्षण आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिला गाइड कैप्टन ज्योति सिंह, जिला संगठन आयुक्त गौरव सिंह, कांति सिंह,शशांक यादव जिला संगठन आयुक्त अमेठी, ट्रेनिंग काउंसलर महेंद्र वर्मा, इंद्र कुमार, आदर्श शुक्ला,मनीषा वर्मा, सुमित कुमार सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए बेसिक एडवांस कोर्स,स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन का प्रशिक्षण ले रहे सभी प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

बिना लाइसेंस के 06 ई रिक्शा चालकों का चालान

सुल्तानपुर। शहर में जाम की समस्या से निपटने व आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए जिला सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नंद कुमार ने चेकिंग अभियान चला कर 6 ई रिक्शा वाहनों का चालान किया। मीडिया की एक मुलाकात में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नंद कुमार ने बताया कि शहर में ई रिक्शा चालकों की बाढ आ गयी है। टी एस आई की संयुक्त टीम बनाकर ई-रिक्शा ड्राइवर व प्रपत्र देखा गया। नाबालिक बच्चों द्वारा ई रिक्शा का संचालन शहर में देख चालकों से लाइसेंस देखा गया। नाबालिक चालक बिना प्रपत्र के भी शहर में फर्राटेदार तेज रिक्शा का संचालन कर रहे हैं। इसी के साथ चलाए गए अभियान के तहत 06 नाबालिक गैर लाइसेंसी चालक के ई रिक्शा का चालान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह चालक दूर दराज क्षेत्रों से शहर में प्रवेश कर जाम को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके खिलाफ शक्ति से निपटने के लिए अभियान शुरू रहेगा।

अति निर्धन 15 परिवारों को मिले नए राशन कार्ड

सुल्तानपुर। शहर के अति निर्धन परिवारों का आपूर्ति विभाग ने चिन्हीकरण किया है। योगी सरकार की मंशा को सफल बनाते हुए 15 ऐसे परिवार को राशन कार्ड जारी किए गए हैं । आपूर्ति विभाग में जिलापूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य की तरफ से इन महिला पुरुष लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं । राशन कार्ड धारकों के इन निर्धन परिवार के इन उपभोक्ताओं के चेहरे खिले हुए देखे गए। इन सभी ने जिला पूर्व अधिकारी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

अवैध शराब पर अकुंश के लिए टोलफी नम्बर जारी

बहराइच। जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं संचरण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद वासियों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं संचरण के सम्बंध में जिला आबकारी अधिकारी के मो. नं 9454465643, आबकारी निरीक्षण सदर बहराइच मो. नं 9454466250, नानपारा मो. नं 9454466251, महसी मो. नं 8585906474, कैसरगंज मो. नं 9795732838, पयागपुर मो. नं 9721172567 व मिहीपुरवा (मोतीपुर) मो. नं 9807585394 को सूचित कर सकते है। इसके अलावा सम्बन्धित थाने में भी सूचित कर सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गुप्त रखा जायेगा।

टीकमगढ़ प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के निर्देश

ललितपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2023 में विधानसभा निर्वाचन संख्या क्षेत्र 43 टीकमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय यादव (शील) के चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष विजय सिंह यादव (प्रतिनिधि-स्नातक विधायक इलाहाबाद क्षेत्र) को अपनी टीम के साथ जाकर सहयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। बताया गया है कि उपरोक्त प्रभारियों से यह भी आह्वान किया गया है कि तत्काल आवंटित विधानसभा में पहुँच कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जितने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान प्रदान करें। यह भी निर्देश है कि प्रभारी किसी भी हाल में अपनी विधानसभा से दूसरी विधानसभा में नहीं जायेंगे, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश न हो।

सत्ताईस नवम्बर को मनाया जाएगा श्रीगुरु नानक देवजी का प्रकाश पर्व

ललितपुर। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह सलूजा ने बताया की श्रीगुरु नानक देवजी महाराज का प्रकाश पर्व जो की 27 नवंबर को गुरुद्वारा साहिब लक्ष्मीपुर में बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ मनाया जाएगा। इसके संबंध में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें 16 से 22 नवम्बर तक सुबह 7 बजे से स्त्री साध संगत द्वारा श्रीनितनेम साहिबजी के पाठ होंगे। उपरांत प्रति दिन चाय नाश्ते के लंगर की सेवा भी प्रति दिन होगी। 23 नवंबर वा 24 नवंबर को प्रभात फेरी सुबह 5.30 बजे गुरुद्वारा लक्ष्मीपुरा से आरंभ होगी, जो नगर भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा साहिब में ही समापन होगा। 23 नवंबर से अखंड पाठ साहिबजी की आरंभता होगी। 25 नवंबर को निशान साहिबजी के चोले की सेवा भी होगी। 25 से 27 नवंबर तक दोनों टाइम दिल्ली से पधार रहे संत मनी सिंहजी सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक व शाम को 7 बजे से 8.30 बजे तक अपने जत्थे के साथ कथा वा गुरबाणी कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करे।

कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है: सांसद बृजभूषण

गोनार्द लान में आयोजित हुआ मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह

अवधनामा संवाददाता

बहराइच। गोनार्द लान बहराइच में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 में जिले के यूपी बोर्ड एवं सीबीएससी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्र-छात्राओं तथा समारोह में अपने अनुभव साझा करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जबकि कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यह तैयारी का समय है। आपका कोई सपना होगा और आपके माता-पिता का भी आपके उज्जवल भविष्य के प्रति कोई सपना होगा। इसके अलावा आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी आपके हाथ में है। श्री सिंह ने भी अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि अपनी क्षमता का स्वयं आकलन करें कुछ भी असंभव नही है। आपके अन्दर भी प्रतिभा की कमी नही है, दृढ़ ईच्छा शक्ति से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अच्छी संगत और सकारात्मक सोच के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत व लगन से आगे बढ़े निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।

सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को मेधावियों के साथ साझा करते हुए कहा कि कोई छोटा-बड़ा नही होता है प्रतिभा सभी के अन्दर होती है। लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कठिन परिश्रम व लगन से शिक्षा ग्रहण कर मनचाहा मुकाम हासिल किया जा सकता है। डीएम व एसपी ने कहा कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता के लिए कोई भी शार्टकट नहीं होता है।

कार्यालय नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा, जनपद- अयोध्या

पत्रांक :- 445/न.पं.भ./रा.वि.आ. 2023-24/सूखी लकड़ी व गौशाला/2023 दिनांक : 06 नवम्बर 2023

अत्यल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों एवं जी0एस0टी0 पंजीयनधारक लकड़ी आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग 2023-24 के अन्तगर्त कराये जाने वाले निम्नांकित कार्यो हेतु दिनांकः 22 नवम्बर 2023 को अपरान्ह 03:00 बजे तक सीलबन्द निविदाऐं कार्यालय नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा में रखे सीलबंद निविदा बॉक्स में आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 03:30 बजे निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र की बिक्री न0पं0 कार्यालय में दिनांकः 20 नवम्बर 2023 को सायं 4:00 बजे तक नगद मूल्य पर की जायेगी। उपरोक्त तिथियों में अवकाश की दशा में निविदा की बिक्री एवं प्राप्ति अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

क्र.	कार्य का विवरण	आगणन धनराशि	निविदा मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य अवधि
1	नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा, जनपद- अयोध्या के विभिन्न वार्डो एवं स्थलों में भिन्न-भिन्न जगहों पर जलावनी लकड़ी डालकर अलाव जलाने का कार्य।	9,38,400.00	1000.00	93,840.00	03 माह
2	नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा में राजेपुर गौशाला पर भूसा घर/चारा मशीन कक्ष/फर्श, रबरमोल्ड इण्टरलांकिग, सोलिंग तथा नाली व कवर्ड का कार्य।	8,76,479.00	900.00	87,648.00	01 माह

मुख्य शर्तेः-

1. निविदा के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित 100/- रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र व 100/-रू0 के स्टाम्प पेपर पर 1/-रू0 का रसीदी टिकट चस्पा कर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ आगणन धनराशि का 10 प्रतिशत की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 /टी0डी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य है।
3. उपरोक्त आपूर्ति कार्य नियत समय में ही करना अनिवार्य है।
4. क्र0 1 पर अंकित कार्य में सूखी लकड़ी की आपूर्ति की मात्रा घट अथवा बढ़ सकती है तथा यदि आपूर्तिकर्ता सूखी लकड़ी की आपूर्ति नहीं करता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार की होगी तथा जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
6. कार्य संतोषजनक होने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान किया जायगेा।
7. अन्य शर्तो व प्राक्कलन सम्बन्धित जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यि दवस में की जा सकती है।

(इन्द्र प्रताप)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा
अयोध्या

(मो. राशिद)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा
अयोध्या

पूर्वोत्तर रेलवे ई–ऑक्शन नोटिस सं0 25/2023

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा0), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु आईआरईपीएस के ई–ऑक्शनिंग के माध्यम से ई–ऑक्शन आमंत्रित की जाती है–

क्र0 सं0	लाटा सं	कार्य का विवरण
1	PARKING-LJN-KMP-MX-99-23-1 (Parking- Mixed)	कमलापुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित संयुक्त पार्किंग (साईकिल, मोटर साईकिल, तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का ठेका 03 वर्ष हेतु
2	PARKING-LJN-AA-MX-95-23-2 (Parking - Mixed)	अटरिया स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित संयुक्त पार्किंग (साईकिल, मोटर साईकिल, तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का ठेका 03 वर्ष हेतु
3	PARKING-LJN-TSF-MX-101-23-2 (Parking-Mixed)	तहसील फतेहपुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित संयुक्त पार्किंग (साईकिल, मोटर साईकिल, तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का ठेका 03 वर्ष हेतु
4	PARKING-LJN-BVN-MX-97-23-1 (Parking-Mixed)	बिसवां स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित संयुक्त पार्किंग (साईकिल, मोटर साईकिल, तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का ठेका 03 वर्ष हेतु
5	PARKING-LJN-MMB-MX-100-23-2 (Parking-Mixed)	महमूदाबाद अवध स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित संयुक्त पार्किंग (साईकिल, मोटर साईकिल, तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का ठेका 03 वर्ष हेतु
6	PARKING-LJN-KB-MX-98-23-1 (Parking - Mixed)	खैराबाद अवध स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित संयुक्त पार्किंग (साईकिल, मोटर साईकिल, तीन पहिया, चार पहिया वाहन) का ठेका 03 वर्ष हेतु

निविदाकार प्रकाशित सूचना के अनुसार ई–ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। **ireps** पोर्टल पर दिये गये तिथि/समय के अनुसार सभी लॉट की ई–ऑक्शन प्रारम्भ एवं बंद होंगी। सभी लॉट के लिये ई–ऑक्शन दि0–24-11-2023, 12.00 बजे प्रारंभ होकर 24-11-2023, 13.20 बजे बंद होगी। इस ऑक्शन के लिये मैनुअल माध्यम से कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि मैनुअल माध्यम से कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। अर्नेस्ट मनी की राशि (5%) का भुगतान केवल IREPS पॉर्टल पर ठेकेदार द्वारा लिंक किये गये बैंक खाते से किया जायेगा। मैनुअल विधि जैसे–डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, एफडीआर, जमा रसीद आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नहीं होगी। विज्ञप्ति सूचना एंव निविदा प्रपत्र प्रारूप तथा, नियम व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in (E-Auction module)** पर उपलब्ध है।

मुजाधि/वाणिज्य–172 मंडल रेल प्रबन्धक(वा0) लखनऊ

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

आज़ादी का अमृत महोत्सव **उत्तर रेलवे**

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य अभियन्ता/सेतु कर्मशाला, उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर निम्नलिखित कार्य हेतु अनुभवी एवं स्थापित सक्षम ठेकेदारों द्वारा ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा सं०	18/डब्ल्यू/बीडब्ल्यूएस/सीबी/एल.के.ओ./2023–24
कार्य का नाम	लखनऊ मंडल के अंतर्गत एक्स.ई.एन. ब्रिज लाइन लखनऊ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुल सं. 320(4x30.5m), 391 (1x18.3m), 416(6x18.3m), 429A(3x18.3m) & 484(1x12.2m), Br No. 15UP & DN(2x12.2m), 16 DN(1x12.2m), 22A(3x12.2m), 23DN (1x12.2m+1x9.15m), 32UP & DN (2x6x18.3m), 205 (12x18.3m) and 206(1x18.3m) के कोरोडेड/छिद्रित ब्रेसिंग, गसेट प्लेट, क्रॉस फ्रेम, टॉप फ्लैंज एंगल और अन्य सदस्यों का लूज रिवेट सहित बदलाव और पुल संख्या 24 (एन.ई.आर.)/डाउन लाइन के प्रोटेक्शन शीट का बदलाव, विभिनन गर्डर पुलों के लिए प्रोटेक्शन निरीक्षण की व्यवस्था जैसे कि निरीक्षण प्लेटफॉर्म, स्टम्प/अबटमेंट पर स्टील सीढ़ी तथा बियरिंग के आयलिंग तथा ग्रीसिंग के लिए गर्डर लिफ्टिंग ब्रैकेट का कार्य। (कुल 33 ब्रिज) और विभिन्न प्रकार के पुल के मरम्मत कार्य सहित स्टील ब्रिज गर्डर और अन्य स्टील संरचना के पेन्टिंग का कार्य।
अनुमानित लागत	₹17,06,80,998.97 / बोली सुरक्षा राशि ₹10,03,400/-
कार्य की समापन अवधि	स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से 12 माह
निविदा डालने की प्रारंभिक तिथि	14.11.2023
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं निविदा खुलने की तिथि तथा समय	निविदा 28.11.2023 को 15:00 बजे तक जमा किए जा सकेंगे एवं निविदा उसी दिन खोली जाएगी।

न्यूनतम पात्रता की शर्तें

अ) तकनीकी	(ए) निविदाकार ने पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा या पर्याप्त रूप से पूरा किया हो, जिस महीने में निविदा आमंत्रित की गई थी, उससे पहले के महीने के अंतिम दिन को समाप्त करना होगा। तीन समान कार्य जिनकी लागत, निविदा की विज्ञापित मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो। **या** दो समान कार्य जिनकी लागत, निविदा की विज्ञापित मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो। **या** एक समान कार्य की लागत, निविदा के विज्ञापित मूल्य के 60 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
ब) वित्तीय	निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार V/N (वी/एन) या 'V' (वी) जो भी कम होय जहां V (वी) = निविदा की विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में। N (एन) = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल संविदात्मक भुगतान के औसत के रूप में की जाएगी, लेखा परीक्षित बैलेन्स शीट के अनुसार। तथापि, यदि पिछले वर्ष का तुलन–पत्र अभी तक तैयार/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित तुलन–पत्र पर विचार किया जाएगा।
एक समान कार्य	मौजूदा स्टील गर्डर पुलों पर साइड पाथवे एवं ट्रॉली रिफ्यूजस का फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन **या** रेलवे स्टील गर्डर पुल का फेब्रीकेशन/रिपेयर।
वेबसाइट का विवरण एवं कार्यालय का नाम जहां निविदा का विवरण देखा जा सकता है	www.ireps.gov.in कार्यालय उप मुख्य अभियन्ता/से० कर्म०, उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ।

नोटः 1. ठेकेदारों को ई–निविदा सिस्टम में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। 2. समस्त नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती हैं। 3. मैनुअल निविदायें स्वीकृत नहीं की जाएंगी। 4. निविदा प्रपत्र की लागत जो निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट किया गया है। 5. बोली सुरक्षा राशि का भुगतान सिर्फ नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे या बैंक गारंटी जैसा कि निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट किया गया है, द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

निविदा सू० सं० : 18/डब्ल्यू/बी०डब्ल्यू०एस०/सी०बी०/2023–24
दिनांकः 04.11.2023 3471/2023

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दो पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने हेतु जागरूक किया जाए तथा समझाने के बावजूद भी हेलमेट न लगाने वालों पर प्रवर्तनीय कार्रवाई की जाए। कहा कि जनपद की मुख्य सड़कों के आबादी भागों में ,चौराहों पर सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। आबादी क्षेत्र में ,तीव्र मोड़ो पर रिफ्लेक्टर एवं अन्य सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाए। गोल्डन आवर में पीएनसी द्वारा एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सड़कों पर से अवैध अतिक्रमण/ अवैध पार्किंग हटाए जाने हेतु प्रवर्तनीय कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों में छात्र छात्राओं को लाने - ले जाने वाले विद्यालय द्वारा अनुबंधित वाहन नियमानुसार पूर्णतया फिट होना चाहिए तथा उसमे सभी वैध प्रपत्र होने चाहिए। अनफिट / गैर मानक वाले वाहन किसी भी दशा में सड़को पर नहीं चलने चाहिए। कहा कि दुर्घटना बाहुल्य स्थलों/हॉट स्पॉट का चिन्हांकन कर वहां पर जरूरी यातायात संकेतक , साइन बोर्ड आदि लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सड़क सुरक्षा हेतु अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें तथा दुर्घटना पूर्व ,दुर्घटना होने पर तथा दुर्घटना पश्चात उससे निपटने की कार्ययोजना तैयार कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि ओवरलोड वाहनों तथा अनफिट वाहनों पर लगातार प्रवर्तनीय कार्रवाई की जाय। कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सभी विभागों द्वारा समेकित प्रयास किए जाएं। बड़ी संख्या में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण मिश्रा, एआरटीओ, सीओ ट्रैफिक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।

धन्वंतरि जयंती को अष्टम आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा

हमीरपुर। आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि की स्मृति में दिनाँक 10 नवंबर 2023 को जनपद में अष्टम आयुर्वेद दिवस आयोजित किए जाने के संबंध में एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अष्टम आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने तथा जन आरोग्य को सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए समुचित प्रचार प्रसार किया जाए। जागरूकता कैंपों का आयोजन किया जाए। हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाकर सफल बनाया जाए। विद्यालयों/ महाविद्यालय में छात्र छात्राओ को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जाए। आयुर्वेद के प्रति मन मस्तिष्क में सकारात्मक भाव विकसित किए जाने हेतु चित्रकारी प्रतियोगिता एवं विभिन्न नवाचारों पर प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

नि:शुल्क कोचिंग का शुभारम्भ

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/अनपरा। हिण्डाल्को रेनूसागर द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत कृष्णनगर (गरबन्धा) में कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग सेन्टर का शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत निकटवर्ती क्षेत्र गरबन्धा मे उच्च शिक्षा के माध्यम से बच्चो के उज्जवल भविष्य हेतु विज्ञान एवं गणित जैसे विषय मे आने वाली समस्याओं के निदान व अनवरन्त शिक्षा प्राप्त करने के लिये निःशुल्क कोचिंग सेन्टर का शुभारम्भ किया गया। इसके पूर्व नगरपंचायत गरबन्धा में मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करके बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वप्रधान मुन्ना जायसवाल व गणमान्य सदस्यों ने हिण्डाल्को रेनूसागर की इस पहल को नेक कार्य बताते हुए इसकी सराहना की। इस अवसर पर हिण्डालको रेनूसागर के सी एच पी प्रमुख आशुतोष सिंह व एरियल रोपवे के अधिकारी कुंज बिहारी दुबे सभी बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा यह कोचिंग सेन्टर जहाँ एक ओर सभी बच्चों को विज्ञान व गणित मे पढ़ने मे सहयोग करेगा वही दूसरी ओर कमजोर बच्चो के लिये मददगार सिद्ध होगा।

संक्षिप्त समाचार

ट्रैक्टर-ट्रॉली और एंबुलेंस मे टक्कर, दो भाइयों सहित तीन की मौत

शाहजहांपुर। जनपदके लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर नगरिया मोड़ के आगे ट्रैक्टर-ट्रॉली और एंबुलेंस की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक और दो सगे भाइयों की मौत हो गई। एक युवक घायल हुआ है। बताते हैं कि एंबुलेंस चालक गलत दिशा में आ गया था। आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर निवासी राजकुमार (40) ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते थे। सोमवार सुबह ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने के लिए तिलहर गए थे। उनके साथ भांजा अंकित (22) और अमरदीप (30) और छोटेलाल था। देर रात वे लौट रहे थे। नगरिया मोड़ के आगे सामने से आई एंबुलेंस से ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। हादसे में राजकुमार की मौके पर मौत हो गई। जबकि उनके भांजे अंकित और अमरदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी भी मौत हो गई। छोटेलाल को भी चोट आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है।

राजमाता भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किये गए डॉ. पुनीत

शाहजहांपुर। एच.आर.एस. श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया फाउंडेशन, की ओर से वाई.डब्लू.सी.ए. कांस्टेंट हाल, नई दिल्ली में राजमाता भारत गौरव अवॉर्ड 2023 पुरुस्कार से डॉ. पुनीत मनीषी को राज्यसभा सदस्य नरसिम्हा राव अर्जुन अवार्ड अशोक ध्यानचंद महामंडलेश्वर योगी हितेश्वरनाथ, पदम जितेंद्र सिंह राठी ने सम्मानित किया। डॉ. पुनीत मनीषी ने कहा कि माता-पिता व गुरुजनों के मार्गदर्शन व आशीर्वाद का प्रतिफल है कि यह पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि राजमाता भारत गौरव अवॉर्ड खेल, कला, साहित्य, समाजसेवी, दिव्यांगजन, शासकीय सेवा से जुड़ी करीब करीब 50 विभूतियो को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। डॉ. पुनीत मनीषी की इस उपलब्धि पर क्षेत्राधिकार यातायात जगदीश लाल टम्टा, चंद किरण यादव, सत्येंद्र दीक्षित, डॉ. गौरव कौशल, हरगोविंद मोदी, ओंकार मनीषी, नेहा मनीषी, उर्वशी श्रीवास्तव, ऐशान्या मनीषी,डॉ. स्वप्निल यादव, अजय पाल, फुटबॉल कोच पंकज सक्सेना, नरेंद्र त्यागी, विनय गुप्ता, डॉ.अनुराग अग्रवाल, ने हर्ष व्यक्त किया है।

खाद की बोरियों में दबकर बच्चे की मौत

शाहजहांपुर। जनपद के पुवायां में घर में खेलते समय सोमवार देर शाम खाद की बोरियों में दबकर चार साल के बच्चे की मौत हो गई। इससे परिजनों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। गांव जेबां निवासी रक्षपाल की चक्की और स्पेलर आदि गांव में ही लगा है। पास में ही रक्षपाल के भाई सत्यपाल खाद की दुकान संचालित करते हैं। बुआई सीजन चलने की वजह से इस वक्त घर में खाद का काफी स्टॉक लगा हुआ है। सोमवार रात रक्षपाल का चार वर्षीय पुत्र लव खेलते-खेलते खाद की बोरियों के पास पहुंच गया। इस बीच झटका लगने से चट्टों में लगीं खाद की बोरियां उसके ऊपर गिर पड़ीं और लव बोरियों के नीचे दब गया। जानकारी होने पर परिजनों ने बोरियां हटाकर परिजन लव को डॉक्टर के पास ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में बच्चे की मौत की जानकारी पाकर गांव के तमाम लोग रक्षपाल के घर पहुंचे और दुखी परिवार को सांत्वना दी। रक्षपाल का एक और आठ वर्षीय पुत्र माधव है।

सरकारी अस्पताल में बैड दान कर फल बांटे

मौदहा हमीरपुर। कस्बे के सरकारी अस्पताल में बीजेपी नेताओं ने एक बैड दान कर मरीजों को फल वितरित किए इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष और उपजिलाधिकारी भी मौजूद रहे। कस्बे के बीजेपी नेताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौदहा में एक बैड दान कर मरीजों को फल वितरण किए इस दौरान उपजिलाधिकारी राजेश कुमार, सीएचसी अधीक्षक डा.रजत रंजन तिवारी,बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील पाठक, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी, आशीष सिंह, कौशलेंद्र सिंह, अनूप सिंह, प्रहलाद सिंह, गुड्डू सिंह, अनीस कुरेशी, निर्भय प्रजापति सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे।बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने बताया कि वह अपने संगठन के लोगों के साथ सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी स्तर के लोगों तक पहुंचे।

10 नवंबर को बंद रहेगा रेलवे फाटक

सुमेरपुर (हमीरपुर) देवगांव पत्योरा मार्ग पर बना रेलवे फाटक संख्या 41 आगामी 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मरम्मत कार्य के चलते बंद रखा जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के सीनियर सेक्टर इंजीनियर हरिशंकर साहू ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में अवगत कराया है कि देवगांव से पत्योरा तक जाने वाली सड़क में बना रेलवे फाटक संख्या 41 में मरम्मत कार्य होने के कारण 10 नवंबर को बंद रहेगा। और आवागमन के लिए भमौरा होकर फाटक संख्या 40 खुला रखा जाएगा।

सीसीटीवी निगरानी कक्ष का किया गया उद्घाटन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/बीजपुर। एनटीपीसी रिहंद में अत्याधुनिक एकीकृत टाउनशिप सीसीटीवी निगरानी कक्ष का उद्घाटन परियोजना प्रमुख (रिहंद) पंकज मेदीरत्ता द्वारा दिनांक 07.11.2023 को किया गया।

यह आयोजन सुरक्षा को बढ़ाने और टाउनशिप के भीतर कर्मचारियों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक मील का पत्थर साबित होगा।

एकीकृत टाउनशिप सीसीटीवी निगरानी कक्ष एक व्यापक सुरक्षा समाधान है जिसमें उन्नत निगरानी तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण और एक उच्च कुशल निगरानी टीम शामिल है। यह कक्ष एनटीपीसी रिहंद टाउनशिप में सुरक्षा को मजबूत करेगी, जिसमें आवासीय क्षेत्र, मनोरंजक स्थान, कार्यालय, परियोजना के सभी द्वार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल होंगे।

एकीकृत टाउनशिप सीसीटीवी निगरानी कक्ष की मुख्य विशेषताओं में उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे शामिल है जो पूरे टाउनशिप में रणनीतिक रूप से लगाए गए कैमरों का एक नेटवर्क है जो व्यापक कवरेज सुनिश्चित करेगा, जिससे वास्तविक समय की निगरानी और घटनाओं की रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही यह सिस्टम 24/7 किसी भी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और अधिकारियों को सचेत करने में कारगर साबित होगा जिससे संभावित सुरक्षा खतरों पर जल्द से जल्द प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। रिकॉर्ड किए गए फुटेज को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा और जांच या अनुपालन उद्देश्यों के लिए पुनः इस्तेमाल किया जाएगा।

एनटीपीसी रिहंद के परियोजना प्रमुख ने टाउनशिप के भीतर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे कर्मचारियों, निवासियों की भलाई और टाउनशिप की समग्र सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सीसीटीवी सुरक्षा बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और नवीनतम तकनीके हमारी सुरक्षा में हितकारी साबित होंगी।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाप्रबंधक (परियोजना) पीबी परांजपे, महाप्रबंधक (प्रचालन) एसके श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (अनुरक्षण) आरएन सिन्हा, महाप्रबंधक (एडीएम) एसएस प्रधान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (रिहंद) डॉ. मोनिषा किलश्रेष्ठा, अपर महाप्रबंधक (मा0 सं0) जाकिर खान, अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) दीपक कुमार त्रिपाठी, विभागाध्यक्षगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विभिन्न यूनियन व एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित रहे।

चेयरमैन व ईओ ने छठ घाट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

सोनभद्र/चोपन। लोक आस्था के महा-पर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। छठ घाट पर छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए घाटों की साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को चेयरमैन उस्मान अली व अधिशाषी अधिकारी देवहूति पांडेय ने छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान चेयरमैन उस्मान अली ने बताया कि छठ घाट पर पिछले एक हफ्ते से साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। छठ घाट पर आने वाली ब्रती महिलाओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। घाटों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह लोक आस्था का महापर्व है। छठ घाटों पर छठव्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए अभी से ही सभी तैयारी की जा रही है।

एनटीपीसी विंध्याचल में एनटीपीसी-स्थापना दिवस समारोह का किया गया आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्यनगर। प्रशासनिक-भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार ने एनटीपीसी ध्वजारोहण किया और सभी ने एनटीपीसी गीत गाया। साथ ही परियोजना प्रमुख (विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) राजेश भारद्वाज एवं अन्य महाप्रबंधकगण ने केक काटकर हवा मे गुब्बारे छोड़े और अपना हर्षोल्लास व्यक्त किया । इस भव्य अवसर पर एनटीपीसी विंध्याचल के महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष /अनुभागाध्यक्ष, अध्यक्षा सुहासिनी संघ श्रीमती सरोजा फणि कुमार, उपाध्यक्षा श्रीमती सुभा भारद्वाज एवं सुहासिनी संघ की अन्य पदाधिकारीगण, कमांडेंट इंचार्ज सीआईएसएफ पंकज बलियान एवं उनकी टीम, यूनियन/एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, सभी स्कूलों के प्राचार्यगण एवं अध्यापकगण, सभी कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहें। सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी-लिमिटेड, गुरदीप सिंह ने लाइव टेलिकास्ट के जरिये एनटीपीसी की सभी परियोजनाओं के कर्मचारियों को संबोधित किया। सिंह ने कर्मचारियों से पर्यावरण और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नवोन्मेषी, सुपुर्दगी उन्मुख होने और उच्च दक्षता, उच्च विश्वसनीयता और उच्च उपलब्धता प्रदर्शित करने की अपील की। सिंह ने सभी को एनटीपीसी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। सिंह ने देश की सेवा के लिए समर्पित कंपनी के अद्वितीय विकास में एनटीपीसी के प्रत्येक सदस्य की अटूट प्रतिबद्धता और योगदान की सराहना की।

बेंदापुल की मरम्मत के कार्यों से डीएम संतुष्ट नहीं

बाँदा। जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में एनएचएआई द्वारा जनपद बांदा स्थित बेंदाघाट में बने यमुना पुल के मरम्मत के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने एनएचएआई के मैनेजर को निर्देश दिये कि बेंदाघाट पुल के मरम्मतीकरण कार्य की प्रगति बहुत धीमी हो रही है, जिससे आवागमन में बहुत ही कठिनाई हो रही है, इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एनएचएआई के उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पुल की मरम्मत के समस्त कार्य को प्रत्येक दशा में गुणवत्ता के साथ तेज गति से दिसम्बर माह तक पूर्ण करायें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिये कि बेंदाघाट पुल के मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह विभाग के सम्बन्धित अभियंता द्वारा कराकर प्रस्तुत करें। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को पुल में कराये जा रहे कार्य की कार्ययोजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने तथा एक एनएचएआई के अधिकारी / अभियंता को कार्य में प्रगति लाने हेतु कैम्प ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि बेंदाघाट पुल के मरम्मत कार्य में तेजी लाकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें, इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जायेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री राजेश कुमार, सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री शंकर सिंह, अधिशाषी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उप जिलाधिकारी सदर एवं बबेरू सहित एनएचएआई के मैनेजर श्री पुनीत गर्ग उपस्थित रहे।

चकरोड के अवैध कब्जा धारकों को उपजिलाधिकारी ने सख्ती से हटाया

अवधनामा संवाददाता

राठ (हमीरपुर) तहसील के सुदूरवर्ती गांव रहँक में गुणवत्तापूर्ण शिकायत के निस्तारण के क्रम में चकरोड/ग्राम-समाज के रास्ते से अवैध कब्जे को उपजिलाधिकारी राठ ने सख्ती से हटवाया है और कब्जेधारकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए थाना-चिकासी में 03 अवैध कब्जेधारकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी। चकरोड/आम रास्ते पर अवैध कब्जेधारकों द्वारा बार-बार अवैध कब्जा किये जाने के क्रम में प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि ग्राम-रहक में वर्षों से चकरोड/ग्राम-समाज भूमि पर बार-बार कब्जे के संबंध में पीड़ित ग्रामीणों/काश्तकारों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस में लगातार दी जा रही शिकायतों के क्रम में आज स्थलीय निरीक्षण किया गया था। शिकायत के क्रम में उपजिलाधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने देखा कि लगभग पूरी चकरोड पर ही अवैध कब्जा धारक अपना कब्जा जमाए हुए हैं। जिससे कि उसे चकरोड से आने जाने वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी शिकायत को लेकर विगत दिवस उपजिला अधिकारी ने संबंधित तहसील कर्मियों के साथ पहुंचकर कब्जे को हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करवाई है। जिससे कि रहँक गांव वासी काफी प्रसन्न नजर आए।

एल्यूमिनी अवार्ड के लिए चयनित हुए भोला सिंह

सोनभद्र/सिंगरौली। भारत सरकार की मिनिरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के सीएमडी भोला सिंह को आईआईटी खड़गपुर के विशिष्ट एल्यूमिनी अवार्ड 2023 के लिए चयनित हुए हैं। उन्हे ये सम्मान व्यावसायिक उपलब्धियों और उनके देश के कोयला उद्योग में योगदान योगदान के लिए दिया जाएगा। सिंह ने 1987 में आईआईटी, खड़गपुर से खनन अभियांत्रिकी में बी.टेक (ऑनर्स) की शिक्षा प्राप्त की। आईआईटी खड़गपुर के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष विशिष्ट एल्यूमिनी अवार्ड (डीएए) संस्थान के पूर्व छात्रों को उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों और विभिन्न योगदानों लिए दिया जाता है।

मेगा इवेंट हक की बात कार्यक्रम का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन तथा दहेज हिंसा आदि के संबंध में संरक्षण, सुरक्षा तंत्र, सुझावों एवं सहायता हेतु मिशन शक्ति के अंतर्गत आज मेगा इवेन्ट हक की बात जिलाधिकारी के साथ पारस्परिक संवाद का आयोजन जिलाधिकारी राहुल पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में संपन्न हुआ। इस इवेंट में जिलाधिकारी ने बच्चों द्वारा पूछी गई बात/ जिज्ञासाओं को सुना तथा उनके उत्तर दिए। जिलाधिकारी ने महिलाओं द्वारा बताई गई समस्याओं को सुनकर उनके समाधान हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बच्चों को अपने भविष्य में एक गोल/ लक्ष्य तय कर उसके प्रति पूरी लगन ,मेहनत के साथ समर्पित होकर आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया तथा कहा कि कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अतः कठिन परिश्रम करें। कठिन परिश्रम ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को उपहार भेंट किया। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह ,डीपीआरओ जितेंद्र मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम शंकर पटेल ,जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी ,दर्जनों महिलाएं तथा बच्चे मौजूद रहे।

एनटीपीसी सिंगरौली 49 वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/शक्तिनगर) एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, शक्तिनगर सोनभद्र में 07 नवम्बर-2023 को 49 वें एनटीपीसी स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख राजीव अकोटकर, परियोजना प्रमुख द्वारा एनटीपीसी कर्मी सहित आम जन को सहयोग एवं समर्पित भाव से ऊर्जा उत्पादन में योगदान प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। एनटीपीसी ध्वजारोहण एवं एनटीपीसी गीत के सम्मान के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ7 एनटीपीसी की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि राजीव अकोटकर ने गर्व के साथ अवगत कराया है कि एनटीपीसी वर्तमान में 73,874 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली देश की प्रमुख विद्युत उत्पादक कंपनी बन गई है तथा चार दशक पुराना विद्युत गृह होने के बाद भी किफायती विद्युत उत्पादक कंपनियों में प्रमुख स्थान बनाये हुए हैं। सिंगरौली परियोजना की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए परियोजना प्रमुख ने कहा कि यूनिट स5 ने वित्त वर्ष 2023-24 में पीएलएफ़ 99.92त्न के साथ एनटीपीसी उत्पादन इकाइयों के बीच पीएलएफ़ में पहला स्थान दर्ज किया हैं एवं यूनिटस4 ने पीएलएफ़ 2023-24 में 100.68त्न लोडिंग फ़क्टर के साथ एनटीपीसी थर्मल प्लांट में पहला स्थान दर्ज किया हैं। इस अवसर पर माननीय गुरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अपने सम्बोधन द्वारा एनटीपीसी की भावी योजनाओं एवं एनटीपीसी की उपलब्धियों के बारे में बताया गया।

31 नर्सिंग होम्स हैं और 32 पैथालाजियां रजिस्टर्ड है जनपद में

- देव अल्ट्रासाउण्ड सेंटर पर चला प्रशासन का चाबुक सेंटर को सीएमओ ने किया सीज
- फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर सीएमओ के बाबू चला रहे है फर्जी नर्सिंग होम्स

अवधनामा संवाददाता

बाँदा। जनपद मे इन दिनों अवैध नर्सिंगहोम्स संचालित करने की बाढ आ गयी है और इसमें स्वास्थ विभाग की भूमिका सँदिग्ध है। किसी भी नर्सिंगहोम्स को संचालित करने के लिये एम बी बी एस डाक्टर का साथ होना अनिवार्य है , बिना एमबीबीएस डाक्टर के कोई भी चिकित्सकीय कार्य नही किये जा सकते हैं फिर जनपद मे साढे चार सौ नर्सिंगहोम्स कैसे संचालित हो रहै है। अभी हाल ही मे देव अल्ट्रासाउंड एंड डाइग्नोस्टिक सेंटर मे एक रोगी की मृत्यु चर्चा का विषय थी जिस पर आज उस अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज भी कर दिया गया है। कई नर्सिंगहोम्स तो ऐसे भी है जिनमे डाक्टरों की फर्जी डिग्रियां लगी हुयी है कुछ विदेश से एमबीबीएस करके आये है जिनकी डिग्रियां इन नर्सिंग होम्स मे लगी हैं जबकि अगर सूत्रो की माने तो किसी भी डाक्टर की डिग्री का सत्यापन अथवा नर्सिंगहोम्स का निरीक्षण किये बिना ही उनको तीस से चालीस हजार रूपये लेकर फर्जी रजिस्ट्रेशन पकडा दिया जाता है जिसमे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मुहर लगाकर दस्तखत होते हैं , ऐसे रजिस्ट्रेशन बबेरू तिंदवारी नरैनी जसपुरा कमासिन मे सैकडों की तादाद में पैसे लेकर बिना एमबीबीएस डाक्टर के पंजियन के बांटे गये है और अभी भी बांटे जा रहे हैं। ऐसा भी नही है कि सबकुछ सिर्फ एक बाबू ही कर रहा है इस खेल मे पूर्व एसीएमओ मनोज कौशिक भी शामिल थे जिनकी इन्ही कारगुजारियों के कारण उनको पदअवनति करके जिला चिकित्सालय महोबा मे चिकित्सक के रूप मे भेज दिया गया है , परंतु उनका खास बाबू अभी भी उन्ही के पदचिन्हो पर चलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन बांटकर धन एकत्र कर रहा है। जब भी सूचना अधिकार के अतंर्गत जब जानकारियां मांगी गयी तब कोई ना कोई बहाना बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहमति से सूचनायें देने से इंकार कर दिया गया , वहीं जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भेजी गयी तब जानकारी मे ये खुलासा हुआ है कि पूरे जनपद मे मात्र 31 नर्सिंगहोम , 32 पैथालाजियां , 21 अल्ट्रासाउंड, 4 पाली क्लीनिक और 20 क्लीनिक ही मापदंडो को पूरा करके रजिस्टर्ड शेष सभी अवैध हैं। अब देखना है कि कैसे ये फर्जी नर्सिंगहोम्स और अल्ट्रा साउंड सेंटर संचालित हो रहै है और जिलाधिकारी महोदया इस पर क्या निर्णय लेती हैं।

राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण से उनके रोजगार के नये द्वार खुल रहे हैं: केशव प्रसाद मौर्य

इस योजना में महिला राजमिस्त्रियों को भी दिया जा रहा प्रशिक्षण

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर और अधिक कुशल,दक्ष और हुनरमंद बनाया जा रहा है, इससे, मिस्त्रियों के लिए रोजगार के नये द्वार खुल रहे हैं और राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण से उनकी आय में बढ़ोतरी भी हो रही है , यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत बनाये जा रहे आवासों की गुणवत्ता में भी और अधिक सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुरूष / महिला को सर्टिफिकेशन के बाद बड़े जगहों एवं निर्माण एजेन्सियों में कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता के उपयोग के साथ उन्हें बेहतर मजदूरी भी मिलती है। ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण परिवारों के उत्थान के लिए सतत् प्रयासरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत रूरल मेसन ट्रेनिंग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपमुख्यमंत्री बताया कि प्रशिक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में राजमिस्त्रियों की पर्याप्त उपलब्धता से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी तथा लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होगे। विशेष बात तो यह भी है कि इस योजना में महिला राजमिस्त्रियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुरूषों के साथ महिला राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे महिला सशक्तीकरण एवं उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने तथा घरों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्रियों उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत रूरल मेसन ट्रेनिंग का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर जो राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हो, को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो राजमिस्त्री पहले से राजगीरी का काम कर रहे होते हैं ,उन्हें 15दिन का और जो व्यक्ति राजमिस्त्री का काम नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं और प्रशिक्षण लेने के इच्छुक होते हैं , तो उन्हें 45दिन का प्रशिक्षण देकर कुशल मिस्त्री बनाया जाता है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0) के ग्रामीण राजमिस्त्री अर्हता पैक (क्यू0पी0) के अनुसार दिया जा रहा है। प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दीन दलाय उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उ.प्र. भारत स्काउट और गाइड के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था की ओर से स्कार्फपहनाकर सम्मानित किया

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीपावली के पावन पर्व पर विधानसभा के अधिकारियों और कर्मियों के सम्मान में एक भोज का आयोजन कर उन्हें उपहार वितरित किया। इस अवसर पर माननीय विधायक राकेश गोस्वामी, विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक मौजूद रहे।

स्कूली छात्र-छात्राओं ने देखी हर घर जल योजना से बदलते गांव की तस्वीर

100 से अधिक स्कूली बच्चों ने गोंदौली स्कीम का किया भ्रमण

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना से यूपी के गांव-गांव में आ रहे बदलाव को राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित गांवों में स्कूली बच्चों ने मंगलवार को करीब से देखा और परखा भी। हर घर तक पहुंच रहे नल कनेक्शन और स्वच्छ पीने का पानी मिलने से ग्रामीणों को होने वाले फायदे भी जाने। वो पाइप पेयजल परियोजना पर भी गए और यहां ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही सप्लाई की प्रक्रिया को देखा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूली बच्चों को बूंद-बूंद जल बचाने के लिए प्रेरित भी किया गया। मौका था जल जीवन मिशन की ओर से आयोजित जल ज्ञान यात्रा का। इसमें नवोदय विद्यालय पिपरसंड व पीएम केन्द्रीय विद्यालय सीआरपीएफ बिजनौर के 100 से अधिक छात्र शामिल हुए। भावी पीढ़ी को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का सहभागी बनाने के लिए लखनऊ के सरोजनीनगर में आयोजित जल ज्ञान यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें शामिल छात्र-छात्राओं को पीएम श्री केन्द्रीय विद्धालय सीआरपीएफ के प्रधानाचार्य आरके सिंह, नवोदय विद्धालय की प्रधानाचार्य साधना शुक्ला व योजना के जिला समन्वयक डॉ. हरपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले छात्र-छात्राओं को सरोजनीनगर स्थित गोंदौली पेयजल परियोजना ले जाया गया। यहां उनको ओवरहैड टैंक और पंप हाउस की कार्यप्रणाली समझाई गई। उनको क्लोरीनेशन रूम दिखाया गया। सप्लाई किए जाने से पहले पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है ये भी दिखाया गया। ओवरहैंड टैंक देखने के बाद छात्रों ने गोदौली गांव का भी भ्रमण किया।

कैंसर जागरूकता शिविर में बताए कैंसर से बचने के उपाय

लखनऊ। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर यू पी प्रेस क्लब सभागार में मंगलवार को कैंसर मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें विशेष रूप से केजीएमयू के चिकित्सक डॉ सुनीत मिश्र ने बताया कि कैंसर से आयुर्वेदिक चिकित्सा से अपनी दिनचर्या व खान पान से बचा जा सकता है। लखनऊ कैंसर इंस्टिट्यूट की निदेशक निर्मला पंत ने कहा कि कैंसर के मरीज को अथाह तकलीफ होती है और चार स्टेज में कैंसर बढ़ता है जिसमें पहली दो स्टेज में तो दवा व थेरेपी से ठीक होता है और अगली स्टेज में सर्जरी एकमात्र उपाय है। फाउंडेशन की अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी ने बताया कि कैंसर जांच भी हुई जो जांचे 20 हजार में होती है उन जांचों को फाउंडेशन की ओर से मात्र 150 से 200 रुपये में किया जा रहा है। कैंसर मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी को कैंसर पीड़ितों की मदद हेतु संकल्प कराया गया।

कांग्रेस ने अदनान अशरफ को बनाया राजस्थान की 8 विधानसभाओं का पर्यवेक्षक

अवधनामा ब्यूरो

नई दिल्ली/लखनऊ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ को 8 विधानसभाओं का पर्यवेक्षक नियुत किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी के आदेशानुसार अदनान अशरफ को 2 जिलों झालावाड़ और बारा के लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं क्रमश किशनगंज, अंता, बारून- अतरू, छाबड़ा, दाग, झालरापाटन, खानपुर और मनोहर थाने का चुनावी प्रयवेक्षक बनाया गया है और इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को चिट्ठी जारी कर दी गई है। झालावाड़ और बारा जिले की लोकसभा की सभी विधानसभाएं हॉट सीट के लिए जानी जाती है क्योंकि यहां से भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती है। इस संबंध में अदनान ने बताया कि मैं एनएसयूआई के समय से ही राजस्थान से जुड़ा रहा हूं और राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से समझता हूं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे प्रभारी बनाकर जो जिम्मेदारी दी है उस कर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और कर्नाटक की विधासभा की सीटों की तरह राजस्थान में भी सीटें जिताने में मदद करूंगा और राजस्थान की जनता दोबारा से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपने कार्यकाल में राजस्थान की जनता को बेहतरीन सौगाते, सुशासन की, रोजगार की और सामाजिक स्थिरता की सरकार दी है और कांग्रेस सरकार की बदौलत ही वहां आज महंगाई पर काबू है और कांग्रेस की तमाम जनकल्याणकारी नीतियां दोबारा से कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम करेंगी। अदनान अशरफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी का पर्यवेक्षक बनाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और ज्ञात रहे कुछ दिन पूर्व ही अदनान अशरफ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है

उज्ज्वला योजना: आनंद ने किया निःशुल्क गैस चूल्हा वितरण

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और समाज सेविका नम्रता पाठक ने आज लखनऊ पूर्व विधानसभा में भाजपा महिला मोर्चा की नगर महामंत्री रीना चौरसिया द्वारा आयोजित उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस चूल्हा वितरण कार्यक्रम में उपस्थित होकर लाभार्थियों को गैस चूल्हा वितरित किया। नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने एवं मोदी जी की कई योजनाओं की जानकारी देते हुए 2024 में पुनः मोदी सरकार को लाने की अपील की और मोदी जी के नेतृत्व में देश के निरंतर विकास की चर्चा की। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम पूर्व विधानसभा विवेकानंदपुरी वार्ड के महानगर ए के पी गैस में किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ की हर विधानसभा से उपस्थित लाभार्थी बहनो को नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, अनुराग पांडे, वंदना पांडे बबिता, कुसुम, राधा,पूजा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

समय के साथ रहना होगा अपडेट नहीं तो हो जाएंगे डिलीट: आशीष पटेल

अवधनामा ब्यूरो

एकेटीयू में टीपीओ संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल

लखनऊ। डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में मंगलवार को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग की ओर से कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे की अध्यक्षता में टीपीओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के संबद्ध संस्थानों के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर शामिल हुए। इसमें छात्रों को अधिक से अधिक प्लेसमेंट कराने और उनके प्रशिक्षण को लेकर मंथन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी ने मेंटर एंड मेंटी पोर्टल और ट्रेनिंग कोर्सेस पोर्टल लांच किया। साथ ही उनकी मौजूदगी में चार बड़ी कंपनियों से एमओयू हस्तांतरण किया गया। आगामी महीनों में विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाले दो बड़े कार्यक्रम मेगा जॉब फेयर और एचआर कॉन्क्लेव को लांच किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि हमें समय के साथ खुद में बदलाव लाते रहना चाहिए। जरूरी है कि छात्रों को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार तैयार किया जाए। जिससे कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें रोजगार मिलने में कोई कठिनाई न आने पाये। छात्रों को नई उभरती तकनीकी से भी जोड़ना होगा। क्योंकि जो अपडेट नहीं होता वह अपने आप डिलीट हो जाता है। कहा कि किसी भी सरकार का प्रयास अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। इस कार्य में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की भूमिका सबसे अहम है। उन्होने कहा कि हर कॉलेज में टीपीओ अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे छात्रों के लिए वर्कशॉप और प्रशिक्षण दिया जाता है उसी तरह टीपीओ के लिए भी समय-समय पर बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षण कराना होगा।

यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भाजपा मुख्यालय लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया।

कृषि मंत्री ने की विभागीय समीक्षा

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा मंगलवार को सचिवालय कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में कृषि आच्छादन तथा वितरण की स्थिति, कृषि यंत्रों के वितरण, दलहन-तिलहन के मिनीकिट वितरण तथा उर्वरक उपलब्धता के विषय में विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान शाही ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ किसानों को शीघ्र तथा निर्बाध रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलहन-तिलहन के मिनीकिट जिनका वितरण अभी तक नहीं हो पाया है शीघ्र ही उन्हें बांट दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। कृषि यंत्रों के विषय में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाय जिससे जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ मिल सके। उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने कहा कि खपत तथा मांग के सापेक्ष वर्तमान में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है। रबी सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा 35.12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी, सचिव तथा निदेशक कृषि डॉ. राजशेखर तथा अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

लागू होगी सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना : दयाशंकर

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की बसों द्वारा घटित हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चालकों हेतु ''सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना'' 01 जनवरी, 2024 से लागू किये जाने का निर्णय निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया। इससे चालकों में सुरक्षित बस संचालन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप एक बड़ी धनराशि जनधन की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है तथा बस के क्षतिग्रस्त हो जाने से संचालन प्रभावित होता है। इससे राजस्व की भी हानि होती है। परिवहन मंत्री ने बताया कि चालकों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब एक कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि में चालकों को कम से कम 264 दिन ड्यूटी तथा 66000 किमी0 बस का संचालन किया जाना आवश्यक होगा।

कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए 5713.02 लाख स्वीकृति

लखनऊ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत 4519.00 लाख, मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण हेतु 671.96 लाख, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की पना हेतु 50.00 लाख, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बाँदा में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 22.06 लाख, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बाँदा में टाइप-5 के आवासों के निर्माण हेतु 450.00 लाख रुपयों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

चकबंदी आयुक्त ने की कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक

05 अधिकारियों का वेतन काटते हुए मांगा स्पष्टीकरण

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। जी0एस0 नवीन कुमार चकबन्दी आयुक्त, की अध्यक्षता में आज सर्किट हाउस, वाराणसी में विन्ध्याचल मण्डल व वाराणसी मण्डल की चकबन्दी कार्यो की समीक्षा ग्रामवार की गयी। समीक्षा बैठक में दोनों मण्डलों के उप संचालक चकबन्दी/अपर जिलाधिकारी/ मुख्य राजस्व अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन कुमार ने बताया कि समीक्षा बैठक में 10 वर्ष से अधिक पुराने ग्रामों में त्वरित रूप से कार्य कर उक्त ग्रामों में धारा 52 की कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि जनपद मिर्जापुर के ग्राम गौरा, मदईयां, अमोई आदि व जनपद सोनभद्र के ग्राम भैसवार जनपद वाराणसी के ग्राम कमौली, अजगरा, टिकरी आदि व जनपद चन्दौली के ग्राम महुजी कुरहना व जनपद जौनपुर के ग्राम ढेमा, सुरीश, लखेसर, खपड़हा, लखवा आदि एवं जनपद गाजीपुर के ग्राम बेलसड़ी, चौरहीं, रायपुर बाघपुर इत्यादि ग्रामों की समीक्षा की गयी। वहीं, वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में अधिकारीवार भी समीक्षा की गयी एवं जौनपुर में अत्यधिक अपील लम्बित होने पर जनपद जौनपुर में 01 अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तैनात किये जाने का निर्देश निदेशालय के अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि वादों के पारदर्शी एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भी आदेश पारित किये जाएं, वह स्पीकिंग एवं गुणदोष पर पारित किये जाय तथा ग्राम अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक वादों को लगाकर गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाय, जिससे वादकारियों को सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। नवीन कुमार द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल ग्रामों में जिन ग्रामों के अभिलेख जीर्ण-शीर्ण हैं. उनका डिजिटल फोटो/स्कैनिंग कराने का भी निर्देश दिया गया।

महाप्रबंधक ने उत्तर रेलवे की कार्य प्रगति की समीक्षा की

संरक्षा को बेहतर बनाने में उत्कृकष्क योगदान देने वालों को संरक्षा पुरस्कार दिए गए

- **स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि**
- **गतिशीलता वृद्धि, संरक्षा और ढांचागत कार्यों की समीक्षा**
- **बीडीयू के माध्यतम से माल लदान और आय में वृद्धि पर बल**

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने आज उत्तलर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में उत्तधर रेलवे के विभागाध्ययक्षों और मण्डल रेल प्रबंधकों के साथ उत्त,र रेलवे की कार्य प्रगति की समीक्षा की । बैठक में स्टेवशनों पर प्ले टफार्मो का विस्तोर, प्लेउटफॉर्मों के लेवल में वृद्धि, वॉशेबल एप्रनों, दूसरे प्रवेश द्वार का प्रावधान, फुट-ओवर ब्रिजों, एस्केरलेटरों, दिव्यांगजनों के लिए लिफ्टों की सुविधा, मुख्य प्रवेश द्वार सहित स्टेनशन भवन का सुधार जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्धय कराने पर चर्चा की गयी। उन्होंपने गतिशीलता वृद्धि, विकासात्मकक बुनियादी कार्यों, मालभाड़ा लदान और रेलपथों पर संरक्षा की भी समीक्षा की।

कार्य-प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ, महाप्रबंधक ने रेल यात्रियों और रेल संपत्ति, की संरक्षा और सुरक्षा में उच्चष मानकों को बनाए रखने में अपना योगदान देने वाले 5 सजग कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने बताया कि सर्कुलेटिंग एरिया में सीएसआर निधि के जरिये शौचालय के निर्माण के लिए उत्तर रेलवे के अनेक रेलवे स्टेनशनों को चुना गया है। उन्होंने रेलगाड़ियों की समयपालनबद्धता के बेहतर रिकॉर्ड को बनाए रखने और गतिशीलता को बढ़ाने से संबंधित कार्यों में तेजी लाने तथा कार्यो की प्रगति की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्हों ने रेलपथों और वैल्डों के अनुरक्षण मानकों को बेहतर बनाने तथा रेलपथों के निकट पड़े स्क्रैप को हटाने के लिए जोन पर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने पेडों की छटाई करने और रेलपथों के आसपास उग आई वनस्पातियों को साफ किए जाने के कार्यों का जायजा लिया।

चौधुरी ने रेल परिचालन में मानवीय असफलताओं को कम करने तथा रेल दरारों और रेल वैल्डोंध की गहन निगरानी करने पर बल दिया। उन्हों ने कहा कि इन कामों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उन्हों ने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति और रेल परिचालन से संबंधित निरीक्षणों को बढ़ाने के लिए कहा।

उन्हों ने बताया कि खाद्यान्नों एवं अन्यि मदों के लदान में प्रत्ये क गुजरते माह के साथ वृद्धि हुई है।

उत्तहर रेलवे अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। लोकभारती इंटर कॉलेज, गीतापल्ली, आलमबाग में राष्ट्रीय कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें स्कूली छात्र -छात्राओं ने नाट्य प्रस्तुति द्वारा संदेश दिया कि जागरूकता ही कैंसर जैसी जटिल बीमारी से बचाव का एकमात्र विकल्प है ,बच्चों ने कैंसर से बचाव के तरीकों व कारण पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाइई। विद्यालय के प्रबंध निदेशक नमन दीक्षित ने बताया कि गंभीर मुद्दों पर विद्यार्थी बहुत ही सरलता के साथ संदेश देते हैं इसी को ध्यान में रखकर विद्यालय में विशेष दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं .प्रधानाचार्य ममता दीक्षित ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालय की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया।